







# નાના માણિ

અમૃતા પ્રીતમ



प्रथम संस्करण

अप्रैल, १९६५

प्रकाशक :

राजपाल एण्ड सन्ज

कश्मीरी गेट, दिल्ली-६

मुद्रक :

राष्ट्रभाषा प्रिंटर्स, दिल्ली

मूल्य :

दो रुपये पचास पैसे

---

NAAGMANI : AMRITA PRITAM : NOVEL

अलका और कुमार के नाम

“दुःखों वाला डलडू तूं मेरे कन्ने देई दे !  
ता होई जा अगाड़ी मेरे माहणुयां !  
ओ पखलिया माहणुयां !”\*

[ \*“दुःखों की डलिया तूं मुझे दे दे !  
और तुम आगे चलो राही !  
ओ मेरे अजनबी राही !” ]

## नागमणि

वत्ती के चारों तरफ पीतल की छलनी जैसा खोल चढ़ा हुआ था। कुमार जब भी इस वत्ती को जलाता, वत्ती की रोशनी पीतल के सुराखों में से दूध की धाराओं की तरह बहने लगती जिससे कमरे की दीवारें और कमरे का फर्श रोशनी से छिटका हुआ दिखता। यह वत्ती कमरे की छत में लगी हुई थी। दूसरी वत्ती कुमार की मेज पर लगी हुई थी। वत्ती के माथे पर पीतल का एक ढक्कन लगा हुआ था जिससे छितराकर इस वत्ती की रोशनी मेज पर रखे हुए शीशे के प्याले में उंडलती थी, और प्याला हर समय छलकता हुआ दिखाई देता। कुमार जब कुछ सोच रहा होता तो उसकी मेज की वत्ती बुझी हुई होती, और छत की वत्ती जल रही होती थी। पीतल के सैकड़ों सुराखों में से छितराती हुई वत्ती की रोशनी जिस तरह सैकड़ों अलग-अलग धारारों में बटी हुई होती थी, कुमार के ख्याल भी सैकड़ों अलग-अलग लकीरों में चलते थे। पर जब कभी उसके मन में ये लंकीरें जुड़ जातीं तो वह छत की वत्ती बुझाकर मेज की वत्ती जला लेता था। रोशनी एक ही जगह जमा होकर शीशे के प्याले को भरने लगती, और कुमार के मन में जुड़ी हुई तस्वीर उसके सामने पड़े हुए कागजों पर उतरने लगती।

आज कुमार पिछ्ले तीन घंटों से अपनी मेज पर सिर झुकाए काम में जुटा हुआ था। अलका ने मेज के पास रखे हुए स्टूल पर काफी का प्याला रखते हुए धीरे से चम्मच को खनखनाया ताकि

कुमार को मालूम हो जाए कि उसने काफी का प्याला रख दिया था । पर कुछ मिनटों बाद अलका ने देखा कि काफी का प्याला उसी तरह रखा हुआ था, और कुमार उसी तरह मेज पर सिर झुकाकर काम में जुटा हुआ था ।

अलका ने मुंह से कुछ कहे वगैर प्याले को थोड़ा-सा सरका दिया । कुमार ने प्याले की ओर इस तरह देखा जैसेकि खिड़की में आती हुई हवा से खिड़की की सांकल हिलने की आवाज़ आई हो । सांकल फिर जैसे स्थिर हो गई हो, और कुमार का ध्यान जैसे अपनी मेज पर केन्द्रित हो गया हो ।

अलका को कुमार के स्टुडियो में आकर काम सीखते हुए छः महीने होने को आए थे; और अलका को छः महीने में नहीं, पहले महीने में ही मालूम हो गया था, कि जिस समय कुमार काम करता हो, अलका की कही हुई किसी बात में, या प्याले के चम्मच में, अथवा खिड़की की सांकल में कोई अन्तर नहीं रहता । इसलिए अलका मुंह से कुछ न बोली ।

करीब आधे घण्टे के बाद कुमार ने मेज से सिर उठाया । जब वह बहुत थक जाता तो उसके माथे पर एक नाड़ी उभर आती । इस नाड़ी का कसाव उसकी आँखें भी महसूस करतीं । उसने एक मिनट आँखें बन्द कीं, और फिर माथे की नाड़ी को अपने पोरों से सहलाते हुए उसने अलका की ओर देखा, “काफी का एक प्याला मिलेगा ?”

अलका ने स्टूल पर रखे हुए प्याले को उठाया, और कमरे से सटे हुए छोटे बरामदे में चली गई । रसोई कुछ दूर पड़ती थी, इसलिए कुमार ने चाय बनाने का सामान बरामदे में रख छोड़ा था । चूल्हे पर पानी रखकर अलका ने प्याले की ठण्डी काफी को गिरा दिया और प्याला धोने लगी ।

गर्म काफी का प्याला लेकर अलका जब लौटकर कमरे में आई तो कुमार मेज पर के कागज को ध्यान से देख रहा था ।

“आज इतनी खुशबू कहां से आ रही है ?” कुमार ने इस तरह पूछा जैसे वह खुशबू को नजर गड़ाकर ढूँढ़ रहा हो ।

अलका ने भी तस्वीर की ओर गर्दन घुमाई, और फिर तस्वीर

की लड़की के बालों में टंगे हुए फूलों की ओर देखती हुई कहने लगी, “इन फूलों से आ रही होगी !”

अलका के हाथ से काफी का प्याला पकड़ते हुए कुमार खिल-खिलाकर हँस पड़ा, “अभी मैंने अपना होश इतना नहीं खोवा कि कागज पर बनाए हुए फूलों में से मुझे खुशबू आने लगे !”

अलका चुप साधे रही। उसने दीवान के पाये के पास पड़ी हुई चौकी की ओर देखा, जैसे कह रही हो कि इतनी होश ज़रूर जाती रही है कि कमरे में पड़े हुए ताजे फूल अभी तक दिखाई नहीं दिए थे। ये फूल अलका ने सुवह आते ही कमरे में लगा दिए थे।

“ओह……” कुमार ने होश में होने का दावा वापिस ले लिया, और काफी का गर्म घूट भरते हुए कहने लगा, “पर यह आदत नहीं डालनी चाहिए थी !”

“कैसी आदत ?”

“काफी की आदत……फूलों की आदत……”

“और ?”

“पैसे की आदत……शोहरत की आदत……औरत की आदत……”

“और अपने-आप की आदत ?”

“क्या मतलब ?”

“अपने-आप की आदत भी नहीं डालनी चाहिए। कभी किसी माइकेल ऐंजेलो की माइकेल ऐंजेलो रहना चाहिए, और कभी उसे बाजार के एक कोने में बैठा हुआ हलवाई भी बन जाना चाहिए। कभी नमक-तेल बेचनेवाला बनिया, और कभी पान-बीड़ी बेचनेवाला……”

कुमार हँस दिया, “तुम समझ नहीं पाई हो अलका ! एक अपने-आप की आदत-भर के लिए वाकी कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि अपने-आपकी पूरी आदत केवल तभी पड़ सकती है जब आदमी वाकी आदतों से मुक्त हो जाए !”

“यह मैं मानती हूं। पर मेरे विचार में शोहरत और औरत में बहुत फर्क होता है !”

“किसी आदत और आदत में कोई अन्तर नहीं होता……मैं एक

बार...”

“चुप क्यों हो रहे ?”

“तुम्हारी जगह अंगर कोई दूसरी लड़की होती तो मैं शायद चुप रहता । किसीको भी कुछ बताने की मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी । ज़रूरत अब भी कोई नहीं । पर शायद बताने में कुछ हर्ज नहीं । तुम मुझे गलत नहीं समझोगी ।”

“मुझे भी खुद पर भरोसा है ।”

“मैं यह बताने चला था कि एक बार मुझमें ऐसी भूख जगी कि मैं कई दिन सो न सका । वह सिर्फ जिस्म की भूख थी, एक औरत के जिस्म की भूख । पर मैं किसी भी औरत के साथ अपनी जिन्दगी के साल बांधने के लिए तैयार न था, कभी भी तैयार नहीं हो सकता । इसलिए कुछ दिन मैं ऐसी औरत के पास जाता रहा जो रोज़ के बीस रूपये लेती थी, और मेरी स्वतंत्रता को कभी नहीं मांगती थी ।”

अलका ने कुछ नहीं कहा । सिर्फ नज़र गड़ाकर उसने कुमार के चेहरे की ओर देखा ।

“तुम मेरे मन की बात समझो हो क्या ?”

“हाँ ।”

“या तुम सोचती हो कि मैं एक बच्चा आदमी नहीं हूँ ?”

“नहीं, मैं यह नहीं सोचती ।”

“पर तुम कुछ सोच रही हो...”

“हाँ ।”

“क्या ?”

“...कि मैं वह औरत होती जिसके पास आप रोज़ बीस रूपये देकर जाया करते थे !”

“अलका !”

कुमार के हाथ में पकड़ा हुआ काफी का प्याला कांप गया । पर अलका उसी तरह निष्कंप खड़ी रही, जिस तरह वह पहले खड़ी थी । कुमार ध्वराकर दीवान पर बैठ गया ।

“मैं कह रही थी कि शोहरत और औरत में बड़ा फर्क होता है ।”

“मैं समझा नहीं ।”

“दोहरत किसीको अपने-आपको समझते में यद्दृश नहीं करते, और न ही प्रसा करता है। पर औरत किसीको अपने-आपको सन-भने में उसी तरह मदद करती है, जिस तरह किसीको यात्रा उत्तरी नदद करती है।”

“कला व्यग्रित का ही एक अंग होती है—जैसे... याजू या शूष्म-पांव।”

“मुहब्बत भी अपना ही एक अंग होती है। अपनी आँखों की तरह, या अपनी जबान की तरह। शायद इनसे भी अधिक। वह आँखें नहीं, आँखों की नजर होती है। नजर भी नहीं—एक गुह्यता-नजर होती है...”

“मेरा नुस्खा-नजर बिल्लुल अलग है, अलग !”

“वह मैं जानती हूँ।”

“यह तुम्हारे नुस्खा-नजर ने कभी मैल नहीं ला सकता !”

“शायद !”

“शायद नहीं, यह नहीं है।”

“मैंने यह नहीं कहा कि यह कभी मैल ला जाए...”

“फिर...”

“मैंने कुछ नहीं कहा !”

“पर तुमने यह क्यों कहा कि तुम...”

“...कि मैं वह औरत होती जिसके पास आप बीत रखये रोज देकर जाया करते थे ?”

“तुमने यह क्यों कहा ?”

“रखये कामाने के लिए...”

इस बार अलका हँस पड़ी, पर कुमार की हँसी उसके गले में ही सकपका गई।

“क्यों, यह ठीक नहीं ? बीत रखये रोज के कमनी हैं यहाँ ?”

“तुम-सो नंभीर लड़की...”

“मैं सचमुच ही बड़ी नंभीर हूँ।”

“हाँ, अपने काम में तो सच है...”

“मैं जिन्दगी में भी यैसी ही हूँ।”

“फिर तुमने यह वात कैसे कही ?”

“इसीलिए कि मैं बहुत गंभीर हूँ ।”

“वह गंभीर वात है ?”

“इतनी कि इससे अधिक गंभीर वात कोई और नहीं हो सकती ।”

“मैं इसे यूँ नहीं समझ पाऊँगा, अलका ! नहीं तो मैं दिल में सलता रहूँगा ।”

“फिर भूल जाइए कि मैंने यह वात कही थी ।”

“तुम भूल सकोगी इस वात को ?”

“मैं कभी याद नहीं दिलाऊँगी ।”

“हम रोज़ वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले करते रहे हैं ?”

“हम रोज़ वैसे ही काम करते रहेंगे जैसे पहले करते रहे हैं ।”

“हम कभी व्यक्तिगत वातें नहीं करेंगे ।”

“हम कभी व्यक्तिगत वातें नहीं करेंगे ।”

“हम सिर्फ अपने काम से वास्ता रखेंगे ।”

“हम सिर्फ अपने काम से वास्ता रखेंगे ।”

“तुम मेरी जिन्दगी में कोई दखल न दोगी ।”

“मैं आपकी जिन्दगी में दखल नहीं ढूँगी ।”

“विशेषकर मुहब्बत की वात नहीं करोगी ?”

“विशेषकर मुहब्बत की वात नहीं करूँगी ।”

“अलका !”

“जी ।”

“तुम यूँ बोलती जा रही हो, जैसे कोई बच्ची मास्टर के सामने ‘दो दूनी चार’ का पहाड़ा पढ़ रही हो ! तुम सीरियस क्यों नहीं हो ?”

“मैं विलकुक सीरियस हूँ । मैं सारे वचनों को इस तरह दुहरा रही हूँ जैसे गुरु से मंत्र लेते समय कोई गुरु के शब्दों को दुहराता है ।”

कुमार ने अपने माथे की उभरी हुई नाड़ी को उंगलियों से मला और कहने लगा, “मैं तुम्हें विलकुल नहीं समझ सकता, अलका !”

“पर मैं अपने-आपको समझ सकती हूँ ।”

कुमार ने अभी तक मेज़ की बत्ती नहीं बुझाई थी । उसने एक

बार मेज पर पड़े हुए कागज की ओर देखा, और फिर मेज की बत्ती बुझाकर छत की बत्ती को जला दिया।

छत की बत्ती की रोशनी पीतल की चुरानी में से पतली-पतली धाराओं में बटकर बहने लगी। कमरे की दीवारों और फर्श पर रोशनी छिपाने लगी। पर कुमार को रोशनी से भीगे हुए फर्श पर पांच रखते हुए लगा, जैसे इस गीले फर्श से उसका पांच फिसल जाएगा।

## २

आज से पहले कुमार को जब किसी औरत का सपना आया था, वह औरत हमेशा ऐसी होती थी जिसका याद रहने योग्य कोई चेहरा नहीं होता था। जिस औरत का कोई चेहरा न हो, उस औरत की कोई पहचान नहीं होती। जिस औरत की कोई पहचान न हो, उस औरत की कभी तलाश नहीं होती। और जिस औरत की कोई तलाश न हो, उसके लिए दिल में कोई दर्द नहीं होता। कुमार को इस तरह का कोई वेसिर-पैर का सपना हमेशा तभी आता था, जब उसके जिस्म में औरत के जिस्म के लिए भूख जगती थी। और यह भूख कुमार के जिस्म में कभी-कभार ही जगती थी। इसलिए जब कभी भी कुमार को यह सपना आता था, वाद में इसकी याद कुमार को भूल जाती थी।

पर आज रात में कुमार को जो सपना आया, उसकी याद कुमार को साल रही थी। इस सपने में उसने औरत का चेहरा देखा था। चेहरे को पहचाना था, और उसे उर था कि कहीं यह पहचान उसकी तलाश न बन जाए। तलाश हमेशा रिक्ते वांधती है। और वह अपनी कला के सिवा किसी चीज से कोई रिक्ता नहीं बांधना चाहता था।

रात अपने आखिरी पहर तक कजरा आई थी। बुनार ने पहले छत की बत्ती जलाई। पर फिर रोशनी की बीकड़ी धाराओं से घबराकर उसने बत्ती बुझा दी। वह एकाग्र होना चाहता था—एकमन होना चाहता था। उसने अपनी मेज की बत्ती जलाई। चाहे उसने

मेज पर अभी कोई काम नहीं करना था, पर मेज की वत्ती की रोशनी उसे अच्छी लगी। पीतल के एक छोटे-से ढक्कन की आड़ रोशनी को विखरने से बचाकर एक स्थान पर केन्द्रित कर रही थी।

‘कितनी साधारण-सी बात है... मैं यूं ही घबरा रहा था। मन के विचारों को भी एक जगह केन्द्रित करने के लिए एक छोटे-से ढक्कन की जरूरत होती है—एक छोटी-सी आड़ की जरूरत होती है !’ और कुमार के मन में एकदम यह ख्याल आया कि कला ही रोशनी होती है, और कला ही उसकी आड़ !

कुमार ने अपने लिए चाय का एक प्याला बनाया, और अपनी कुर्सी पर बैठकर बक्त से पहले ही काम करना शुरू कर दिया।

सूरज की पहली किरण निकलते ही कुमार को अलका का ख्याल आया। शायद इसलिए, कि ज्यों-ज्यों दिन चढ़ रहा था, अलका के आने का समय हो रहा था।

‘मेरा ख्याल है कि मेरे जिस्म में फिर से कोई भूख जग रही है—मुझे औरत का सपना इस भूख के बिना नहीं आ सकता.....’ और कुमार ने सोचा कि वह कुछ दिनों के लिए अपना स्टुडियो बन्द करके किसी शहर में चला जाए। दस दिन शहर में रहकर वह अपनी इस भूख को मिटा आए। फिर लौटकर अपने काम में उसी तरह डूब सकेगा जिस तेरहे वह पिछले कई महीनों से ढूबा हुआ था। कुमार की यह जमीन और उसका स्टुडियो कांगड़ा बादी में पपरौला स्टेशन में करीब डेढ़ मील के फासले पर था।

कुमार अपने कागज और कपड़े-लत्ते संभाल रहा था कि अलका ने दरवाजा खटखटाया।

“मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूं।”

“पठानकोट या अमृतसर ?”

“शायद पठानकोट तक। तुम इतने दिन यहीं अकेली रहना चाहोगी या अमृतसर जाना चाहोगी—अपने पिताजी के पास ?”

“मैं यहीं रहूंगी।”

“मुझे शायद ज्यादा दिन लग जाएं।”

“सो ठीक है।”

“शहर से कुछ लाना हो तो मुझे बता दो।”

“अपने रंग और कागज देख लीजिए। कम हों तो लेते आइएगा।”

“अभी पीछे मंगवाए थे—कम से कम छः महीने जरूरत नहीं पड़ेगी।”

“मुझे काफी काम समझा जाइए। पीछे करती रहूंगी।”

“जितनी भी मेहनत करोगी कम है।”

कुमार अलका से वातें भी कर रहा था और सूटकेस में कपड़े भी संभाल रहा था।

“मैं तहा दूँ कपड़े ठीक से? नहीं तो सारे सूटकेस में नहीं आएंगे।”

“अच्छा, तुम ये कपड़े तहाओ। तब तक मैं अपनी पैंट ले आऊं। कल प्रैस के लिए दी थी।”

“इसमें कुछ मैले कपड़े भी पड़े हुए हैं। इन्हें धो डालूँ? दो घण्टे में सूख जाएंगे।”

“रहने दो! मैं शहर से धुलवा लूँगा।”

“पर गाड़ी तो दुपहर में छूटेगी न? अभी काफी देर है।”

“अच्छा धो डालो...। पर तुम खुद क्यों धो रही हो? अभी हरिया आएगा, उससे धुलवा लेना।”

अलका ने कोई जवाब न दिया। कुमार पैंट लेने के लिए चल दिया।

धोकी पेशे का आस-पास कोई आदमी नहीं था। कुमार ने बैजनाथ को जाती सड़क पर चाय की दुकान वाले पहाड़िये को शहर से लोहे की प्रैस ला दी थी। वही समय-असमय कुमार के कपड़े धोकर उनपर प्रैस कर दिया करता था। कल जब कुमार ने वहाँ अपनी पैंट दी थी तो उसे शहर जाने का ख्याल तक न था। अब जब वह पैंट लेने के लिए गया तो पैंट धुल चुकी थी, पर उसी तरह सिलवटों-सहित पड़ी हुई थी। कोयले हवाते और प्रैस गर्म करते हुए कुछ देर हो गई। इसलिए कुमार जब पैंट लेकर वापिस आया तो अलका ने उसके मैले कपड़े धोकर सूखने फैला दिए थे।

“हरिया नहीं आया ?”

“आया था । घड़ा ले गया है भरने को ।”

कुमार को रात के अंधरे में शहर की आकस्मिक तैयारी जितन स्वाभाविक लगी थी, दिन के उजाले में वह उतनी स्वाभाविक नह लग रही थी । हाथ की पैंट अलका को देते हुए उसे ख्याल आया वि अलका उसकी इस तैयारी के बारे में कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रह थी । और उसने चाहा कि अलका कुछ पूछे । चाहे कुछ ही पूछे ! सिर्फ इतना ही कह दे कि पीछे गांव में इतने दिन अकेले रहते उसे डर लगता है । चाहे वह कुमार के स्टुडियो में पहले भी नहीं रहती थी । उसने आध मील के फासले पर एक घर में ऊपर का चौबारा किराये पर ले रखा था । फिर भी उसे कुमार की उपस्थिति का सहारा था । और कुमार के मन में आया कि अगर अलका अकेली रहने की बात चला दे, तो वह एक-दो बार उसे समझाकर अपना शहर जाना स्थगित कर देगा । शहर जाने के लिए उसके दिल में कोई उमंग नहीं थी । किसी तरह की भी जिस्मानी भूख उसमें नहीं जगी हुई थी, और अलका जैसे-जैसे सूटकेस तैयार करती जा रही थी, उसे लग रहा था जैसे उसे जबरदस्ती शहर भेजा जा रहा हो ।

“तुम पीछे डरोगी नहीं ?” कुमार ने खुद ही कुछ देर बाद पूछा ।

“डर ? मुझे ? … मुझे काहे का डर है !” अलका ने जबाब दिया, और सूटकेस को बन्द करके चाबी कुमार को दे दी । चाबी पकड़ते हुए अलका ने सौ-सी रुपये के दो नोट भी कुमार को दिए ।

“यह क्या ?”

“दो महीनों के रुपये आप एकसाथ ले लीजिए । शहर में ज़रूरत होगी ।”

“मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी ? खर्च-भर के लिए मेरे पास होंगे ।”

“सूटकेस में वैंक की पासबुक रखते हुए मैंने पासबुक देखी थी । सिर्फ सी रुपये हैं वैंक में ।”

“इतने ही काफी हैं । जाने का किराया तो है ही । वापिसी में वैंक से सी रुपया निकलवा लूँगा ।”

“पर वहां ज़रूरत पड़ेगी । दस दिन भी रहे तो वीस रुपये रोज़

के हिसाब……”

“अलका !”

कुमार के माथे पर पसीने की वूदें उभर आईं। उसे लगा कि अलका की मोटी-मोटी और चुपचाप आंखें पारदर्शिनी हैं। उन्होंने कुमार के मन में रेंगते सारे खयालों को देख लिया था। उसे अलका की आंखों पर भी गुस्सा आया, पर ज्यादा गुस्सा उसे अपने खयालों पर आया जो केंचुए की तरह उसके मन में रेंग रहे थे। केंचुए की तरह जो किसीका कुछ नहीं विगड़ते, पर उनकी सुस्ताई चाल से चिढ़ आ जाती है। कुमार को खुद ही अपने खयालों से चिढ़ आने लगी।

किसी भी केंचुए को अगर तिनका छुआ दें तो वह कुछ देर के लिए इस तरह निर्जीव हो जाता है, जैसे कभी उसमें कम्पन न आया हो, और वह शुरू से ही एक रस्सी का टुकड़ा हो। कुमार को भी लगा कि उसके मन में डर का जो केंचुआ रेंग रहा था, अलका के छूने से रस्सी का एक टुकड़ा बन गया था।

“अगर तुमने यही सोचा है कि मैं शहर इसीलिए जा रहा हूँ, तो नहीं जाता……”

कुमार ने अपने मन में छुपे हुए डर को रस्सी के टुकड़े की तरह हाथ में लेकर कहा।

“हमने इकरार किया था कि हम कभी व्यक्तिगत वातें नहीं करेंगे। मैं उस इकरार पर कायम हूँ।” अलका ने कहा। उसने शहर जाने या न जाने की वात का कोई जवाब न दिया।

कुमार मिनट-भर को चुप रहा। पर वह चुप्पी बोलने से भी अधिक पैरी थी। बोलने से चाहे व्यक्तिगत वातें न करने का इकरार ढूटता था, पर कुमार को लगा कि इस चुप्पी से तो बोलना आसान था।

“पर तुमने खुद ही वात छेड़ी थी।”

“मैंने सिर्फ रूपये दिए थे, वात नहीं छेड़ी थी।”

“पर वह वात तुम्हारे मन में थी। वह तुम्हें भूली नहीं थी।”

“मैंने कोई वात भुलाने का इकरार नहीं किया था। सिर्फ चुप

रहने का इकरार किया था ।”

“पर वह वात याद रखने का तुम्हें कोई हक नहीं ।”

“अपनी याद पर सबका अपना हक होता है ।”

“पर अलका—आखिर तुम उस वात को याद क्यों रखना चाहती हो ?”

“इस ‘क्यों’ के सवाल में मत पड़िए । इसका अंत कहीं न होगा । अच्छा हो, अगर हम अपने उसी पहले इकरार पर कायम रहें, कि हम कभी व्यक्तिगत वातें नहीं करेंगे ।”

कुमार ने चुप रहने का जो इकरार अलका से चाहकर लिया था, वही इकरार, कुमार को लगा, एक ऐसा अंधेरा था, जिसमें हर चीज डरावनी लगती है । कुमार किसी चीज से डरना नहीं चाहता था । इसलिए उसे लगा कि इस इकरार ने एक अनचाहा अंधेरा भरकर वड़ी मासूम वातों को भी भयानक बना दिया था । सारी वातों को उनकी मासूमियत में देखने के लिए कुमार ने सोचा कि वह अलका के साथ चुप न रहकर वातें करेगा । आखिर अलका एक सुलझी हुई लड़की थी ।

“यहां मेरे पास बैठ जाओ, अलका !”

“जी ।”

“सच वताओ, मुझसे डर लगता है ?”

“वात उलझाकर मत पूछिए ।”

“उलझाकर ?”

“आप जानते हैं कि मुझे आप से डर नहीं लगता । डर वास्तव में किसीको भी किसीसे नहीं लगता । डर हमेशा इत्सान का अपने से लगता है ।”

“तुम्हारा मतलब है मुझे खुद से डर लगता है ?”

“जी ।”

“अलका !”

“जी ।”

“तुम मुझपर यह इल्जाम किस तरह लगा सकती हो ?”

“मैंने इल्जाम नहीं लगाया । सिर्फ एक वात कही है ।”

“पर यह गलत है।”

“अगर गलत है, तो आप अचानक शहर किसलिए जा रहे हैं?”

“शहर जाने के लिए मुझे कई काम हो सकते हैं।”

“आप जानते हैं, कि आपको कोई काम नहीं।”

“चलो मान लिया, कोई काम नहीं। शायद यही काम हो कि मैं अपनी जिसमानी भूख बुझाने के लिए शहर जा रहा हूँ, पर यह भी तो एक काम है।”

“इस काम के लिए शहर जाने की क्या ज़रूरत है?”

“पर यहाँ...” कुमार के गले में उसकी सांस अटक गई। पर अपने अटके हुए सांस को खींचकर उसने कहा, “यहाँ शहरों-सा कोई इंतजाम नहीं।”

“मैं हर तरह से उस लड़की से अच्छी हूँ जो वीस रुपये रोज़ लेकर...”

“अलका !”

“जी !”

“तुम्हें क्या हो गया है, अलका ! तुम एक शरीफ लड़की हो, शरीफ मां-बाप की बेटी !”

“इसमें शराफत का ख्याल कहाँ से आ गया ?”

“रुपया लेकर जिसम देना शराफत नहीं है।”

“क्यों ?”

“क्योंकि यह शराफत नहीं।”

“फिर इस हिसाब से रुपये देकर जिसम को लेना भी शराफत नहीं।”

कुमार चूप हो गया। अलका फिर बोली, “अगर आप अपने लिए शराफत को ज़रूरी चीज़ नहीं समझते, तो मेरे लिए क्यों ज़रूरी समझते हैं ?”

“मेरी बात और है अलका !”

“सिर्फ यही, कि मर्दों के लिए एक वह चाज़ भी शराफत होती है, जो औरत के लिए नहीं होती !”

“यह बात नहीं, अलका !”

“फिर ?”

“मैं कभी किसी एक चीज के साथ अपने-आपको नहीं जोड़ता, इसलिए मेरी कीमतों का असर सिर्फ मुझपर पड़ेगा। पर कल तुम्हारा विवाह होना है। तुम्हारा वास्ता सिर्फ तुमसे नहीं होगा, किसी दूसरे से भी होगा। उसकी कीमतें वे नहीं होंगी, जो मेरी और तुम्हारी कीमतें हो सकती हैं।”

“इसका जवाब मैं इस समय सिर्फ इतना ही दूंगी, कि मेरी जैसी लड़की सिर्फ अपनी कीमतों को ही स्वीकार कर सकती है, किसी और की कीमतों को नहीं।”

“यह भी मान लेता हूं। चाहे मैं जानता हूं कि यह बात तुम्हारे वस की नहीं। तुम क्या, किसीके वस की भी नहीं ! पर मेरी मुश्किल दूसरी है।”

“मैं आपकी मुश्किल को जानती हूं।”

“नहीं, तुम नहीं जानती !”

“जरूरत पड़ने पर आप सिर्फ उस औरत के पास जाना चाहते हैं, जिस औरत का कोई चेहरा न हो और जिस औरत का कोई नाम न हो। क्योंकि चेहरे और नाम से पहचान तक बात आ जाती है, और यह पहचान कभी मन में कोई संबंध जोड़ देती है।”

“हां, अलका !”

“ए फेसलैस्स वूमैन, ए नेमलैस्स वूमैन !”

“हां, अलका !”

“मैं अपने-आपको फेसलैस्स भी बना सकती हूं, और नेमलैस्स भी !”

“पर, अलका ! क्यों ?... क्यों ?”

“इस ‘क्यों’ का जवाब मैं नहीं दूंगी।”

“क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं !”

“इसके कई जवाब हो सकते हैं।”

“मसलन ?”

“मसलन यह, कि शायद मुझे रूपयों की जरूरत हो।”

“यह जवाब गलत है। तुम मुझे काम सीखने का साँ रूपया देती

ही। सौं रूपया महीना कम नहीं। फिर तुम अपने रहने का, पहनते का, खाने का खर्च भी खुले हाथों करती हो। तुम्हारे पिता अंसीर हैं.....”

“फिर हो सकता है, कि यह मेरी जिस्मानी ज़रूरत हो।”

“यह जवाब भी गलत है।”

“क्यों?”

“मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं। पर मेरा दिल कहता है, कि यह जवाब गलत है। तुम खुद ही वताओ कि क्या यह गलत नहीं!”

“हाँ, यह जवाब मलत है।”

“फिर?”

“मैंने कहा था कि मैं इसका जवाब नहीं दूँगी। इसलिए चुप हूँ।”

“पर मैं इसका जवाब जानना चाहता हूँ।”

“आप नहीं समझेंगे। मैं वता भी दं, तो भी आप नहीं समझेंगे।”

“क्यों?”

“क्योंकि बहुत-सी वातों पर हमारे नुक्ता-नज़र अलग हैं। आपने खुद ही कहा था, कि हमारे नुक्ता-नज़र आपस में कभी नहीं मिल सकते।”

“मैंने कहा था...पर मैं कोशिश करूँगा, कि तुम्हारा नुक्ता-नज़र समझ सकूँ। समझकर भी शायद मान न सकूँ, पर समझने की कोशिश ज़रूर करूँगा।”

“समझाने और मनाने में मेरा कोई विश्वास नहीं।”

“फिर?”

“समय खुद समझा लेगा। मना भी लेगा।”

“किसे? मुझे या तुम्हें?”

“इसे भी समय के फैसले पर रहने दीजिए।”

अलका के कहने पर जव कुमार ने सब कुछ समय के फैसले पर छोड़ दिया, तो अलका को दो सौ रुपये लौटाता हुआ कुमार बोला—

“ये रुपये ले लो। अभी मुझे नहीं चाहिए।”

“और चाही?”

कुमार हँस पड़ा, "चावी भी ले लो। सूटकेस खोल दो। मैं शहर नहीं जा रहा।"

"और शहर जाकर जो काम करने थे ?"

"मुझे कोई काम नहीं।"

"वह वीस रुपये रोज़ का काम ?"

"कोई ज़रूरी नहीं।"

डर की बात को बोलकर निडर होने का जो तजुर्वा कुमार ने किया था, उसी तजुर्वे के ज़ोर को आजमाने के लिए कुमार ने कुछ देर बाद अलका से कहा :

"अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो तुमसे कह दूँगा।"

"अच्छा।"

"तुम मेरे लिए उस औरत की तरह होगी, जिसका कोई नाम नहीं होता, या उसका कोई भी नाम हो सकता है।"

"यह तो बहुत बड़ा दर्जा है !"

"क्या भत्तलव ?"

"खुदा का भी कोई नाम नहीं होता, और उसका कोई भी नाम हो सकता है !"

"छोटी बातों को खुदा से मिला दें, तो वे बड़ी नहीं हो जातीं।"

"कई बातें ऐसी भी होती हैं जो छोटी होने या बड़ी होने से बेनियाज होती हैं !".

"जिस चीज़ की कीमत वीस रुपये से चुकाई जा सकती हो, वह बात हमेशा छोटी ही रहेगी, बड़ी नहीं हो सकती !"

कुमार की पसलियों में आग की एक लपट-सी दौड़ गई। उसने अलका को अपनी दोनों बांहों में कसकर उसके होंठ से एक लम्बा धूंट इस तरह भरा, जैसे वह दो होंठों से उसकी सारी जान पी जाना चाहता हो। आग की लपट की तरह कुमार के जिस्म में कुछ सुलगा, और जिस समय कुमार ने अलका के अंग-प्रत्यंग को अपने से लगा लिया, तो उसे लगा कि उसने अलका को अपने जिस्म से नहीं,— आग की लपट में लपेट लिया था। यह अलका को तोड़ देने की जिद थी।

कुमार जब अलका से अलग होकर एक तरफ खड़ा हो गया तो अलका ने अपने जिस्म से ढलके हुए कपड़ों को खींचकर एक सलवटी चादर की तरह अपने पर ओढ़ लिया, और कुमार से कहा, “मेरे रूपये ?”

कुमार ने पैंट की जेब से वीस रूपये निकाले, और अलका ने हाथ घढ़ाकर रूपये ले लिए।

“सिर्फ वीस रूपये !” कुमार हँस पड़ा। पर उसकी हँसी जाने कैसी थी; वह खुद ही अपनी हँसी से डरकर दीवार की ओर देखने लगा।

“सोने का कलश चढ़ाकर भी कोई ईश्वर को नहीं खरीद सकता। पर कोई पूजा का एक फूल चढ़ाकर भी ईश्वर को खरीद लेता है।” अलका ने कहा, और एक-एक करके कपड़े पहनने लगी।

“व्या मतलब ?”

“कुछ नहीं।”

“इस तरह वीस रूपये कमानेवाली औरत को क्या कहा जा सकता है ?”

“औरत !”

“अलका !”

“मैं एक वेश्या नने का दावा भी उसी आसानी से कर सकती हूँ, जिस असानी से बीवी बनने का।”

“मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ सकता, अलका !”

“पर मैं अपने-आपको समझ सकती हूँ।”

कमरे की दोनों वत्तियां बुझी हुई थीं। खिड़कियों पर नीली और काली धारियों वाले मोटे पद्म लटक रहे थे। पर बाहर से सूरज की रोशनी पर्दों की झिलमिली से छनकर कमरे की दीवारों पर और फर्श पर विखर रही थी, और रोशनी से भीगे हुए फर्श पर पैर रखते हुए कुमार को लगा जैसे इस गीले फर्श से उसका पांव फिसल जाएगा।

दांच दिन गुजर गए। अलका रोज नियमपूर्वक आती और काम करती। उस घटना की छाया भी उसके साथ कमरे में न आती। छठे दिन सुबह ही अलका आई तो कुमार अपना तीलिया तहाकर चमड़े के एक बैग में रख रहा था।

“आज फिर शायद जाने की तैयारी है?”

“वह तैयारी छोटी थी, यह तैयारी बड़ी है। तुम भी मेरे साथ चलोगी। हरिया नाश्ता तैयार कर रहा है, उसे कह दो कि कुछ ज्यादा बना ले।”

“कितने दिन के लिए?”

“एक ही दिन के लिए।”

कुमार और अलका जब पगड़ंडी पर चलते हुए सामने पहाड़ की घगल में पहुंच गए तो एक पहाड़ी नदी के किनारे खड़े होकर कुमार ने हाथ का बैग एक पत्थर पर रखा दिया।

“नहाओगी तुम?”

“मैं अपने साथ कोई कपड़ा नहीं लाई।”

“इस बैग में एक नीली चहर रखी है।”

नदी का पानी जो सारी रात डरे हुए पत्थरों से बातें करता रहा था, अब सूरज की किरणों से खेल रहा था। अलका ने बैग से चहर निकाल ली और पत्थर की आड़ में जाकर कपड़े उतारने लगी। नीली चादर को बदन से लपेटकर जब उसने पानी में पैर रखा, जंगली फूलों की एक टहनी पानी में तैरती हुई अलका के पास आ गई। अलका ने टहनी के आगे का हिस्सा तोड़कर अपने बालों में टांग लिया।

कुमार अलका की बायीं ओर के पानी में नहा रहा था। अलका ने एक नजर कुमार को देखा, और फिर पानी में आहिस्ता-आहिस्ता चलती हुई कुमार के पास से गुजरी, और काफी दूर जाकर उसका सीध में ठहर गई। पानी बहुत गहरा था। खड़े रहते पानी कमर से छूता था। अलका घुटनों के बल पानी में बैठ गई।

अलका ने हाथों में हरे कांच की पांच-पांच चूड़ियां पहनी हुई थीं। पानी में डूबी हुई कलाइयों पर चूड़ियां ऐसे लग रही थीं जैसे उसने बांहों पर हरे पत्ते लपेटे हुए हों। अलका बांहें फैलाकर पानी काटती तो चूड़ियां खनक उठतीं।

अलका ने कई बार अपनी ठुड़ढ़ी और आधे मुख को पानी में डुबो कर पानी को अपनी आँखों से छुआया। अलका पानी की उत्तराई की ओर थी, और जो पानी अलका के बदन को छूकर निकलता था वह दूर से कुमार के बदन को छूकर आ रहा था। अलका की आँखें बड़े अदव से इस पानी को छूती रहीं।

अलका की चूड़ियों की खनक चाहे ऊँची नहीं थी, पर इस गहरी खामोशी में वह कुमार के कानों को सुनाई दे रही थी। कुमार इस खनक से बचने के लिए कई बार सीध से हटा। एक बार वह खिलकुल ही पानी के बायें किनारे तक चला गया। अलका ने वही सीध ले ली। कुमार किनारा बदलकर पानी के बायें किनारे पर आ गया। अलका ने फिर सीध बदल ली। जितनी देर, और जो भी पानी कुमार के बदन को छूकर आ रहा था, अलका उसे अपने अंग-अंग में भर लेना चाहती थी।

कुमार ने शायद अलका के इस खिलवाड़ को भांप लिया, और इस खिलवाड़ को तोड़ने के लिए वह पानी से बाहर आ गया। अलका भी पानी से बाहर होने लगी, तो कुमार फिर पानी में उत्तर गया और तेजी से तैरता हुआ अलका तक आ गया।

भपटकर कुमार ने अलका का हाथ पकड़ा और झल्लाकर अलका के बदन से लिपटी हुई चादर खेंच ली। चादर की तरह ही उसने अलका को अपनी बांहों में कस लिया और फिर खौलते हुए होंठों से उसने अलका के होंठों को इस तरह पिया जैसे वह अलका की सारी जान के साथ इस पहाड़ी नदी का पानी भी पी जाएगा।

कुमार ने टूटकर जब अलका को छोड़ा तो अलका के होंठ उसी तरह साबुत थे, अलका की छाती उसी तरह सांस ले रही थी, और नदी का पानी उसी तरह वह रहा था। कुमार को लगा कि न वह अलका के सांस पी सकता था, वौर न नदी का पानी। वह किनारे के

पत्थरों पर इस तरह जा बैठा जैसे सैकड़ों पत्थरों में एक पत्थर और बढ़ गया हो ।

अलका ने किनारे पर आकर कपड़े पहन लिए और नीली चादर को निचोड़कर सूखने के लिए एक बड़े पत्थर पर फैला दिया ।

“नाश्ता डाल दूँ ?” अलका कुमार के पास आकर खड़ी हो गई, और नाश्ते का डिब्बा खोलकर प्लेट पोंछने लगी ।

कुमार काफी देर तक अलका के पैरों की ओर देखता रहा, और फिर लपककर उसने अलका के पैरों को मरोड़ा ।

“ये पैर इस तरह नहीं, इस तरह होने चाहिए थे ।”

“किस तरह ?”

“एड़ी आने होनी चाहिए थी, और उंगलियां पीछे ।”

“क्यों ?”

“क्योंकि जिन्नी के पांव उलटे होते हैं ।”

“जिन्नी क्या होती है ?”

“भूत-प्रेतों की जाति की जिन्नी ।”

“हर जिन्नी के पैर उलटे होते हैं ?”

“मैं छोटा-सा था । हमारे पड़ोस में एक बूढ़ा रहता था । वह मुझे जिन्नियों के किस्से सुनाया करता था ।”

“उसने जिन्नी देख रखी थी ?”

“वह कहता था कि उसने अपनी जवानी में एक जिन्नी पकड़ी थी थी ।”

“फिर ?”

“वह बताया करता था कि जिन्नी का पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है । कई-कई रातों शमशान में जाकर बैठना पड़ता है । वह पहले बहुत डरती है, अगर आदमी डर जाए तो वे खुद पकड़ी न जाकर उस आदमी को पकड़ लेती हैं ।”

“फिर उसने जिन्नी कैसे पकड़ी ?”

“उसने उसे पांवों से पहचान लिया था । वह कहता था कि हर जिन्नी का नाक-मुङ्ह बैसा ही होता है जैसे किसी सावारण औरत का । जिन्नी के मुङ्ग की ओर कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसके

पैर उलटे होते हैं, और उसे पैरों से पहचानकर पकड़ लेना चाहिए !”

“पर पकड़ने का फायदा ?”

“वह बूढ़ा कहा करता था कि अगर एक बार जिन्नी पकड़ में आ जाए तो सारी उमर कोई फिकर नहीं रहता । जब आपका दिल हलवा खाने का हो वह हलवा ला देती है, जब आपका दिल नये कपड़े पहनने का हो तो यह कपड़े ला देती है । वह तरह-तरह का खाना ला सकती है । वह हैरान कर देनेवाली चीज़ें आपके कदमों में लाकर रख सकती है ।”

“फिर उस बूढ़े ने जिन्नी छोड़ क्यों दी ?”

“वह कहता था कि रोज़ रात को उसे जिन्नी से मेनका का नाच देखने की आदत पड़ गई थी । रात को जिन्नी मेनका के कपड़े पहन-कर और पैरों में धुंधरू बांधकर मेनका का वह नाच दिखाती जो सिर्फ इन्द्र के दरवार में होता है ।”

“फिर ?”

“आस-पड़ोस में शोर मच गया कि रात को यहां से धुंधरूओं की आवाज आती है । इसलिए लोगों से तंग आकर उसने जिन्नी को छोड़ दिया ।”

“आपने उस बूढ़े से जिन्नी पकड़ने का तरीका पूछा था ?”

“जब मैं छोटा था तब मैं उस बूढ़े से जिन्नी पकड़ने का सारा ढंग पूछकर एक बार जिन्नी पकड़ने के लिए गया था ।”

“फिर ?”

“अमावस की रात थी । उसने बताया था कि जिन्नी सिर्फ अन्धेरी रात में ही पकड़ी जा सकती है ।”

“फिर ?”

“मुझे बड़ा दिलेर समझा जाता था । कुछ अपनी दिलेरी से, और कुछ मशहूरी की भेंप में मैं आधी रात को चल निकला । अभी श्मशान तक पहुंचा था । बाहर के पेड़ों के पास ही मुझे डर लगने लगा । एक घने पेड़ में से कोई जानवर बोला, और मैं उलटे पांव भागा……”

“शायद वह जिन्नी हो जो पेड़पर चढ़कर बोली हो...”

“उस बूढ़े ने मुझे बताया था कि सबसे पहले जिन्ना के परों में वह हुए धुंधरओं की आवाज़ चुनाई देती है।”

“इसका मतलब है कि हर जिन्नी को नाचने की कला आती है।”

“शायद।”

“पर मुझे तो यह कला नहीं आती।”

“सो तुमने यह मान लिया कि तुम जिन्नी हो ?”

“पर सीधे पैरों वाली जिन्नी, और सीधे रास्तों वाली !”

“यह सीधा रास्ता है ?”

“आप इसे उलटा भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई तस्वीर को उलटी ओर से देखे तो उसे वह उलटी ही दिखाई देती है।”

“मैं उलटी ओर खड़ा हूँ ?”

“हमने कल सोचा था कि हम किसी बात का फैसला नहीं करेंगे, हमारी हर बात का फैसला समय करेगा।”

कल की तरह आज भी कुमार ने अलका की बात मान ली, और सारी बात समय के फैसले पर छोड़ दी। उसने चुपचाप अलका के हाथ से प्लेट पकड़ ली, और नमकीन परांठे का एक कौर तोड़कर शहद की कटोरी में डुबोया और दायें पैर के अंगूठे से ज़मीन को खरोंचने लगा।

अलका ने थर्मोस की काफी प्याले में डाली और प्याला कुमार की तरफ बढ़ा दिया।

“मैं सोच ही रहा था कि अगर हम चाय या काफी भी ले आते... एक बात उस बूढ़े ने ठीक कही थी।”

“व्या ?”

“कि जिन्नियां कई तरह के खाने सजाकर जब भी चाहें आपके लिए परस सकती हैं।”

“पर आप उस बूढ़े से एक बात पूछनी भूल गए !”

“व्या ?”

“आपने जिन्नी पकड़ने का तरीका पूछ लिया, पर जिन्नी से अपने-

आपको छुड़ाने का तरीका नहीं पूछा।”

“वही तरीका मैं खोज रहा हूं। खोज लूँगा।”

“आज इस नदी पर यही तरीका ढूँढ़ने आए थे ?”

“अगर सच पूछो तो, यही तरीका ढूँढ़ने आया था... कल रात...”

“कल रात कोई तरीका सूझा था ?”

“कल रात सपने में मैंने यह नदी देखी थी।”

“मैं भी नदी के किनारे बैठी हुई थी या नहीं ?”

“इसी तरह नीली चट्ठार लपेटकर तू इस नदी में नहा रही थी।”

“और मेरे बालों में फूल भी टंगे हुए थे ?”

“मैंने फूलों की यह टहनी तोड़कर पानी में यूंही नहीं फेंकी थी। तुम्हारे बालों में लगाने के लिए ही मैंने पानी में रखी थी।”

“फिर ?”

“सपने जब तक सच नहीं बनते, वे इन्सान के पीछे ही पड़े रहते हैं...”

“और आपने पीछा छुड़ाने के लिए इस सपने को सच करके देख लिया।”

“हाँ।”

“रात को मुझे भी एक सपना आया था।”

“इस नदी का ?”

“नहीं।”

“फिर ?”

“मैंने देखा कि मैं आपके काम करने के मेज पर एक कागज रखकर उसपर इंचों के निशान लगा रही हूं।”

“फिर ?”

“निशान लगा-लगाकर मैं थक रही, पर वह कागज जादू के जौर से जैसे बढ़ता ही गया।”

“फिर ?”

“फिर मैंने उस कागज से पूछा कि वह मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहा था।”

“फिर ?”

“अजीव वात है। जब मैं कागज से वातें करने लगी तो वह कागज भी मेरे साथ वातें करने लगा।”

“यूंडैम !”

“उस कागज ने मुझे वताया कि वह मेरे सपनों का कागज था, और मैं चाहे सारी उमर उसपर इंचों के निशान लगाती रहूँ, वह कभी खत्म नहीं हो सकता था।”

“यूंडैम . . .”

“जिन्नी उर्फ डैविल !”

“चल अब नाश्ता करके लौट चलें। आज सवेरे से कोई काम नहीं किया।”

“चलो कुछ धण्टे काम कर लें, क्या पता कल सवेरे फिर आना पड़े।”

“यहां ?”

“यहां नहीं। शायद उस पहाड़ की चोटी पर जाना पड़ेगा।”

“क्यों ?”

“क्योंकि सपने हमेशा बढ़ते रहते हैं। चेतन प्रयास के पैर चाहे उलटे हों पर सपनों के पैर सीधे होते हैं। आज वे इस नदी तक आए थे, कल पहाड़ की चोटी पर चढ़ेगे . . .”

कुमार भीचक्का होकर अलका की ओर देखने लगा। उसे लगा कि वह स्वतन्त्रता के जिस शिखर पर खड़ा था, किसी दिन यह अलका उसे वहां से इस तरह खींचेगी कि वह शिखर से फिसलकर मुहब्बत की गहरी खाई में जा पड़ेगा।

## ४

‘प्रयास के पैर चाहे उलटे हों, पर सपनों के पैर सीधे होते हैं,’ अलका की वह वात कुमार के कानों में एक कांटे की तरह कई दिन चुभती रही। . . . और फिर एक रात कुमार को सपना आया कि वह एक गद्दी मर्द की तरह अपनी कमर से एक लम्बा और काला रस्सा बांधकर

जंगल में भेड़ों चरा रहा था। भेड़ों को चराते-चराते उसे बड़ी भूख लगी। पर आसपास के चश्मे के पानी के सिवा कुछ न था। पानी की उसने दो अंजुलियां पी थीं कि उसे लगा पानी उसके खाली पेट में चुभने लगा था। वह कलेजे पर हाथ रखकर कंटीले भाड़ों को मुँह मारती हुई भेड़ों की तरफ देखने लगा।... फिर उसने आंखें मलीं और देखा कि सुनसान जंगल में एक परी उत्तर आई थी। खाल की मोटी जूती उसने पैरों में पहनी थी जिससे वह बिना आहट के ठुमुक-ठुमुक चल रही थी। सिर पर उसने लाल रंग का अंगरखा बांध रखा था, और उसकी हरी कमीज की कमर से काले रेशम की एक रस्सी बंधी हुई थी। दोनों बांहें ऊपर उठाकर उसने सिर पर एक हंडिया उठाई हुई थी, जिससे उसके चेहरे का काफी हित्सा उसकी बांहों में छुपा हुआ था। कुमार एक पेड़ की ओट में हो गया, ताकि वह परी जब पेड़ के पास से गुज़रे, वह उस तरफ से उसका मुख देख सके। जिस पतली-सी पगड़ंडी पर वह परी चलकर आ रही थी, वह पगड़ंडी इस पेड़ के पास से गुज़रती थी। यहां कुमार पेड़ की एक टहनी पर हाथ रखकर खड़ा था। वह परी जब पेड़ के पास आई तो उसने सिर से हंडिया उतारकर पेड़ के तने से टिका दी और सिर का लाल अंगरखा उतारकर तने के पास बिछा दिया। हंडिया में रखे हुए पकवान की खुशबू कुमार के कलेजे में इस तरह मंडराने लगी कि वह पेड़ की ओट से हटकर हंडिया के पास आ गया। उसे इतनी भूख लगी हुई थी कि अगर वह हाँड़ी पेड़ के तने की बजाय परी के सिर पर भी रखी होती तो वह एक भटके से हंडिया छीन लेता।

‘न...न...न...’ परी ने कहा, और कुमार का हाथ पकड़कर उसने उसे जमीन पर बिछे हुए अंगरखे पर बिठा दिया। हंडिया का ढक्कन भी परी ने अपने हाथों से उतारा, और फिर भरी-भराई हंडिया कुमार के सामने रख दी। कुमार अपनी भूख पर लजा गया, इससे आंख उठाकर वह परी के चेहरे की ओर देखने का साहस न कर सका। वह दोनों हाथों से हंडिया में से पकवान निकालकर खाने लगा। कुमार ने जब भरपेट खा लिया तो उसने लजाई-सी आंखों से परी की ओर देखा। देखा, और देखता रह गया। अलका

उसके सामने खड़ी थी।

कुमार जब सोकर उठा तो उसने हाथ से अपने बदन को छुआ। उसकी कमर से कोई रस्सी नहीं वंधी थी। पर उसे लगा कि अलका सारी की सारी एक रस्सी बन गई थी जो रात को सपनों में भी उसके साथ वंधी रहती थी।

आज कुमार ने सोचा कि सपनों को मानने की जगह, और उनकी जिद पूरी करने की जगह वह एकदम बेलिहाज होकर इन सपनों को पूरा करने से इन्कार कर देगा। नदी का सपना उसने पूरा करके देख लिया लिया था। कुछ न बना था। सपने अब भी उसके पीछे पढ़े हुए थे।...

मुबह अलका आई। उसके आने तक कुमार ने अलमारी में से एक गद्दिन पोशाक निकालकर बाहर रख ली थी। यह पोशाक बहुत पहले कुमार ने एक मेले में खरीदी थी, और उसने सोचा था कि किसी दिन वह अलका को यह पोशाक पहनाकर एक तस्वीर पेंट करेगा। कुमार ने मेज पर नया कैनवस लगा लिया।

“गुसलखाने में जाकर कपड़े बदल लो।”

“अच्छा।”

“यह जूती कुछ बड़ी लगती है, पर ठीक है।”

“यह कमीज भी खुली है।”

“यह खुली ही होती है। कमर में जब यह काली रस्सी बांध लोगी तो यह खुली नहीं लगेगी।”

अलका जब कपड़े बदल आई तो खुले बाल लिए कुमार की कुर्सी के सामने घुटने टेककर बैठ गई, और बोली, “चोटियां बना दो, जैसी गद्दिनों की लम्बी, पतली चोटियां होती हैं।”

कुमार ने नहीं, पर कुमार के हाथों ने एक मिनट के लिए कहना मानने से इन्कार कर दिया। पर फिर कुमार ने चुपचाप अलका की चोटियां बना दीं।

“अंगरखा में खुद बांध लेती हूं, पर यह रस्सी मुझसे ठीक नहीं वंधी।” अलका ने कहा और काले रेशम की रस्सी कुमार के हाथ में दे दी।

कुमार ने जब अलका के गिर्द बांहें डालकर रस्सी को लपेटा तो उसने चौंककर अलका के मुंह की आर देखा। सारी की सारी अलका से वह खुशबू आ रही थी जो कुमार को रात में सपने की हँडिया से आई थी।

कुमार ने एक कसीस लेकर अलका की कमर में रस्सी बांध दी, पर उसे लगा कि उसे बड़ी भूख लगी हुई थी। सुवह का नाश्ता लिए अभी आधा घण्टा भी नहीं हुआ था। पर भरपेट किया हुआ नाश्ता न जाने कहां चुक गया था।

“काम करने से पहले कुछ खा लें। तुम्हें भूख नहीं लगी ?”

“मैं अभी नाश्ता करके आई हूं।”

“नाश्ता मैंने भी किया था।”

“काफी बना दूँ ?”

“नहीं, कुछ नहीं चाहिए।”

कुमार ने जिद में आकर कुछ खाने-पीने से इन्कार कर दिया, और अपपने ब्रशों को रंगों में भिगोने लगा।

रंगों ने, और रंगों में से उभरती तस्वीर ने कुमार की जिद रख ली। अद्वाई घण्टे बीत गए। भूख कुमार को भुलाए रही। फिर एक अजीब बात हुई। कुमार को ज्योंही तस्वीर में एक हाँड़ी बनाने का ख्याल आया कि भूख कलेजे में मंडलाने लगी।

“भुझे काफी बना दो अलका ! अगर हरिया कहीं वाहर दिखता है तो उसे कह दो, नहीं तो खुद बना दो।”

हरिया कुमार का पहाड़ी नौकर था। काफी-चाय बनाता-बनाता आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ सीख गया था। पर उसका ज्यादा समय पानी भरने में कटता था। पीने का पानी कुमार जिस चश्मे से मंगवाया करता था, वह चश्मा कुछ दूर था। इसलिए अलका ही बक्त-बेबक्त चाय बनाती।

अलका जब काफी बनाकर लाई तो कुमार ने काफी के प्याले को सूंधकर देखा। प्याले में से काफी की गंध आनी थी कि कुमार ने एक लम्बा सांस खींचकर अलका के हाथों को तीन-चार बार सूंधा। अलका के हाथों से वही गंध आ रही थी जो रात में कुमार को सपने

की हांडी से आई थी। और कुमार को डर लगने लगा कि जिस तरह उसने सपने में उस हंडिया के पकवान को वेसबरी से खाया था, उसी तरह वह अलका के जिस्म को भी वेसबरी से खाने लगेगा।

पर आज कुमार ने सपनों से वेलिहाज होने की जिद ले रखी थी। काफी का एक लम्बा धूट लेकर कुमार ने कहा—

“अगर तुम्हें सारी उमर यही कपड़े पहनने पड़ें अलका !”

“तो अलका उर्फ गद्दिन बन जाऊंगी, जिस तरह अलका उर्फ जिन्नी बनी थी, या अलका उर्फ डैविल बनी थी !”

“अलका उर्फ परी ! मैंने रात सपने में तुम्हें एक परी समझा था।”

“परी का मतलब होता है परोंवाली। फिर आपने झुंझलाकर परी के पंख नहीं तोड़ दिए ?”

कुमार एक मिनट सोच में पड़ गया। फिर हारी हुई हँसी से कहने लगा, “तुम मुझे क्या समझती हो अलका ? वहुत वेरहम दिल हूं मैं !”

“रहम की मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए किसीके रहम-दिल होने या वेरहम होने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता।”

“पर तुम यह तो सोचती हो कि मैं परी के पंख तोड़ देनेवाला आदमी हूं।”

“ज़रूरत पड़े तो उसके पैर भी तोड़ देनेवाला आदमी !”

कुमार चूप हो गया। फिर धीरे से बोला, “यह तुमने ठीक कहा है अलका। जिस रास्ते पर मैं जाना न चाहूं, अगर मेरे पैर मेरे कहने में न हों, तो मैं ऐसा आदमी हूं जो अपने पैर भी तोड़ ले।”

“मैं जानती हूं।”

“रात को सपने में मैंने देखा था कि मैं जंगल में भेड़ें चरा रहा हूं... सबेरे उठकर मुझे लगा जैसे मेरी सारी तस्वीरें भेड़ें बन गई हों... मैं तस्वीरों को भेड़ें नहीं बनने दूंगा... तुमने एक दिन कहा था कि सपनों के पैर सीधे होते हैं और प्रयास के पैर उलटे। आज मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूं, कि प्रयास के पैर सीधे होते हैं, और सपनों के उलटे।”

“शर्त भले ही रख लीजिए। पर मुझे डर है कि कहीं यह शर्त  
उलटी न आ पड़े।”

“कैसे ?”

“यही कि शायद इसका उलटा-सीधा देखने में ही सारी उमर  
गुजर जाए।”

“मेरे पास उमर इतनी फालतू नहीं कि इसका उलटा-सीधा  
देखने में वित्ता दूँ। मैं काम करना चाहता हूँ।”

“और काम सपनों के सीधे पैरों से नहीं हो सकता?—सीधे  
पैरों से, सीधे हाथों से।”

“जो हाथ जिसम के खिलवाड़ में उलझ जाएं, वे काम नहीं कर  
सकते। मैं जिसम के अंदेरे में खो जाना नहीं चाहता।”

“मेरे ख्याल में जिन्दगी का रास्ता जिसम की रोशनी में मिलता  
है।”

“रोशनी मन की होती है अलका, तन की नहीं।”

“जिसके तन में मन रोशन हो, वह जिसम अंदेरा नहीं हो  
सकता।”

देखने को अलका की बात भारी पड़ रही थी, इसलिए कुमार  
खीझ उठा। अलका से उसने यह बात इसलिए नहीं चलाई थी कि  
वह अपना नुकता-नज़र अलका को समझा सके, या अलका का समझ  
सके। पर बात खुद ही यह मोड़ ले गई थी। इसलिए कुमार ने बात  
का रुख बदल दिया। उसके मन में खीझ थी, और वह चाहता था  
कि अलका भी खीझ उठे। कहने लगा:

“जिसम अंदेरा हो या रोशन, पर तुम आज वीस रुपये नहीं कमा  
सकोगी।”

“न सही।”

“ये रहे उस दिन के नदी वाले पैसे।”

“अच्छा।”

“शायद कभी न कमा सको।”

“न सही।”

“फिर क्या करोगी?”

“वेरोजगार लोग क्या करते हैं ? कुछ नहीं करते !”

कुमार का ख्याल था कि उसने अलका को बड़ी कटीली वात कही थी, इसलिए अलका ज़रूर भुंकला उठेगी। अगर उसकी आंखों में आंसू नहीं भी उतरेगे, तो उसकी आवाज में आंसू ज़रूर उतर आएगे। पर कुमार ने देखा कि अलका बड़े आराम से अपने बाजू के खुले कफों को मिला रही थी, और बाहर बरामदे में पानी का घड़ा लेकर लौटे हुए हरिया को आवाज देकर कह रही थी कि काफी के झाली प्यालों को उठाकर ले जाए।

कुमार को अपनी कही हुई वात पर पछतावा हुआ, और दिल की कड़ुवाहट को हटाने के लिए बोला :

“इधर देखो, रोशनी की ओर !”

“क्यों ?”

“तुम्हारी आंखें भर आई हैं।”

“वह किसलिए ?”

“मेरी वात रुलानेवाली नहीं थी क्या ?”

“होगी, पर मैं रो नहीं सकती।”

“क्यों ?”

“क्योंकि जिस दिन मैं इस राह पर चली थी, आंखों के सारे आंसू पीकर चली थी।”

“अलका !”

अलका ने कोई जवाब न दिया, और पहाड़ी कपड़े उतारकर उसने अपने कपड़े पहन लिए। अलका जब चली गई तो कुमार को लगा कि वेगानगी का यह रास्ता, जो अलका के सूखे आंसुओं से भीगा हुआ था, बहुत फिसलन-भरा रास्ता था ! और किसी दिन... किसी दिन इस रास्ते से कुमार का पैर ज़रूर फिसल जाएगा, और वह अपनत्व की गहरी खाइयों में जा पड़ेगा।

## ५

अगले दिन सुबह अलका आई तो कुमार रोज की तरह मेज पर काम

नहीं कर रहा था। चारपाई पर लेटे हुए कुमार ने अपना सिर चारपाई के पाये पर रखा हुआ था। एक हाँथ से वह पाये को सहला रहा था जैसे वह काफी देर से पाये के साथ अपने दुःख-सुख की बातें करता रहा हो।

“तबीयत ठीक नहीं क्या ?”

“ठीक है।”

“रात को देर तक काम करते रहे होंगे ?”

“नहीं।”

“कुछ पढ़ते रहे क्या ?”

“नहीं, यूंही नींद उचट गई थी।”

रातें चाहे अंधेरी हों चाहे उजली, कुमार रात को पहाड़ी पगड़ियों पर धूमता था। वह अक्सर अकेला धूमता। कभी-कभार वह अलका के चौवारे के सामने से गुजरते हुए अलका को बुला लेता। पर पिछले कई दिनों से उसने अलका को नहीं बुलाया था।

“तुम कल शाम को क्या करती रही हो ?”

“कल ? जो रोज़ करती हूं।”

“रोज़ शाम को क्या करती हो ?”

“कुछ भी... कभी औरतों के साथ चरमे से पानी भरने भी चली जाती हूं।”

“तुम खुद पानी भरने जाती हो ? वह बनिये का लड़का पानी मरा करता था ?”

“अब भी भरता है। यूं भी कभी न कभी औरतों का साथ मुझे अच्छा लगता है। वे पानी भरते हुए ढेरों गीत गाती हैं।”

“तुम भी उनके साथ गाती हो ?”

“कई बार।”

“और क्या करती हो शाम को ?”

“कई बार मैं उनके साथ मटर तोड़ने चली जाती हूं।”

“और जब मटरों का मौसम न हो ?”

“मोंगरे तोड़ने चली जाती हूं, मिचौं तोड़ने चली जाती हूं, पालक की पत्तियां तोड़ने चली जाती हूं। और कुछ नहीं तो उनके साथ घान फटकने वैठ जाती हूं...”

“वेरोजगार लोग क्या करते हैं ? कुछ नहीं करते ।”

कुमार का ख्याल था कि उसने अलका को बड़ी कटीली वात कही थी, इसलिए अलका ज़रूर भुँझला उठेगी। अगर उसकी आंखों में आंसू नहीं भी उतरेंगे, तो उसकी आवाज में आंसू ज़रूर उतर आएंगे। पर कुमार ने देखा कि अलका बड़े आराम से अपने बाजू के खुले कफों को मिला रही थी, और बाहर बरामदे में पानी का घड़ा लेकर लौटे हुए हरिया को आवाज देकर कह रही थी कि काफी के खाली प्यालों को उठाकर ले जाए।

कुमार को अपनी कही हुई वात पर पछतावा हुआ, और दिल की कड़वाहट को हटाने के लिए बोला :

“इधर देखो, रोशनी की ओर !”

“क्यों ?”

“तुम्हारी आंखें भर आई हैं ।”

“वह किसलिए ?”

“मेरी वात रुलानेवाली नहीं थी क्या ?”

“होगी, पर मैं रो नहीं सकती ।”

“क्यों ?”

“क्योंकि जिस दिन मैं इस राह पर चली थी, आंखों के सारे आंसू पीकर चली थी ।”

“अलका !”

अलका ने कोई जवाब न दिया, और पहाड़ी कपड़े उतारकर उसने अपने कपड़े पहन लिए। अलका जब चली गई तो कुमार को लगा कि वेगानगी का यह रास्ता, जो अलका के सूखे आंसुओं से भीगा हुआ था, बहुत फिलन-भरा रास्ता था ! और किसी दिन... किसी दिन इस रास्ते से कुमार का पैर ज़रूर फिल जाएगा, और वह अपनत्व की गहरी खाइयों में जा पड़ेगा ।

## ५

अगले दिन सुबह अलका आई तो कुमार रोज की तरह मेज पर काम

नहीं कर रहा था। चारपाई पर लेटे हुए कुमार ने अपना सिर चारपाई के पाये पर रखा हुआ था। एक हाँथ से वह पाये को सहला रहा था जैसे वह काफी देर से पाये के साथ अपने दुःख-सुख की वातें करता रहा हो

“तबीयत ठीक नहीं क्या ?”

“ठीक है।”

“रात को देर तक काम करते रहे होंगे ?”

“नहीं।”

“कुछ पढ़ते रहे क्या ?”

“नहीं, यूंही नींद उचट गई थी।”

रातें चाहे अंधेरी हों चाहे उजली, कुमार रात को पहाड़ी पगड़ियों पर धूमता था। वह अक्सर अकेला धूमता। कभी-कभार वह अलका के चौवारे के सामने से गुजरते हुए अलका को बुला लेता। पर पिछले कई दिनों से उसने अलका को नहीं बुलाया था।

“तुम कल शाम को क्या करती रही हो ?”

“कल ? जो रोज़ करती हूं।”

“रोज़ शाम को क्या करती हो ?”

“कुछ भी... कभी औरतों के साथ चरमे से पानी भरने भी चली जाती हूं।”

“तुम खुद पानी भरने जाती हो ? वह बनिये का लड़का पानी भरा करता था ?”

“अब भी भरता है। यूं भी कभी न कभी औरतों का साथ मुझे अच्छा लगता है। वे पानी भरते हुए ढेरों गीत गाती हैं।”

“तुम भी उनके साथ गाती हो ?”

“कई बार।”

“और क्या करती हो शाम को ?”

“कई बार मैं उनके साथ मटर तोड़ने चली जाती हूं।”

“और जब मटरों का मौसम न हो ?”

“मोंगरे तोड़ने चली जाती हूं, मिचौं तोड़ने चली जाती हूं, पालक को पत्तियां तोड़ने चली जाती हूं। और कुछ नहीं तो उनके साथ धान फटकने वैठ जाती हूं...”

“और ?”

“और कई बार उनसे मैं गलीचे की बुनाई सीखती हूँ ।”

“वह किसलिए ?”

“गलीचे में जब फूल बनते हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं ।”

“और ?”

“कई बार नाथी और रामो मुझसे पढ़ने के लिए आ जाती हैं ।”

“वे क्या पढ़ती हैं ?”

“उनके खांविद फौज में गए हुए हैं । उनका दिल चाहता है कि

अपने खांविदों को खुद खत लियें ।”

“तुम कल शाम को क्या करती रही हो ?”

“कल ?”

“कल सालिया के बूढ़े दाप के घुटनों पर तेल मलती रही हूँ ।

उसके घुटनों पर वड़ी भूजन थी । उनकी गाय बीमार थी, सालिया और उसकी घरवाली उसकी दबा-दाढ़ में लगे हुए थे ।”

“तुमने इन सबके साथ सम्बन्ध जोड़ लिए हैं… कितनी आसानी से तुम रिश्ते जोड़ लेती हो… तुम भट किसीको बहन कह लेती हो, किसीको अम्मा, किसीको वापू !… परसों मैं चश्मे के पास से गुजर रहा था । मेरे पैरों की आवाज सुनकर करमे की अन्धी मां मुझसे उम्हारी बात पूछने लगी । उसे रोप था कि तुम तीन दिन से उसके पास नहीं गई हो । उसकी बेटी उसे ठिठोली कर रही थी कि तीन दिन से अम्मां की लाडी खोई हुई थी… पर अलका ?”

“जी ।”

“तुम्हारा और नेरा क्या रिश्ता है ?”

“बीस रूपयों का रिश्ता ?”

कुमार ने एक सांस लिया, और सिरहाने के नीचे हाथ ढालकर बीस रूपये निकाले ।

“ये लो अपने बीस रूपये ।”

“पर आपने कहा था कि अब मैं ये रूपये कभी न कमा सकूँगी ।”

“कहा था, पर…”

“मुझे रोजगार छूटने का कोई शिकवा नहीं ।”

“आगे का मुझे पता नहीं, पर ये तुम्हारे पिछले हिसाब के देने इ है ।”

“पिछले ?”

“हाँ ।”

“कवं के ?”

“रात के ।”

“आज रात के ? इस गुज्जर चुकी रात के ?”

“हाँ ।”

“वह कैसे ?”

“मेरा इकरार था कि मुझे जब भी तुम्हारे जिस्म की ज़रूरत ढ़ेगी, मैं वीस रूपयों से उस ज़रूरत की कीमत दूँगा ।”

“हाँ, पर रात को मैं यहाँ आपके पास नहीं थी ?”

“तुम रात को यहाँ थी अलका, सारी रात यहाँ थी ।”

“सपने में ?”

“हाँ, सपने में ।”

अलका हँस पड़ी ।

“यह हँसने की वात नहीं अलका ! जिस इकरार को कोई दिन मैं पूरा कर ले, रात को खुद ही उस इकरार के सामने झूठ पड़ाए, उसे क्या कहा जाए !”

“उसे यह कहा जाए कि वह अपने-आपसे गलत इकरार न किया गये ।”

“मुझे गलत या ठीक की बहस में नहीं पड़ना । पर जो इकरार ने अपने-आपसे किया हुआ है, वह मैं ज़रूर पूरा करूँगा । अगर आरे सपने मेरा इकरार तोड़ेंगे तो मैं उसकी कीमत दूँगा ।”

“फिर तो मेरा इन्तज़ार पक्का हो जाएगा ।”

“तुम्हारा भतलब है कि मुझे ऐसे सपने रोज़ आया करेंगे ? डैविल...”

“मेरा यह नाम पुराना पड़ गया है, आज कोई नया नाम रखना आहिए था !”

गुस्से में कुमार के हाथ कांपने लगे । चारपाई के पाये को उसने

दोनों हाथों में इस तरह कसा कि अगर पाये की जगह उसके हाथों में अलका का गला होता, तो वह सचमुच घुट गया होता ।

“किसी चीज़ का कोई बदल नहीं होता...” अलका ने हँसकर कहा, और पाये के पास बैठती हुई बोली, “अगर मेरा गला दबाने का दिल है तो दबा दीजिए । लकड़ी के पाये से अपने हाथ क्यों छीलते हो ?”

कुमार ने सचमुच ही चारपाई से उठकर दोनों हाथ अलका के गले में के कस दिए । हाथों के छूने की देर थी कि कुमार को लगा कि जैसे उसके हाथ गुस्से में नहीं, अलका के अंग-अंग को छूने की तड़प से कांप रहे थे ।

कुमार ने हाथ इस तरह झटककर अलका की गर्दन से दूर हटा लिए जैसे वे भूले-भटके आग की लपट से छू गए हों ।

“माईं गाड़...” कुमार ने अपने माथे से घवराहट की वूँदें पोंछीं ।

“आखिर ईश्वर को याद करने का भी तो कोई समय चाहिए !”  
अलका हँसी ।

“तुम्हारा वस चले तो मुझे वाँन गाँग बनाकर छोड़ो !”

“वाँन गाँग ?”

“एक बार वह किसी लड़की से मिलने गया था...”

“फिर ?”

“उसे देखकर लड़की के बाप ने लड़की को दूसरे कमरे में भेज दिया ।”

“फिर ?”

“रात का वक्त था । मेज पर मोमबत्ती जल रही थी । वाँन गाँग ने मोमबत्ती की लपट पर अपना हाथ रख दिया ।”

“क्या ?”

“उसने लड़की के बाप को कहा कि वह उतनी देर तक मोमबत्ती की लपट पर हाथ रखे रहेगा जितनी देर तक वह लड़की उसके सामने खड़ी रहेगी ।... तुम इस दीवानगी को समझ सकती हो ?”

“हाँ ।”

“मैं नहीं समझ सकता ।”

“उस लड़की का वाप भी नहीं समझ सका होगा ।”

“नहीं, वह भी नहीं समझ सका था । कमरे में जब जलते हुए मांस की वू फैल गई तो लड़की के वाप ने हाथ मारकर मोमवत्ती बुझा दी और उस दीवाने को कमरे से निकाल दिया ।”

“अपनी दीवानगी की कीमत खुद ही चुकानी पड़ती है ।”

“पर मैं यह कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हूं । यह दीवानगी मुझे कतई मंजूर नहीं ।”

“यह दीवानगी हर किसीके हिस्से नहीं आती । वाँच गाँग और अलका जैसे लोग कभी-कभी ही पैदा होते हैं ।”

अलका ने जब वाँच गाँग से अपनी तुलना दी तो कुमार को हँसी आ गई ।

“अगर तुम वाँच गाँच के काल में पैदा हुई होतीं तो वेचारे को इतने दुःखों में से न गुज़रना पड़ता !”

“शायद मैं इस जन्म में उस लड़की का हिसाब ही चुकता कर रही होऊँ, जिसने जलते हुए मांस की वू तो सूख ली थी, पर साथ के कमरे से बाहर निकलकर नहीं आई थी ।”

“यू आर क्रेज़ी !”

“सिर्फ इतना खयाल रखना कि ‘क्रेज़’ छूत की वीमारी होती है ।”

“यह छूत की वीमारी तुम्हें और वाँच गाँग को ही हो सकती है ! मुझे नहीं हो सकती….”

कुमार ने लापरवाही से अलका का हाथ पकड़ा । हाथ को पहले अपने माथे से छुवाया, फिर अपनी आंखों से, फिर अपने होंठों से, और फिर अपनी गर्दन से । और फिर कहने लगा :

“मैं तुम्हारे हाथों को चाहे एक बार छुऊँ, और चाहे हजार बार, मुझे यह छूत की वीमारी नहीं हो सकती !”

“यह वीमारी होनी हो तो विना छुए भी हो जाती है….” अलका ने भी लापरवाही से जबाब दिया ।

हवा बहुत तेज़ चल रही थी । अलका की पीठ खिड़की की तरफ थी । अलका ने अपने बालों को चाहे कई बार अपने कानों के पीछे

किया था, पर माथे की छोटी-छोटी लट्टें नहीं टिकती थीं। कुमार ने आगे झुककर अलका के माथे पर बिखरे हुए वालों को मुट्ठी में भरा, और फिर उसके होंठों के सांस में से एक गहरा सांस भरकर बोला, “कोई जर्म मुझपर असर नहीं कर सकता !”

“जर्म इतने सांसों में नहीं होते जितने खयालों में होते हैं।” अलका ने कहा, और साथ के कमरे में जाती हुई बोली, “आओ काम करें।”

कुमार के पैर आदत की तरह साथ के कमरे में चले गए। उसके हाथों ने एक आदत की तरह मेज की बत्ती जलाई, पर उसे लगा कि वह अभी इस कमरे में नहीं आया था, वह अभी अपने सोने के कमरे में ही खड़ा था।

“मेरा खयाल है कि मुझे वीस रुपये और खर्चने पड़ेंगे . . .” कुमार ने कहा, और अलका का हाथ पकड़कर उसे फिर पहले कमरे में ले आया।

कुमार ने कमरे का दखाजा भिड़का दिया, और खिड़की के पर्दे को ठीक करते हुए बोला, “यह सिर्फ जिसम की मुहताजी है अलका ! और कुछ नहीं। अगर तुम्हारी जगह इस समय मेरे पास कोई और औरत होती, तो भी इसी तरह होता !”

कुमार की बात बड़ी अस्वाभाविक थी। अत्यन्त अमानवीय। अलका की जगह अगर कोई और औरत होती तो वह इस बात को सह न पाती। अलका ने सिर्फ सहन ही नहीं किया, उसने इस बात को समझा भी, और चुपचाप अपने कपड़े उतारने लगी।

“समझो ?” कुमार ने पूछा।

“समझ गई हूँ मैं, आप नहीं समझें।”

“मैं नहीं समझा ? मैं क्या नहीं समझा ?”

“अपनी बात को।”

“मैं अपनी बात को नहीं समझा ?”

“आप यह भी नहीं समझें कि आपने यह बात क्यों कही है ; आपको यह कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर मेरी जगह कोई और औरत होती, तो आपको यह कहने का खयाल न आता।”

“क्योंकि कोई भी ऐसे समय ऐसी बात न कहता।”

“इसलिए कि लोगों के मन का रिश्ता कोई नहीं होता। सिर्फ घड़ी दो घड़ी के लिए वे रिश्ते का भ्रम डालना चाहते हैं। यह भ्रम चुप रहने से भी पड़ सकता है। इसलिए लोग चुप रहते हैं...पर जब किसीको रिश्ते से डर लगता हो, तो खामोशी इस डर को बढ़ा देती है, इसलिए उसे बोलना पड़ता है, डर को तोड़ना पड़ता है।”

“पर बीस रूपये का रिश्ता कोई ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता जिससे किसीको डर लगे...बीस रूपये दिए, रिश्ता बन गया, न दिए टूट गया।”

“जैसा आपकी मर्जी हो सोच लीजिए। पर कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो न लफजों की पकड़ में आते हैं और न रूपयों की पकड़ में।”

कुमार ने एक हाथ से अलका को अपनी तरफ खींचा, पर अलका की वात सुनकर उसने दूसरे हाथ से अलका को परे हटा दिया। उसके मन में आया कि जो रिश्ता लफजों की पकड़ में नहीं आ सकता, और जो रिश्ता रूपयों की पकड़ में नहीं आ सकता उस रिश्ते को बांहों की पकड़ में भी नहीं लाना चाहिए।...

रिश्ता दिखाई नहीं देता था, पर जिस्म दिखता था। रिश्ता जाने कितनी दूर था, पर जिस्म बहुत नजदीक था।

“रिश्ते को तुम खोजती रहो, मुझे सिर्फ तुम्हारा जिस्म चाहिए।”  
कुमार ने कहा, और अलका के हाथ को इस तरह कसकर पकड़ा जैसे अब अलका ने उसको अस्वीकार कर देना हो।

कुमार की कोहनी अलका की पसलियों में चुभ रही थी। अलका ने कहा कुछ न था, पर कुमार को लग रहा था कि उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल से सांस लेते हुए अलका के होंठों को कुमार ने अपने होंठों में इस तरह कसा, जैसे वह अलका की सांस तोड़ देना चाहता हो। अलका का जो अस्तित्व कुमार की आवश्यकता बना हुआ था, उसी अस्तित्व से वह दुखा हुआ था। कुमार को अपनी नाड़ियों में उबलता हुआ खून आग की तरह गर्म लग रहा था, और आज वह जैसे-जैसे अलका के कोमल वदन को अपने लोहे की तरह जलते हुए शरीर से लगा रहा था, वह सोच रहा था कि यह कोमल-

सी लड़की इस लोहे से टूटती क्यों नहीं ।

कुमार जल-जलकर हार गया, और फिर रोशनदान से आती हुई सूरज की एक किरण में उसने देखा कि अलका वैसी की वैसी रेशम के गुच्छे की तरह उसकी बांहों में इकट्ठी हुई पड़ी थी ।

कुमार ने जब कपड़े पहनकर कमरे की अलमारी खोली तो अलमारी में से बीस रूपये निकालकर अलका को देते हुए उसने कोई ऐसी बात कहनी चाही, जो अलका को दुखा सके । पर उसे कोई बात न सूझी । कुमार के होंठों पर बात कोई न आई, पर एक ऐसी मुस्कराहट उभर आई जो देखनेवाले का अपमान कर रही थी ।

कुमार के हाथों से रूपये लेते हुए अलका के होंठों पर भी एक मुस्कराहट आई । “पर ऐसी मुस्कराहट, जो सारे अपमान को पीकर एक मान से भर गई हो ।

“चालीस रूपये रोज़ ! बीस रात के सपने के, और बीस दिन को सपने की पूर्ति के !” अलका ने कहा ।

“तुम्हारा ख्याल है कि तुम रोज़ रात को मेरे पास एक सपना देच सकोगी ? मुझे आज के बाद तुम्हारा कोई सपना नहीं आएगा ।”

“तो फिर रोज रात को जागते रहना । . . .”

अलका ने कहा, और चारपाई से उठकर कपड़े पहनने लगी ।

दुपहर तक अलका जिस तरह चुपचाप काम करती रही, दुपहर के बाद उसी तरह चुपचाप उठकर घर चली गई ।

कुमार ने रोटी खाई, कुछ घंटे और काम किया, और दिन ढलते ही वह सामने के पहाड़ पर धूमने चला गया ।

रात गहरी हो गई थी जब कुमार लौटा । हरिया ने रोज़ की तरह रोटी बनाकर चूल्हे की धीमी आग में गर्म रखी हुई थी । कुमार ने रोटी खाई, और जब वह अपनी चारपाई पर सोने लगा तो उसे आनेवाली नींद से डर-सा लगने लगा । वह चारपाई से लपककर उठ बैठा, और उसे लगा कि अगर वह सो गया तो वह नींद से भीगी हुई पगड़ंडी से फिसलकर सपने के गहरे कुएं में जा पड़ेगा ।

अपनी जवानी के भरपूर साल कुमार ने आसानी से काट लिए थे। दौलत उसे इस तरह लगती थी जैसे अपने हुनर के एवज़ में अपनी रोटी-कपड़े का जिम्मा उसने एक बार उसे सौंप दिया हो, और फिर बार-बार उसे कुछ कहने से सुरक्षित हो गया हो। दौलत ने खुद ही जैसे कुमार के लिए पहाड़ की इस बादी में एक घर बना दिया था, नहीं तो उसने इतना भी उसे नहीं कहना था। शोहरत उसे हमेशा इस तरह लगती थी जैसे एक बूढ़ी माँ अधिक देर अपने बिंगड़े हुए वेटों के पास रहती है—क्योंकि उन्हें दुनियादारी की बड़ी ज़रूरत होती है, पर कभी-कभी वह अपने अच्छे वेटों के पास आकर अपना दुःख-सुख रो जाती है। इसलिए वह जब भी आती थी, कुमार उसके पास बैठकर उसकी बातें सुन लेता था। और उसे जब भी जाना होता कुमार उसकी गठरी उठाकर मोड़ तक छोड़ आता था। ये बातें अब भी बैसी थीं, जैसी कुमार की जवानी के समय। पर कुमार की जवानी को उसके जिस्म की जिस भूख ने कभी नहीं सताया था, वह कुमार को अब सताने लगी थी। इस भूख का भी कुमार को इतना दुःख नहीं था अगर उसे मालूम होता कि यह सिर्फ जिस्म की भूख थी। वह हंसकर इस भूख को दुलरा लेता। जल्दी नहीं तो देर से दुलरा जाती, दुलरा तो जाती ही। पर कुमार अपने गन की गहराइयों में डर रहा था कि कहीं यह भूख सिर्फ अलका के जिस्म की भूख न हो। जिसका मतलब था कि वह अलका से प्यार करने लगा था। प्यार करने का मतलब था कि उसके खयाल और उसके सपने सारी उमर के लिए अलका के रहम पर हो जाएंगे। कुमार ने हमेशा उन लोगों को कोसा था जिन्होंने अपने सपने चांदी से तौल दिए थे, या शोहरत को बेच दिए थे, या किसीको मुहब्बत करके हमेशा के लिए उसकी नज़र के मुहताज हो गए थे।

अलका ने दौलत में, शोहरत में, और औरत में जो अन्तर कुमार को बताया था, उसे कुमार भी जानता था। दौलत और शोहरत की गुलामी को मुहब्बत की गुलामी से नहीं मिलाया जा सकता था क्योंकि

जब कोई मुहब्बत के सामने अपने सपने बेचता है तो आंसुओं के भाव बेचता है—पर कुमार को किसीके रहम पर जीता पसंद नहीं था। न दैसे के रहम पर, न शोहरत के रहम पर, और न ही औरत के रहम पर।

इन्हीं दिनों कुमार को दिल्ली से उसके एक दोस्त का खत आया कि दिल्ली में उसने एक बहुत बड़ा होटल बनवाने का ठेका लिया था। कुछ साल हुए एक नुमाइश के लिए कुमार को उसके इस दोस्त ने बुलाकर तीन महीने अपने पास रखा था। कुमार की सहायता से उसने पूरे सत्तर हजार रुपये कमाए थे। कुमार ने उसके लिए कई पैदलियन बनाए थे। उसीने कुमार के हिस्से में से इस पहाड़ी वादी में बहुत-सी जमीन लेकर कुमार के लिए स्टुडियो बनवा दिया था। अब फिर उसी दोस्त का खत आया था। वह कुमार को दो महीनों के लिए दिल्ली बुला रहा था। कुमार को चाहे पैसे की ज़रूरत नहीं थी, पर वह कुछ देर के लिए अलका से दूर जाकर अपने मन की हालत को ज़रूर समझना चाहता था। इसलिए उसने दिल्ली जाने का फैसला कर लिया।

पूरे तीन दिन कुमार ने अलका को कुछ नहीं बताया। पर आखिर बताए ही चलना था।

“आप जाइए, मैं यही रहूँगी। मुझे अमृतसर नहीं जाना।”  
अलका ने कहा।

“पर तुम दो महीने वहां क्यों नहीं चली जाती हो? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कई बार बुलाया है।”

“चली जाऊँगी। दो-तीन दिन के लिए मिल आऊँगी।”

“पर यहां अकेली क्या करोगी?”

“आपने एक बार कहा था, कि अगर कुछ पैसे आ गए तो बाग के पार के कोने में आप कुछ स्लेटों की छतों डालकर कुछ झुगियां बनाएंगे।”

“वह तो मैं उन लोगों के लिए सोचता हूँ, जो कभी इस वादी में रहकर कुछ काम करना चाहें।”

“मैं भी उन लोगों में से हूँ। मैं यहां रहना चाहती हूँ। किसीके

घर में किराये का कमरा लेकर रहना अब मुझे अच्छा नहीं लगता ।”

“पर तुम्हें यहां रहना ही कव तक है अलका ! और छः महीने या एक साल । तुम्हारे पिताजी अब तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं ।”

“मैं न रहूँगी तो मेरे जैसा कोई और रहेगा । पर अब आपके पास कुछ पैसे आ जाएंगे, अब भुग्यां जरूर डलवा दीजिए ।”

“लौटकर आऊंगा तो सोचेंगे ।”

“मुझे आप उनका डिजाइन बना दीजिए… ।”

“और तुम मेरे आने तक उन्हें बनवा लोगी ?”

“हां ।”

“अकेली कैसे बनवाओगी ?”

“चेतू चाचा सारा काम करेगा । सामान खरीदेगा, और मजदूर भी । उसके भी कुछ पैसे बन जाएंगे । आजकल उसे पैसे की बड़ी जरूरत है । उसे इस साल अपनी छोटी बेटी का विवाह करना है । इसलिए वह काम करने के लिए खुशी से तैयार हो जाएगा ।”

“पर पैसे तो तब आएंगे, जब मैं वहां जाकर कमा लूँगा ।”

“मैं अभी अपने पास से खर्च देती हूँ । आप वहां से भेज दीजिएगा, या वापिस आकर लौटा देना ।”

कुमार जानता था कि अलका अमीर लड़की थी, और उससे बढ़कर मनआई करनेवाली । वैसे भी इस बात में उसकी किसी दलील को काटा नहीं जा सकता था । उसने अलका के कहने पर दो दिनों में ही भुग्यां के डिजाइन बना दिए । चेतू चाचा को बुलाकर अलका को सारा काम सौंप दिया, और खुद दिल्ली जाने की तैयारी कर ली ।

अच्छी-भली सुवह गुजरी, अच्छी-भली दोपहरी बीती, पर इस गांव में बीतनेवाली आखिरी शाम ने जाने क्या किया कि कुमार को लगा जैसे वह उदास है । उदासी शायद कई दिनों से उसकी तरफ सरकती आ रही थी, पर वह इस तरह पंजों के बल दुवककर आई थी कि कुमार को उसके आने की आहट तक न मिली । उसने तब जाना, जब वह प्रत्यक्ष उसके सामने आ खड़ी हुई ।

‘सो तुम आ गई हो !’ कुमार ने उदासी के चेहरे की ओर देखा। उसका गेहूआं रंग शाम की लालिमा में दिप रहा था। उसने कोई जवाब न दिया, सिर्फ थोड़ा-सा मुस्कराई, और धीमे से कुमार का हाथ पकड़कर उसे बाहर बगीचे में अमरुदों के एक पेड़ के पास ले गई।

‘बगीचे के इस कोने में अलका की भिलमिलाती झुग्गी बनेगी……’

‘हाँ। पर वह इस झुग्गी में कितने दिन रहेगी ?’

‘जितने भी रहे……’

‘और इन दिनों की कीमत मैं सारी उमर के दर्द उसे दूँगा ?’

‘कभी तुमने उस कीमत को भी देखा है जो उसने तुम्हें पाने के लिए दी है, अब भी दे रही है, और आगे भी न मालूम कदम तक देगी !’

‘ओह……’

‘तुमने उसके जिसका मोल वीस रूपये आंका, उसने वह भी स्वीकार कर लिया ?’

‘मैंने वास्तव में उसका मोल नहीं आंका था। मैंने अपने और उसमें अन्तर बनाए रखने के लिए ये रूपये विछा दिए थे।’

‘मैं जानती हूँ। पर तुम उसके इस साहस की ओर नहीं देखते, जिसने इस अपमान को भी अपना मान बना लिया।’

‘यह तुमने ठीक कहा।’

‘तुमने एक तरह से उसे बेश्या तक कहा।’

‘मुझे यह नहीं कहना चाहिए था।’

‘उसने इस लफज को भी जमीन से उठाकर उस ऊँची जगह पर रख दिया, जिस जगह पर सिर्फ बीबी का लफज ही रखा जाता है।’

‘मुझे याद है, उसने कहा था—जिस आसानी से मैं बेश्या बन सकती हूँ, उसी आसानी से बीबी भी !’

‘तुम्हें यह खाल नहीं आया कि उस जैसी औरत अगर बेश्या भी होती, तो सिर्फ एक ही मर्द की !’

‘मुझे उसका अपमान करने का कोई हक नहीं था । पर तुम्हें मालूम है मैं किस बात से डरता था ?...’

‘तुम मुझसे डरते थे ।’

‘क्योंकि मैं यह जानता था कि तुम हरएक खुशी को बड़ी जलदी सूंध लेती हो ।’

“खुशी वस्तुओं में नहीं होती, खुशी मन की अवस्था में होती है । मैं वस्तुओं को सूंध सकती हूं, उनके पीछे पड़ सकती हूं, पर मैं किसीके मन की अवस्था को कुछ नहीं कह सकती ।’

‘मैं अलका को पाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उसके खो जाने से डरता हूं ।’

‘इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई हूं, पर अलका के पास जाने की हिम्मत मुझमें नहीं ।’

‘यह भी मैं जानता हूं, कि तुम एक बार जिसके पास आ जाती हो उसके अंग-संग रहती हो । मैं उमर-भर तुम्हें लिए-लिए घूमूंगा ?’

‘मैं तुम्हारे कई काम संवारूंगी ।’

‘कौन-से काम ?’

‘तुम जब तस्वीरें बनाओगे, मैं उनकी आंखों में काजल लगा दिया करूंगी...’

‘पर...’

“मैं जिन लोगों की दबात में स्याही भरती हूं, जानते हो उनकी कलम में से कैसे गीत निकलते हैं ?”

‘पर जिन हाथों में कलम पकड़ी हुई हो या ब्रुश पकड़ा हुआ हो, तुमने कभी उन हाथों की किस्मत देखी है ?’

‘किस्मत को वस्तुओं के गज से नहीं मापना चाहिए ।’

‘न सही । अवस्था के गज से सही । पर वह अवस्था कैसी है । हर सांस के साथ ही मेरी छाती में एक दर्द जाग उठता है...’

कुमार ने अपना नीचे का होंठ अपने दांतों में काटा, और आंखें बंद करके वायें हाथ से अपनी छाती को दबाया ।

“आपकी तबीयत ठीक नहीं...” अलका ने धीरे से अपना एक हाथ कुमार के कंधे पर रखा । कुमार ने गर्दन घुमाकर देखा, अलका

उसके पीछे खड़ी थी। कुमार चुपचाप अलका के चेहरे की ओर देखता रहा। फिर उसने कन्धे पर रखा हुआ अलका का हाथ धीरे से अपने हाथ में लिया और होंठों पर रख लिया।

कुमार चुपचाप अलका का हाथ पकड़कर धीरे-धीरे वर्गीचे से बाहर आ गया और बाहर की कच्ची सड़क से होता हुआ सामने के पहाड़ की पगड़ंडी पर चढ़ने लगा। कहीं-कहीं कोई कंटीली भाड़ी अलका के कपड़ों में उलझ जाती थी। कुमार आगे-आगे चलता, टहनियों को हाथ से हटाता, अलका के लिए रास्ता बनाते हुए पहाड़ की पगड़ंडी पर चढ़ता गया।

एक जगह एक चौड़ा पत्थर आसन की तरह बिछा हुआ था। कुमार ने अलका को उस पत्थर पर बिठा दिया। खुद भी उसके पास बैठ गया। फिर धीरे से उसने अलका का सिर अपनी छाती की उस जगह से सटा लिया जहां उसे सांस लेने में दर्द हो रहा था।

एक ठंडी मरहम कुमार की छाती से लग गई। वह दायें हाथ की तली से अलका के बालों को सहलाने लगा। अलका के लिए यह इतना नया अनुभव था कि वह उससे इस अनुभव का ताप न सह सकी। तिप्पतिप्प उसकी आंखों से आंसू उमड़ आए।

कुमार ने अपनी तली से अलका के आंसू पोछे, और फिर धीरे से उसके होंठों को चूमता हुआ बोला, “पगली! तुम तो कहती थीं कि मैं जब इस रास्ते पर चली थीं तो आंखों के सारे आंसू पीकर चली थीं?”

अलका का गला भर आया। वह कुछ बोल न सकी। कुमार ने एक छतराए पेड़ की तरह अलका को अपने गले से लगा लिया—एक कोमल-सी वेल को अपने गले से लगा लिया।

अलका की हिचकियां बंध गईं। कुमार ने एक-एक हिचक को चूमा, और फिर अलका का माथा चूमकर बोला, “तू मुझे माफ नहीं कर सकती? मैंने तुमसे बहुत सख्तियां की हैं!”

अलका ने अपनी कांपती उंगलियों से कुमार के होंठ चुपा दिए। फिर एक गहरा सांस लेकर बोली, “मैंने सख्तियों की आदत बनाली थी, इसीलिए मैं कभी नहीं रोई थी। पर मैंने इस नर्मी की

आदत नहीं बनाई थी……”

कुमार की जिन्दगी में यह शायद पहला अवसर था कि कुमार की आंखें सजला गईं। उसने भीगी आवाज से कहा, “अगर तुम कहो तो दिल्ली न जाऊँ। मैं काम करने के लिए नहीं जा रहा, मैं तुमसे भागकर जा रहा हूँ।”

अलका कुमार के चेहरे की तरफ देखने लगी। चन्द्रमा ने वादल का एक टुकड़ा हाथ से दूर हटाया, और कुमार के चेहरे की तरफ देखने लगा। वह भी शायद अलका की तरह चकित था।

“जिसने घने जंगल में चांदनी का जादू न देखा हो, उसे मेरी हालत का पता नहीं चल सकता। तुम्हारा जादू इस चांदनी से भी गहरा है, जादूगरनी !” कुमार ने अलका की गर्दन को अपने होंठों से छुआ।

अलका की गर्दन को कुमार के होंठों ने भी छुआ, और होंठों से निकलकर एक गहरे सांस ने भी।

“आप बड़े उदास हैं।”

“इतना मैं जिन्दगी में कभी उदास नहीं हुआ।”

“चांदनी का यह जादू कैसा है ! जादू उदासियां देते हैं ?”

“उनकी दी हुई हर चीज के पीछे एक गहरी उदासी होती है। क्योंकि जादू उत्तर जानेवाली चीज है।”

“मेरा जादू भी उत्तर आएगा ?”

“अब मेरे अपने बस में कुछ नहीं रहा, अलका ! सब कुछ तुम्हारे बस में हो गया है। यह जादू तुम्हारे रहम पर रहेगा।”

“आप इसीलिए उदास हैं ?”

“मैंने इस जादू को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। मैंने इसी-लिए तुम्हारे जिस्म की वीस रूपये कीमत रखी थी। सोचता था सारा हिसाब साथ के साथ निपट जाएगा……पर जिन औरतों के साथ हिसाब निवटाए जाते हैं, उनके पास जादू नहीं होते !……”

“अगर हिसाब निवट जाता, आप खुश होते ?”

“मैं बड़ा स्वतंत्र होता, इसीलिए खुश होता। खुश अब भी हूँ, आपका ज्ञान ज्ञान नहीं है।”

अजीव तरह का दर्द मिला हुआ है। तुम्हें एक बात बताऊँ...”  
“क्या ?”

“जैसे-जैसे यहाँ से जाने का समय निकट आता गया, वैसे-वैसे मेरी छाती में दर्द होने लगा। सचमुच का दर्द, जैसा निमोनिया में सांस लेते समय होता है। पर मैंने जब तुम्हारा सिर अपनी छाती से लगाया, मेरा दर्द जाता रहा। यह एक बहुत बड़ी मुहताजी हो गई है...”

कुमार ने अलका के सिर पर रखा हुआ हाथ उठा लिया और उससे अपनी दोनों आंखें ढंक लीं। एक टूटती-सी आवाज कुमार के मुंह से निकली, “मैंने आज तक हर स्वाद से अपने-आपको मुक्त रखा हुआ था—छुटपन में मां जब गर्म परांठे बनाती थी तो मैं जान-बूझ-कर रात की वासी रोटी खाया करता था कि कहाँ मेरी जीभ को किसी स्वाद की आदत न पड़ जाए... अलका... अलका... देख मैं किस तरह तुम्हारे अधीन हो गया हूँ !”

चुप-की-चुप वैठी हुई अलका को कुमार ने दोनों बांहों में झक-झोरा, “अलका, मुझे बताओ कि कभी मुझे छोड़ तो नहीं जाओगी !... इस चांदनी का जादू कभी न उतरेगा ?... इस मेरी छाती में जब दर्द होगा, तुम अपना सिर मेरी छाती पर रख दिया करोगी ?... अलका... अलका... अगर तुम कभी मुझे छोड़कर चली गई...”

अलका ने अपनी दोनों आंखें इस तरह भींच ली, जैसे वह अपने सारे-केसारे आंसू पी रही हो।—सिर्फ अपने ही नहीं, कुमार के आंसू भी।

“तुम बोलती क्यों नहीं ?”

“इसलिए कि मेरा जादू चल गया है।”

“तुम बहुत खुश हो अलका ?”

“मैं बड़ी उदास हूँ।”

“क्यों उदास हो ?”

“मुझे नहीं मालूम था कि मेरे जादू का यह असर होगा।”

“तुम जो कुछ चाहती थीं, तुमने पा लिया। अगर कुछ गंवाया है, तो मैंने गंवाया है। तुमने कुछ नहीं गंवाया।”

“मैं इसीलिए उदास हूँ कि आपको वह गंवाना पड़ा, जिसे आप गंवाना नहीं चाहते थे ।”

“पर मैं अपनी स्वतंत्रता को गंवाए बिना तुम्हें नहीं पा सकता, अलका ! मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ ।”

“मुझे पाने का ख्याल छोड़ दीजिए ।”

“यह तुम कह रही हो, अलका ?”

“हाँ ।”

“पर मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता... मेरे जिस्म में एक आग जैसी भूख जग उठी है ।”

“मैं आपकी कीमतों पर ही आपको धपना जिस्म दे दिया करूँगी ।”

“पर दीस रूपये देकर तुम्हारे जिस्म को लेना तुम्हारे जिस्म का अपमान है, अलका !”

“मुझे यह कभी अपमान नहीं लगा । फिर भी कभी नहीं लगेगा ।”

“पर मुझे यह हमेशा लगता रहा है कि मैं तुम्हारा अपमान करता हूँ ।”

“पर यह अपमान करके आप खुश होते थे ।”

“क्योंकि इस तरह मेरी स्वतंत्रता पास रहती थी ।”

“वह अब भी आपके पास रहनी चाहिए ।”

“पर मैं दो चीजें नहीं पा सकता, अलका ! मुझे एक चीज़ खोनी पड़ेगी । तुम्हीं बताओ, तुम दोनों चीजें पा सकती हो ?”

“हाँ ।”

“मुझे भी, और स्वतंत्रता को भी ?”

“मैंने दोनों पाई हैं ।”

“यह तुम कैसे कह सकती हो—अगर कल मैं दिल्ली चला जाऊँ, तो वहाँ मैं दो महीने रहूँगा । क्या तुम सोचती हो कि वहाँ मैं किसी और औरत के पास नहीं जा सकता ?”

“जा सकते हो, पर जाओगे नहीं । जाओगे भी तो मैं आपके साथ होऊँगी । आप अकेले नहीं जाओगे ।”

“यह कैसे हो सकता है ?...”

“जाकर देख लीजिएगा ।”

“पर मैं यह देखकर क्या करूँगा...मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ ।”

“मुझे आप कभी नहीं पा सकते ।”

“कब तक नहीं पा सकता ?”

“जब तक आपकी मुहब्बत और आपकी स्वतन्त्रता मिलकर एक नहीं हो जाती ।”

“पर ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं, अलका ! ये कैसे मिल सकती हैं ? कभी नहीं मिल सकतीं !”

“जिस दिन ये दोनों मिल जाएंगी, उसी दिन के बाद आप उदास नहीं होंगे ।”

“पर अलका...”

“आओ चलें...आपको सुवह बहुत जल्दी उठना है ।”

“मुझे सुवह उठने की कोई जल्दी नहीं ।”

“आपको सुवह की गाड़ी से दिल्ली जाना है ।”

“मैं दिल्ली जाकर क्या करूँगा !”

“काम करोगे ।”

“तुम मेरे साथ चलोगी ?”

“मैं यहीं रहकर काम करूँगी ।”

“झुगियां डलवाओगी ?”

“हाँ ।”

“लौटकर बनवा लेंगे ।”

“मैंने लकड़ी मंगवा ली है। छत के लिए स्लेटें भी कल आ जाएंगी। मिस्त्री और मज्जदूर कल सुवह आठ बजे आ रहे हैं।”

“उसकी कोई बात नहीं । पर क्या तुम चाहती हो कि मैं अकेला जाऊँ ?”

“हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप अकेले जाएं ।”

“तू मुझे पाना चाहती थी, अलका ! अब जब मैं अपना सब चुछ तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, तू कुछ भी नहीं पाना चाहती ?”

“इस बात का जवाब मैं फिर दूँगी ।”

“कब ?”

“जब आप लौट आएंगे ।”

उस रात कुमार को सोते समय एक अजीव खयाल आया कि कल सवेरे जब वह दिल्ली आ जाएगा, तो मीलों की दूरी उसे उदासी की कंदरा में ले जाएगी ।

## ७

कुमार दिल्ली चला गया । उसका दोस्त उसे स्टेशन पर लेने आया था । कुमार उसे पांच साल बाद मिल रहा था । पर कुमार को भी, और उसके दोस्त को भी लगा जैसे वे पांच साल के बाद नहीं, पच्चीस साल के बाद मिल रहे हों, और इन पच्चीस सालों में उन दोनों की जून बदल गई हो ।

“लोग कहते हैं कि उमर के साथ चेहरे का तेज ढल जाता है । जब मैं गाड़ी के डिब्बों को देख रहा था तो सोच रहा था कि अब तुम्हारे बाल सफेद हो गए होंगे । चेहरे पर उमर की भुर्खियां पढ़ गई होंगी । अगर ज्यादा नहीं तो कुछ मोटे हो ही गए होंगे । और साथ ही पहाड़ों में रहते-रहते तुम्हें ढंग से कपड़े पहनने की आदत भी नहीं रही होगी……” केवलकृष्ण चकित होकर बार-बार कुमार के चेहरे की ओर देखते हुए बोलता गया, “पर कमाल है ! तुम पहले भी खूबसूरत थे । पर इतने नहीं । सुबक-से, ब्रुत की तरह तराशे हुए हो ! जाने तुम वहां किस चश्मे का पानी पीते हो ! तुम्हारे चेहरे पर……शायद इसीको चेहरे पर नूर की आमद कहते हैं……”

कुमार चुप रहा । उसने जरा हँसकर केवलकृष्ण की ओर देख-भर लिया । केवलकृष्ण कुमार के साथ पढ़ा करता था । कुमार के साथ ही उसने ‘आर्ट’ का अध्ययन किया था । पर धीरे-धीरे उसका संबंध सरकारी दफतरों से इतना जुड़ गया कि उसके लिए उसने कई छोटे-छोटे आर्टिस्ट नौकर रख लिए थे । एक फर्म के मालिक से बढ़ते-बढ़ते वह एक अच्छा ठेकेदार बन गया था । दिल्ली में उसकी अपनी कोठी थी, अपनी गाड़ी थी, और जैसे-जैसे रूपया बैंक में बढ़ता गया

वैसे-वैसे उसके शरीर का मांस भी बढ़ता गया, और जितना उसके शरीर का मांस बढ़ता गया, उतना ही उसका रंग फीका पड़ता गया। बड़-बड़े महंगे कपड़ों को भी उसके बदन पर देखकर ऐसा लगता था जैसे दिल्ली के दर्जियों को कपड़े सीने की जांच भूल गई हो... पर यह सारी वात कहने की नहीं थी, इसलिए कुमार ने कुछ न कहा।

केवलकृष्ण ने अपनी कोठी में एक एकान्त कमरा कुमार के लिए सजा रखा था। कुमार ने कुछ दिन आराम किया, फिर उसने केवलकृष्ण के साथ बैठकर काम का पूरा व्योरा समझा। केवल-कृष्ण ने उसे बताया कि होटल बनानेवालों की मुख्य शर्त यह है कि होटल किसी तरह भी विदेशी होटलों की नकल न हो। वे ऐसा भारतीय माहौल उभारना चाहते थे जो आज तक भारत के किसी और होटल में न था। वे साज-संगीत आदि भी एकदम भारतीय रखना चाहते थे। पिछले अनुभव में केवलकृष्ण को विश्वास हो गया था कि कुमार की कल्पना में एक ऐसा नयापन था जो विदेशों का अनुकरण करनेवाले आर्टिस्टों में कभी नहीं आ सकता था।

वास्तविक शब्दों में जिसे पन्द्रह दिन और पन्द्रह रातों का व्यतीत कहते हैं—कुमार ने उसे इस काम में लगा दिया। काम का नक्शा उभर आया। इस दिमागी मेहनत के बाद अब ज्यादा काम कागजी मेहनत का था। केवलकृष्ण ने कुमार की सहायता के लिए दो नये मेहनती आर्टिस्ट दे दिए।

होटल के सबसे बड़े कमरे के बातावरण में दूसरे कमरों से वैशिष्ट्य आवश्यक था। मालिकों ने सबसे पहले उसी कमरे का भीतरी व्योरा तैयार करने को कहा था। उसे तैयार कर लेने के बाद जैसे काम का काफी हिस्सा पूरा हो गया।

कुमार ने कमरे के चारों कोनों में चार बुत दिखाए। एक बुत में सारंगी वज रही थी, एक में सितार ! एक में शहनाई, और एक में वांसुरी। कुमार ने बताया कि जिस समय सारंगी का रिकार्ड लगाना होगा, सारंगी वाले बुत में रोशनी जल उठेगी। वाकी तीन कोनों के बुत अंधेरे में रहेंगे। जिस समय सितार का रिकार्ड लगाना होगा

सितार के बुत की रोशनी जल उठेगी, और वाकी के तीन बुत अंधेरे में रहेंगे। इसी तरह सारे बुत क्रम से अपने संगीत के अनुसार रोशन होंगे।

कुमार जब से दिल्ली आया था उसने अलका को कोई खत नहीं लिखा था; अलका को सोचा तक नहीं। इसमें उसके काम ने उसे बहुत सहायता दी थी। बीस-इक्कीस दिन के बाद अलका का ही एक छोटा-सा खत आया, जिसमें उसने वर्गीचे की भुगियों के विषय में लिखा था, और उसीके बारे में कुछ पूछा था। जैसे साधारण सवाल थे, कुमार ने एक खत से वैसा ही जवाब दे दिया। साथ ही केवल-कृष्ण से लेकर दो हजार रुपया भी भेज दिया।

एक महीना गुज़र गया। कुमारको न अलका की सुधि ने सताया, और न किसी गहरी उदासी ने। तीन-चार बार कुमार ने अलका को सपने में ज़रूर देखा, पर सपने में किसी किस्म की तल्खी नहीं होती थी। अलका चुपचाप कोई तस्वीर बना रही होती; या वह बाग को पानी दे रही होती, और या मुंह दूसरी ओर घुमाकर कोई किताब पढ़ रही होती। इन साधारण-से सपनों ने न तो कुमार के मन में कोई लहर उठाई, और न जिस्म में। वैसे कुमार थोड़ा हैरान था कि अलका को देखते ही उसके जिस्म में जो आग सुलग उठती थी, किसी सपने में भी उस आग का सेंक क्यों नहीं था। यह बात कुमार को अच्छी लग रही थी। उसे लग रहा था कि उसके स्वभाव की स्वतंत्रता दिनोदिन उसके पास लौट रही थी।

करीब डेढ़ महीना हो चला। कुमार को विश्वास हो गया कि अब जब वह अलका के पास लौटेगा तो यह उसके लिए, और अलका के लिए एक नया अनुभव होगा। उसे लगता था जैसे उसने अपने जिस्म की भूख को जीत लिया हो। अन्तर के किसी कोने में वह अलका का आभारी था कि उसने ज़ोर देकर उसे दिल्ली भेज दिया था; और कुमार सोच रहा था कि अगर कहीं उस रात अलका भी उस चांदनी के जादू में आ जाती, तो कुमार शायद सारी उमर के के लिए एक मानसिक गुलामी सहेज लेता। उसे विश्वास होता जा रहा था कि उस रात उसने जो कुछ अलका को कहा था वह ज़ंगल में

वैसे-वैसे उसके शरीर का मांस भी बढ़ता गया, और जितना उसके शरीर का मांस बढ़ता गया, उतना ही उसका रंग फीका पड़ता गया। बड़-बड़े महंगे कपड़ों को भी उसके बदन पर देखकर ऐसा लगता था जैसे दिल्ली के दर्जियों को कपड़े सीने की जांच भूल गई हो... पर यह सारी वात कहने की नहीं थी, इसलिए कुमार ने कुछ न कहा।

केवलकृष्ण ने अपनी कोठी में एक एकान्त कमरा कुमार के लिए सजा रखा था। कुमार ने कुछ दिन आराम किया, फिर उसने केवलकृष्ण के साथ बैठकर काम का पूरा व्योरा समझा। केवलकृष्ण ने उसे बताया कि होटल बनानेवालों की मुख्य शर्त यह है कि होटल किसी तरह भी विदेशी होटलों की नकल न हो। वे ऐसा भारतीय माहौल उभारना चाहते थे जो आज तक भारत के किसी और होटल में न था। वे साज-संगीत आदि भी एकदम भारतीय रखना चाहते थे। पिछले अनुभव में केवलकृष्ण को विश्वास हो गया था कि कुमार की कल्पना में एक ऐसा नयापन था जो विदेशों का अनुकरण करनेवाले आर्टिस्टों में कभी नहीं आ सकता था।

वास्तविक शब्दों में जिसे पन्द्रह दिन और पन्द्रह रातों का व्यतीत कहते हैं—कुमार ने उसे इस काम में लगा दिया। काम का नकशा उभर आया। इस दिमागी मेहनत के बाद अब ज्यादा काम कागजी मेहनत का था। केवलकृष्ण ने कुमार की सहायता के लिए दो नये मेहनती आर्टिस्ट दे दिए।

होटल के सबसे बड़े कमरे के बातावरण में दूसरे कमरों से वैशिष्ट्य आवश्यक था। मालिकों ने सबसे पहले उसी कमरे का भीतरी व्योरा तैयार करने को कहा था। उसे तैयार कर लेने के बाद जैसे काम का काफी हिस्सा पूरा हो गया।

कुमार ने कमरे के चारों कोनों में चार बुत दिखाए। एक बुत में सारंगी बज रही थी, एक में सितार ! एक में शहनाई, और एक में वांसुरी। कुमार ने बताया कि जिस समय सारंगी का रिकार्ड लगाना होगा, सारंगी वाले बुत में रोशनी जल उठेगी। वाकी तीन कोनों के बुत अंधेरे में रहेंगे। जिस समय सितार का रिकार्ड लगाना हगा

सितार के बुत की रोशनी जल उठेगी, और वाकी के तीन बुत अंधेरे में रहेंगे। इसी तरह सारे बुत क्रम से अपने संगीत के अनुसार रोशन होंगे।

कुमार जब से दिल्ली आया था उसने अलका को कोई खत नहीं लिखा था; अलका को सोचा तक नहीं। इसमें उसके काम ने उसे बहुत सहायता दी थी। बीस-इक्कीस दिन के बाद अलका का ही एक छोटा-सा खत आया, जिसमें उसने बगीचे की झुगियों के विषय में लिखा था, और उसीके बारे में कुछ पूछा था। जैसे साधारण सवाल थे, कुमार ने एक खत से वैसा ही जवाब दे दिया। साथ ही केवल-कृष्ण से लेकर दो हजार रुपया भी भेज दिया।

एक महीना गुज़र गया। कुमारको न अलका की सुधि ने सताया, और न किसी गहरी उदासी ने। तीन-चार बार कुमार ने अलका को सपने में ज़रूर देखा, पर सपने में किसी किस्म की तल्खी नहीं होती थी। अलका चुपचाप कोई तस्वीर बना रही होती; या वह बाग को पानी दे रही होती, और या मुंह दूसरी ओर घुमाकर कोई किताब पढ़ रही होती। इन साधारण-से सपनों ने न तो कुमार के मन में कोई लहर उठाई, और न जिस्म में। वैसे कुमार थोड़ा हैरान था कि अलका को देखते ही उसके जिस्म में जो आग सुलग उठती थी, किसी सपने में भी उस आग का सेंक क्यों नहीं था। यह बात कुमार को अच्छी लग रही थी। उसे लग रहा था कि उसके स्वभाव की स्वतंत्रता दिनोदिन उसके पास लौट रही थी।

करीब डेढ़ महीना हो चला। कुमार को विश्वास हो गया कि अब जब वह अलका के पास लौटेगा तो यह उसके लिए, और अलका के लिए एक नया अनुभव होगा। उसे लगता था जैसे उसने अपने जिस्म की भूख को जीत लिया हो। अन्तर के किसी कोने में वह अलका का आभारी था कि उसने जोर देकर उसे दिल्ली भेज दिया था; और कुमार सोच रहा था कि अगर कहीं उस रात अलका भी उस चांदनी के जादू में आ जाती, तो कुमार शायद सारी उमर के के लिए एक मानसिक गुलामी सहेज लेता। उसे विश्वास होता जा रहा था कि उस रात उसने जो कुछ अलका को कहा था वह जंगल में

छिटकी हुई चांदनी के असर में कहा था । वह सिर्फ दिमागी उलझाव था, जो चांदनी में समुन्दर की लहरों की तरह उमड़ आया था ।

अपनी इस स्वतन्त्रता को परखने के लिए कुमार को एक ख्याल आया । केवलकृष्ण चाहे उसका पुराना दोस्त था, पर कुमार ने जो अपनी जवानी में ही बुजुर्गी का वेश ओढ़ लिया था, उस कारण केवल-कृष्ण ने कभी कुमार के साथ उसकी व्यक्तिगत जिन्दगी की कोई वात नहीं पूछी थी । फिर कुमार को यह वात कठिन न लगी । एक दिन उसने केवलकृष्ण को कहा कि वह इतने दिन लगातार काम करके बहुत थक गया था । एक दिन वह खाली रहकर शराब पीना चाहता था । उस रात उसे एक औरत भी चाहिए थी ।

“अच्छा ।” केवलकृष्ण ने छोटा-सा उत्तर दिया । कुमार ने किसी खास रात की वात नहीं की थी, इसलिए इस वात को वह भी भून गया ।

चार-पाँच दिन बीते होंगे । कुमार जब एक रात अपने कमरे में लीटा तो उसके कमरे में एक बीस-वाईस साल की लड़की बैठी हुई थी । कुमार को केवलकृष्ण से कही हुई वात फिर भी याद न आई । उसने समझा कि उस लड़की ने गलती से यह कमरा केवलकृष्ण की बीवी का समझ लिया था, जिससे वह वहां बैठी हुई थी ।

वह लड़की कुर्सी से उठ खड़ी हुई । वह हँसी—जैसे पहले से जानती हो । कुमार को उसकी हँसी परायी-सी लगी । कुमार के आवे उतारे हुए कोट को उसने आगे बढ़कर थाम लिया, और कोट की दूसरी बाजू उतरवाकर कोट को खूटी पर टांग दिया । कुमार हैरान था ।

कुमार अभी चकित खड़ा हुआ था कि उस लड़की ने मेज पर रखी हुई शराब की बोतल को सधे हुए हाथों से खोला, और गिलास में वर्फ डालकर उसने एक भरा हुआ गिलास कुमार के सामने कर दिया ।

कुमार को वात याद आ गई, पर वह हैरान था कि केवलकृष्ण की पिछली शामें सारी-की-सारी उसके साथ बीती थीं, उसने खाना भी उसीके साथ खाया था, पर इस लड़की के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था ।

शराब का गिलास उसने पकड़ लिया। पर कमरे में खड़े हुए उसे यह नहीं महसूस हो रहा था कि कमरा उसका था, और आज उसके कमरे में कोई मेहमान आया हुआ था। उसे लग रहा था जैसे वह अपने कमरे में जाते हुए भूल से किसी दूसरे के कमरे में आ गया था।

“वैठिए……” उस लड़की ने जब हाथ से कुर्सी की तरफ इशारा किया तो कुमार को ख्याल आया कि अभी तक वह खड़ा हुआ था।

कुमार चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया, और उसने अपने हाथ में पकड़े गिलास में से एक धूंट लेकर उस लड़की के चेहरे की तरफ इस तरह देखा जैसे उसीसे पूछ रहा हो, वताओ अब तुमसे क्या बात करूँ।

लड़की ने शराब का एक और गिलास भरा, और कुमार की तरफ देखती हुई हाथ ऊंचा उठाकर कहने लगी, “आपकी सेहत के लिए !”

कुमार ने मुस्कराकर उस लड़की की तरफ देखा। वह खूबसूरत थी। उसके होंठ कुछ मोटे थे, पर उसके मुख पर फव रहे थे। उसका जिस्म गठा हुआ था। उसकी पीठ का काफी हिस्सा नंगा था, और कुमार को ख्याल आया कि अगर पीठ का इतना हिस्सा नंगा रखना हो तो जिस्म की गठन इससे कुछ कम होनी चाहिए, और साथ ही माथा कुछ और चौड़ा। और कुमार को खुद ही ख्याल आया कि वह लड़की को देखते हुए इस तरह जांच रहा था जैसे उसे सामने विठाकर उसे पेंट करना हो।

जाने कुमार से यह कैसे पूछा गया, “एक रात के कितने रूपये केवल ने देने तय किए हैं?” लड़की चुपसी रह गई। कुमार ने सोचा नहीं था कि वह यह बात पूछेगा। पूछने की जरूरत भी नहीं थी। कुमार को खुद ही अपनी बात अच्छी न लगी।

“आप रूपयों की फिकर न करें। केवल साहब ने मुझे दे दिए हैं। साथ ही ऐसे वक्त ऐसी बात नहीं करते……” लड़की ने कहा, और मेज पर पड़ी हुई शराब की बोतल लाकर कुमार के गिलास में डालने लगी।

‘जब मन का रिश्ता कोई न हो, तो लोग रिश्ते का भरम डालना

चाहते हैं। यह भरम चुप रहने से ही पड़ सकता है। इसलिए ऐसे मौकों पर लोग चुप रहते हैं...” कुमार को अचानक अलका की कही हुई बात याद हो आई, और साथ ही अलका भी याद हो आई।

“यू डैविल !” कुमार के मुँह से निकला।

लड़की ध्वनिकर कुर्सी से उठ खड़ी हुई और कुमार ने चौंककर उसकी ओर देखा, “मैंने तुम्हें नहीं कहा !”

कुमार हाथ में पकड़े हुए गिलास को एक सांस में पी गया, और गुसलखाने में जाकर कपड़े बदलने लगा।

कुमार जब कमरे में वापिस आया तो वह लड़की कुमार के विस्तर में लेटी हुई थी। विस्तर की चादर उसने ओढ़ी हुई थी। अपने उतारे हुए कपड़े तहाकर उसने मेज पर रख दिए थे।

विस्तर की ओर न जाकर कुमार ने मेज की दराज खोली और सिगरेट निकालकर पीने लगा। कुमार को सिगरेट पीने की आदत नहीं थी। गांव में वह कई-कई महीने सिगरेट नहीं पीता था। शहर में जब कभी वह रंग लेने के लिए जाता था तो साथ में सिगरेटों की दो डिब्बियां भी ले आता। यहां दिल्ली आकर उसने दो डिब्बियां खरीदी थीं जो पिछला सारा महीना खत्म नहीं हुई थीं। पर आज कुमार ने एक सिगरेट पी, दूसरी पी, और फिर दूसरी सिगरेट की आग से तीसरी सुलगा ली।

“आप बहुत सिगरेट पीते हैं ? सभी आर्टिस्ट बहुत पीते हैं...” उस लड़की ने कहा। कमरे की खामोशी टूट गई। कुमार ने हाथ के सिगरेट को राखदानी में रख दिया।

कुमार विस्तर के पास खड़ा होकर काफी देर लड़की के चेहरे की ओर देखता रहा। फिर उसने हाथ से उसपर ओढ़ी हुई चादर की नुक्कर एक ओर हटाई। चादर कन्धे से हटाई, छाती से हटाई, कमर तक हटा दी। कुमार जाने क्या सोच रहा था। अगर इस वक्त उसे कोई देखता, तो उसे लगता जैसे कुमार एक डाक्टर था, और मरीज को बड़े गौर से देखते हुए उसके मर्ज के बारे में सोच रहा था।

उस लड़की ने कुमार के ख्यालों को तोड़ते हुए पूछा, “आप

दिल्ली नहीं रहते ?”

“मैं ?”

“केवल साहब कहते थे कि आप कहीं पहाड़ पर रहते हैं। वहाँ आप अकेले रहते हैं ? अगर मैं वहाँ अकेली रहती होऊँ तो मुझे बड़ा डर लगे ।”

‘डर ?… मुझे क्या डर है यहाँ !’ कुमार को अलका के शब्द याद हो आए ।

“यूं डैम….” कुमार के मुंह से निकला ।

लड़की ध्वराकर चारपाई पर उठ बैठी ।

“साँरी, तुम्हें नहीं कहा !” कुमार ने नर्मी से कहा, और फिर उससे पूछा, “तुम्हारा नाम क्या है ?”

“कांता ।”

“तुम रात को वापिस कैसे जाओगी ?”

“अगर जल्दी खाली हो गई, तो टैक्सी लेकर चली जाऊँगी, नहीं तो सुवह चली जाऊँगी ।”

कुमार को ख्याल आया कि इस लड़की को जल्दी फारिंग हो जाना चाहिए । लड़की के साथ विस्तर में बैठते हुए उसने वत्ती बुझा दी ।

कुमार पल-भर बैठा रहा । और दूसरे ही पल चौंककर उठ खड़ा हुआ, और खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, “वाहर खिड़की के पास कोई खड़ा हुआ है ।”

“उसं तरफ बगीचा है । इस वक्त बगीचे में कोई नहीं हो सकता ।”

“अभी कोई उधर से गुज़रा है । उसकी छाया खिड़की पर पड़ी थी ।”

कांता विस्तर से उठ बैठी । अपने ऊपर चादर लपेटकर उसने एक हाथ से खिड़की का पर्दा हटाया, और बाहर बगीचा देखकर बोली, “आप खुद देख लीजिए । सड़क की रोशनी बगीचे में पड़ रही है । बगीचे में किसीकी छाया तक तहीं….”

कुमार ने भी कांता के पास जाकर खिड़की से बाहर देखा ।

वाहर कोई नहीं था ।

कांता विस्तर पर लौट आई । कुमार ने खिड़की का पर्दा ठोक किया और कांता के पास जाकर विस्तर में बैठ गया ।

“आप अब भी खिड़की की तरफ देख रहे हैं । मान लीजिए आपको ऐसे ही शक हो गया । वहाँ कोई नहीं आ सकता ।” कांता ने कुमार की बांहों पर अपना हाथ रखा । कुमार ने खिड़की से ध्यान हटा लिया, और दोनों आंखें मीचकर कांता पर ओढ़ी हुई चादर को एक तरफ हटाने लगा ।

कुमार के हाथ ठिक गए, “वाहर किसीके चलने की आवाज आ रही है ।”

“वगीचे से चलने की आवाज आ ही नहीं सकती ।” कांता ने कहा ।

“खिड़की की तरफ नहीं दरवाजे की तरफ । वाहर लकड़ी के फर्श पर कोई चल रहा है ।”

कांता आहट लेने लगी । कहीं कोई आवाज नहीं थी । वह कुमार के हाथ को झकझोरकर बोली, “अगर आपने शराब ज्यादा पी होती तो मैं समझती नशे में हूँ । पर आपने तो जमकर पी भी नहीं ।”

“मैं नशे में नहीं, कांता ! वाहर सचमुच कोई चल रहा है । पैरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी ।”

“अगर कोई वाहर आया भी हो, तो क्या है । मैंने दरवाजे की सांकल चढ़ा दी है ।”

कुमार ने चुपचाप अपना सिर सिरहाने पर रख दिया । कांता ने कुमार का हाथ पकड़ा और उसकी बांह को अपनी पीठ के गिर्द लिपटा लिया ।

“तुमने कांच की इतनी चूड़ियां क्यों पहन रखी हैं ?”

“कांच की चूड़ियां ?”

“इनके खनकने की इतनी आवाज हो रही है !”

“पर मैंने तो कांच की कोई चूड़ी नहीं पहनी हुई !”

कुमार चौंककर पलंग पर उठ बैठा । उसने कमरे की बत्ती जलाई, और कांता की दोनों खाली कलाइयों की तरफ देखा ।

—“फिर वह चूड़ियों की आवाज़ कहाँ से आई थी ?”

कांता ने कोई जवाब न दिया। कुमार का सारा बदन कांप रहा था। कांपते होंठों से उसने कांता को टैक्सी के पैसे लेकर चले जाने के लिए कहा। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सोकर शायद ठीक हो जाए।

कांता कुछ न बोली। चादर को अपने बदन से लपेटकर विस्तर से उठ खड़ी हुई। उसने मेज पर पड़े हुए अपने कपड़े हाथ में लिए और गुसलखाने का दरवाज़ा भिड़काकर कपड़े पहनने लगी।

कांता चली गई। कमरे का दरवाज़ा भिड़काकर कुमार अपने पलंग पर लेटा तो उसे ख्याल आया—खिड़की पर पड़ती अलका की छाया... दरवाजे पर उसके चलने की आवाज़... और उसकी बांहों में पहनी हुई कांच की चूड़ियों की खनक... उसने जो कुछ देखा था, और जो कुछ सुना था, वह और कुछ नहीं था, यह वह रास्ता था जो पागल दिल की एक अंधेरी गुफा की ओर जा रहा था।

## ८

सवेरा होते ही कुमार के लिए जब नौकर चाय लेकर आया तो केवल-कृष्ण भी उसके साथ था। आते ही उसने कुमार के माथ को छुआ।

“वुखार देख रहे हो ?”

“मुझे डर था कहीं वुखार न हो गया हो।”

“क्यों ?”

“शायद तुमने रात में बहुत पी ली थी। तुम्हें आदत नहीं ज्यादा पीने की। सिर को चक्कर आ रहे होगे ?”

कुमार ने पलंग से उठकर चाय का प्याला बनाया, और वह प्याला केवल-कृष्ण को देकर अपने लिए एक गिलास में चाय बनाकर उसने पूछा, “तुम्हें किसने कहा है कि मैंने बहुत पी ली थी ?”

“मैं रात सो नहीं पाया। एक बार उठकर भी आया था तुम्हें देखने के लिए, पर दरवाज़ा बन्द था, कमरे की बत्ती बुझी हुई थी।

सोचा कि सो गए होंगे, इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया ।”

“पर यह तुम्हें किसने कहा कि मैंने बहुत पी ली थी ?”

“आधी रात के करीब कांता का टेलीफोन आया था । वह काफी डरी हुई थी ।”

“और वह कहती थी, कि मैंने बहुत पी ली थी ?”

“नहीं, उसने यह नहीं कहा था । मैंने ही सोचा कि शायद तुम ज्यादा पी वैठे थे । इसलिए तुम कांता से वैसी बातें करते रहे ।”

“कैसी बातें ?”

“चल छोड़ो उसकी बातों को, पर तुम्हें हुआ क्या था ?”

“वह क्या कहती थी ?”

“कहती थी….”

“कहते क्यों नहीं ?”

“वह मुझसे नाराज थी कि मैंने उसे एक पागल आदमी के पास क्यों भेजा था ।”

कुमार हँस पड़ा । केवल कृष्ण ने मेज पर पड़ी हुई बोतल को देखा, और बोला, “पर बोतल तो उसी तरह पड़ी हुई है । मुश्किल से दो गिलास लिए होंगे तुमने ।”

“एक मैंने पिया था, एक कांता ने ।”

“फिर तुम्हें हुआ क्या था ?”

“जाने क्या हुआ था !”

“तुम्हें खिड़की में से जिन्न-भूत दिखाई देते रहे हैं ?”

“जिन्न-भूत तो नहीं, एक जिन्नी दिखती रही है ।”

“कांता कहती थी कि तुम्हें कांच की चूड़ियों की आवाज आ रही थी ।”

“जिन्नी ने हरे रंग की चूँथी यां पहनी हुई थीं ।”

“सच बताओ, तुम ऐसी बातें कर-करके कांता को डरा क्यों रहे थे ?”

“उसे नहीं डरा रहा था, मैं तो खुद डर रहा था ।”

“कांता से ?”

“उस बेचारी से क्यों डरता….”

“शायद तुम्हें कांता पसंद नहीं आई। पर तुम्हें उसको कुछ नहीं कहना चाहए था। मुझे सवेरे कह देते, मैं किसी और को बुला देता।।”

“इसमें कांता का कोई कसूर नहीं।”

कुमार ने केवलकृष्ण को विश्वास दिलाया कि रात में जो कुछ हुआ था शराब का एक गिलास पी लेने की वजह से हुआ था, क्योंकि उसे शराब पीने की आदत नहीं थी। उसे चक्कर आ गया था। इसीलिए उसे खिड़की में किसीकी परछाई दिख रही थी। इसमें कांता का कोई कसूर नहीं था। पर केवलकृष्ण को इसपर विश्वास न हुआ। उसने यही सोचा कि कुमार को कांता पसंद नहीं आई थी। वह कांता को अपने कमरे में से वापिस भेजना चाहता था, इसीलिए वहकी-वहकी बातें करता रहा।

“अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत लड़की का इन्तज़ाम करे देता हूँ। पैसे ज़रा ज्यादा लेती है, पर कोई बात नहीं।” केवलकृष्ण बोला, “आज कहो तो आज, कल कहो तो कल। जब कहो।”

कुमार कुछ देर अपने दोस्त के चेहरे की तरफ देखता रहा। फिर उसने चाय का एक घूंट लेकर पूछा, “कितने रुपये लेती है?”

“जितने रुपयों में तुम्हारी एक पेंटिंग बिकती है।” केवलकृष्ण ने हँसकर कहा।

“क्या मतलब?”

“मेरा मतलब है कि एक साधारण पेंटिंग। यूँ तो तुम्हारी पेंटिंग का हजार रुपया भी मिल सकता है, इससे भी ज्यादा मिल सकता है। पर आम पेंटिंग का जैसे दो-अढ़ाई सौ रुपया मिलता है...”

“वह दो-अढ़ाई सौ एक रात का लेती है?”

“शहर में दो-अढ़ाई सौ। अगर शहर से बाहर ले जाना हो तो दो के चार देने पड़ते हैं। पर तुम रुपये के फिकर में क्यों पड़ गए?”

नौकर चाय रखकर चला गया था। वह चाय के वर्तन उठाने थाया तो कुमार ने उसे और गर्म चाय लाने के लिए कहा। नौकर चला गया तो केवलकृष्ण ने कहा:

“तुम रुपयों की चिन्ता न करो, सिर्फ यह बता दो कि कब

बुलाऊं। तुम कभी-कभार शहर में आते हो...“वहां पहाड़ों में तुम्हें क्या मिलता होगा...”“वैसे पहाड़िनें होती तो खूबसूरत हैं....”

कुमार कुछ न बोला। वह मेज के खाने में से सिगरेट निकालकर पीने लगा।

“किस सोच में पड़े हो ?”

“किसीमें नहीं !”

“तो आज रात उसको बुला दूं ?”

“इतनी क्या जल्दी है, अभी मैं पन्द्रह दिन यहीं हूं।”

“दरअसल वात यह है कि मैं अपनी बीवी को कल उसकी माँ के घर छोड़ आया हूं। उसकी माँ कुछ बीमार थी। पर वह दो रातें उसके पास रहकर कल लीट आएगी, फिर मुश्किल पड़ेगी...”

“फिर रहने दो इस वात को। कभी फिर सही !”

“फिर किसीको यहां बुलाना मुश्किल हो जाएगा। किसी होटल में तो फिर भी हो सकेगा...”

“देख लौगे...”

कुमार ने वात टाल दी। छः दिन बीत गए। सातवें दिन दुपहर को खाना खाते हुए कुमार से केवलकृष्ण ने कहा, “वात बन गई है। मेरी बीवी अभी अपनी माँ की तरफ चली है। उसके चाचा की लड़की वम्बई से आई हुई है। रात को वह वहीं रहेगी। मैं आज रात उसे बुला दूंगा।”

कुमार कुछ न बोला। चुपचाप रोटी खाता रहा। केवलकृष्ण ने ही फिर कहा, “वहुत खूबसूरत है। कांता कुछ भी नहीं उसके सामने !”

पानी पीते हुए कुमार की छाती में हल्लकान्सा दर्द हुआ। पर गिलास को मेज पर रखकर जब कुर्सी से उठा तो उसकी छाती में तेज दर्द हुआ।

“पानी शायद वहुत ठंडा था...” केवलकृष्ण बोला, और उसने देखा कि कुमार को सांस लेने में कठिनाई पड़ रही थी। उसने कुमार को उसके कमरे में ले जाकर पलंग पर लिटा दिया।

“फिज के पानी से कभी-कभी ऐसा हो जाता है। अभी ठीक हो

जाएगा।” केवलकृष्ण ने कहा, और गर्म पानी में कुछ चम्मच बरांडी डालकर कुमार को पिला दिया।

कुछ देर कुमार उसी तरह उखड़े हुए सांस लेता रहा। फिर शायद बरांडी का असर हुआ, कुमार को हल्लकी-सी नींद आ गई।

केवलकृष्ण ने किसी जरूरी काम पर जाना था। वह चला गया। चाहे उसे यकीन था कि अब तक कुमार की तबीयत टीक हो गई होगी, पर वह दो घण्टों में ही लौट आया। कुमार का सांस उसी तरह उखड़ा हुआ था। उसका रंग दर्द से पीला पड़ गया था।

“जब हम खाना खा रहे थे, उस वक्त तुम्हें कोई तकलीफ नहीं थी।”

“पानी पीते-पीते हुई थी।”

“कभी पहले भी हुई है इस तरह?”

“एक बार हुई थी।”

“इसी तरह? या ज्यादा?”

“इससे कम थी।”

“तब तुमने कौन सी दवा ली थी?”

कुमार ने बात करते-करते आंखें बंद कर लीं। शायद दर्द बढ़ गया था। केवलकृष्ण ने गर्म पानी की बोतल तीलिये में लपेटकर कुमार की छाती पर रख दी। कुमार ने एक बार आंखें खोलीं, बोतल को देखा, और एक अजीब-सी मुस्कराहट उसके होंठों पर खिल आई। शायद उसे वह दिन याद आ गया था जब उसने अलका का सिर अपनी छाती से लगाकर कहा था, “मेरी इस छाती में जब दर्द होगा, तुम अपना सिर मेरी छाती पर रख दिया करोगी?”

केवलकृष्ण ने कुमार के माथे को छुआ। माथा गर्म था। दर्द के जोर से शायद हल्का-सा बुखार हो आया था। उसने डाक्टर को बुलाने के लिए नौकर को भेज दिया।

डाक्टर आया। उसने कुमार की छाती और पीठ को देखा। एक इंजेक्शन लगाकर बोला, “रात तक फर्क पड़ जाएगा। खाने के लिए कुछ भत देना। गर्म पानी का सेंक दीजिएगा वस। अगर रात तक फर्क न जरूर न आया तो एक इंजेक्शन और देना होगा। अगर

बुखार बढ़ गया, तो मुझे फौरन इत्तला कर दीजिएगा।”

डाक्टर चला गया। केवलकृष्ण हैरान था कि मिनटों में क्या हो गया था। कुमार भी हैरान था। इस दर्द का अहसास उसे पहला बार तब हुआ था, जब अपने गांव में अलका के साथ उसकी आखिरी शाम रह गई थी। पर तब उसे आज जितनी हैरानी नहीं हुई थी। शायद इसलिए कि उस दिन दर्द आज जितना नहीं था। कुमार सोच रहा था कि ख्यालों की गांठें जिस्म की नाड़ियों में कैसे इस तरह उत्तर सकती हैं, कि नाड़ियों में सूजन आ जाए……

“अजीव वात है……” केवलकृष्ण ने कुमार पर ओढ़ाई हुई चादर के साथ एक कंबल भी जोड़ दिया और बोला, “तुम्हें यह नहीं लगता कि कोई चीज़ तुम्हें किसी वात से रोक रही है ?”

“लगता है।”

“किसमत को इस तरह जिद ठानते मैंने कभी नहीं देखा।”

“मैंने भी पहले कभी नहीं देखा।”

“उस दिन भी अजीव वात हुई थी।”

“हाँ, अजीव वात हुई थी।”

‘‘तुम कांता को ‘डैविल’ कहकर बुला रहे थे। मैंने कभी तुम्हारी जबान से ऐसे लफज़ नहीं सुने थे……”

“मैंने उसे कुछ नहीं कहा था।”

“तुम्हें शायद भालूम नहीं, तुम शराब के नशे में थे……”

“मैं शराब के नशे में नहीं था।”

“वट इट इज़ समर्थिंग मैटल……!”

“शायद।”

“पर आज तुम विलकुल ठीक थे—मैटली अब भी ठीक हो। पर आज फिजीकली कुछ हो गया है—तुम जानते हो कि मैंने टेली-फोन से वात पक्की कर ली थी; अब फिर टेलीफोन करके आया हूँ, उसे मना करके आया हूँ……”

“वह तुमसे नाराज़ नहीं हुई ?”

“बड़ी नाराज़ थी, क्योंकि मैंने सबेरे उसे बड़ी मुश्किल से मनाया था, उसे आज कहीं दूसरी जगह जाना था। खैर कोई वात नहीं, मैं

उसकी कसर फिर कभी निकाल दंगा, वह मुझसे नाराज़ नहीं हो सकती—पर मैं उसकी बात नहीं सोच रहा था ; उसका क्या है, तुम नहीं तो दूसरा सही—पर मैं तुम्हारी बात सोच रहा हूँ ।”

“मेरी बात है ?”

कुमार ने करवट बदली । दर्द कुछ थम गया था । पर करवट बदलने से छाती में दर्द की एक लहर-सी दौड़ गई । उसने एक घुटा हुआ सांस खींचा, और गर्म पानी की एक तरफ खिसकी हुई बोतल को हाथ से ठीक किया ।

“थोड़ी चाय पिऊओगे ? चाय का कुछ हर्ज नहीं ।”

“अच्छा ।”

केवलकृष्ण ने चाय मंगवाई । कुमार को एक बड़े तकिये का सहारा दिया, और उसके लिए चाय का प्याला बनाने लगा । चाय के घूट लेते हुए कुमार ने दो-तीन बार आंखें बंद कीं ।

“दर्द ज्यादा है ?”

“नहीं ।”

“तुम कुछ सोच रहे हो ?”

“मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी वेश्या भी होती है या नहीं, जो सिर्फ एक ही आदमी की वेश्या हो ।”

“एक ही आदमी की वेश्या ?”

“जा सिर्फ एक ही आदमी को अपना जिस्म दे और एक ही आदमी से उसके पैसे ले ।”

“पर वह वेश्या कैसे हुई ?”

“यही तो मैं सोच रहा हूँ, कि वह वेश्या कैसे हुई ।”

केवलकृष्ण ने कुमार के माथे को छुआ । उसे लगा कि बुखार बढ़ गया है ।

डाक्टर रात को एक बार फिर आया । वह जब इंजेक्शन की सुई को और सिरिंज को गर्म पानी में साफ कर रहा था तो कुमार ने एक गहरा सांस लिया । उसे लग रहा था कि वह अपने ही खयालों की पगड़ंडी से फिसलता जा रहा था, और दिनोदिन वेबसी के गहरे पाताल में उत्तरता जा रहा था ।

कुमार ने अलका को अपने वापिस आने की खबर नहीं दी थी। बुखार टूटने के बाद उसने दिल्ली में सिर्फ दो दिन आराम किया था, और तीसरी शाम उसने वापिस लौटने की तैयारी कर ली थी। इसलिए जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंचा तो चेतू चाचा को स्टेशन पर देख कर हैरान रह गया। चेतू चाचा ने आगे बढ़कर कुमार के हाथ से सूटकेस ले लिया। उसने बताया कि वह पिछले तीन दिनों से रोज़ स्टेशन पर आकर गाड़ी देख जाया करता था। अलका पिछले तीन दिनों से उसे रोज़ स्टेशन पर भेजती थी।

कुमार की जमीन पपरोला से डेढ़ मील दूर थी। यह डेढ़ मील चढ़ाई का रास्ता था। चेतू चाचा के आने से कुमार को आसानी ज़रूर हो गई, क्योंकि नहीं तो सूटकेस को उठाने के लिए उसे पपरोला से कोई आदमी खोजना पड़ता। पर वह हैरान था कि अलका पिछले तीन दिनों से उसे स्टेशन पर क्यों भेज रही थी।

बैजनाथ को जाती चौड़ी सड़क के दायें हाथ पहाड़ की सपाट छाती पर कुमार की जमीन थी। बायें हाथ की पगड़ंडी उतरने से पहले ही सड़क पर से जमीन का बहुत-सा हिस्सा नज़र आने लगता था। सीढ़ियों की तरह बिछे हुए धान के खेत, अनारों और अमल्दों के पेड़, और जिस हिस्से में कुमार का स्टुडियो था वह भी। कुमार ने पगड़ंडी के सिरे पर खड़े होकर देखा: फूलों की लम्बी क्यारियों के पार के हिस्से में नई बनी हुई झुगियों के स्लेटों से ढंके हुए माथे संध्या की लाली में अपने मुंह उठाकर उसके राह की ओर देख रहे थे। चेतू चाचा के हाथ में बोझा था, वह थोड़ा पीछे रह गया था। कुमार ने कुछ देर उसकी इन्तजार की, पर फिर उसके पांव दरवास पगड़ंडी उतरने लगे। कुमार जब झुगियों के पास पहुंचा तो उसे एक झुगी के दरवाजे में से आग जलती नज़र आई। दरवाजे की चौखट पर पहुंचकर उसका दिल इतना धड़कने लगा कि वह एक मिनट के लिए वहां का वहां रुक गया।

झुगी में बैठी अलका ने शायद उसके पैरों की आवाज सुन ली

धीं। वह चौखट पर आ गई। इस समय अगर कोई ऊँची पगड़ंडी से इस भुग्गी की तरफ देखता तो उसे लगता कि भुग्गी की चौखट में किसीने दो बुत गढ़कर रखे हुए हैं।

भुग्गी के अंदर बायीं दीवार के साथ एक कच्ची उचान थी। उचान पर ऊन का एक पहाड़ी गलीचा बिछा हुआ था। उचान के सामने एक पेड़ का एक चौड़ा छोलदार कटाव पड़ा हुआ था, जिस पर एक सरसों के तेल का दिया जल रहा था। दीवार के कोने में मिट्टी की अंगीठी में तीन मोटी-मोटी लकड़ियां जल रही थीं। जलती हुई लकड़ियों की रोशनी अलका की पीठ की तरफ थी, इसलिए अलका के मुंह पर से यह नहीं दिख रहा था कि उसके चेहरे पर कितने रंग आए थे और कितने रंग गए थे।

सड़क से उतरकर पगड़ंडी पर खड़े हुए जैसे कुमार के पैर वर-बस चल पड़े थे, कुमार की बांहें भी वरबस आगे बढ़ गईं, और आगे बढ़कर अलका को अपने साथ लगा लिया।

अलका ने कुमार को जब मिट्टी की उचान पर बिठाया तो कुमार का मुंह आग की रोशनी की तरफ था। अलका ने नजर भर-कर देखा, और कुमार के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, “बीमार रहे क्या?”

“तुम्हें किसने बताया?” कुमार ने अलका की ओर देखा। पर अलका की पीठ की तरफ रोशनी होने से उसे चेहरे पर पड़ते अंधेरे में आंखें दिख सकती थीं, पर आंखों में आया हुआ पानी नहीं दिख सकता था।

“कितने दुबले हो गए हो!” अलका ने धीरे से कहा, और आग के पास ढंककर रखी हुई चाय पत्थर के प्यालों में डालने लगी।

“सिफ़ दो दिन बीमार रहा था, ज्यादा दिन नहीं।” कुमार ने कहा और अलका के हाथों से चाय का प्याला लेकर पूछा, “पर तुम कैसे जानती थी कि मैं वापिस आ रहा हूं। तुम चेतू चांचा को रोज़ स्टेशन पर क्यों भेजती रही हो? तुमने कल भी उसे भेजा था, परसों भी।”

“मेरा कोई कसूर नहीं, इस चाय का कसूर है!” अलका ने

अपने प्याले से चाय का घूंट भरा और हँसकर बोली, “प्रसों मैंने अपने लिए चाय बनाई। केतली से चाय डालकर जब मैं प्याला उठाने लगी तो मैंने देखा कि मैंने एक की जगह दो प्यालों में चाय भर दी थी। मुझे लगा कि आप आ रहे हैं, मैंने चेतू चाचा को स्टेशन पर भेज दिया।”

कुमार को लगा कि उसकी आखों में उत्तरा हुआ पानी उसके चेहरे पर दिखने लगेगा। जैसे भी बना, वह हँसकर बोला, “तुममें और गांव की उस अल्हड़ छोकरी में कोई फर्क नहीं, जिसकी परात में आठा गूंथते समय अगर आठा उछल जाए, तो समझ लेती है कि आज कोई पाहुना आएगा।”

“असल में मैं चार दिनों से डरी हुई थी।”

“क्यों?”

“मुझे एक सूपना आया था। सपने में आपने मुझे बड़ी आवाज दीं। आप आवाजें देते गए, और मैं सुनती गई। मैं जहां से भी गुजर-कर आपकी तरफ आने लगूं सामने लोहे का एक जंगला आ जाता। शायद मुझे स्टेशन का खायाल रहा हो। स्टेशन पर जैसे जंगले लगे रहते हैं, वैसा ही एक जंगला हर मोड़ पर आ जाता था। आप इस तरह आवाजें देते जा रहे थे जैसे आपको मेरी बड़ी ज़रूरत हो। आवाजें सुनते-सुनते मेरी नींद खुल गई।”

“अलका!”

“सबेरे उठकर मेरे दिल में आया कि दिल्ली चल दूँ, पर मैं जानती थी कि आप नाराज होंगे।”

“मुझे सचमुच तुम्हारी बड़ी ज़रूरत थी।” कुमार ने हाथ में पकड़ा हुआ प्याला दिए के पास पेड़ के कटाव पर रख दिया, और अलका को कसकर अपने गले से लगा लिया।

“क्या ज़रूरत पड़ गई थी मेरी?”

“बड़ी ज़रूरत थी...दर्द होने लगा था, बुखार हो गया था, इसलिए...”

“बाहर कोई आया है...”

“चेतू चाचा होगा...”

कुमार उठकर भुग्गी से बाहर आ गया। चेतू चाचा सूटकेस जमीन पर रख रहा था। कुमार ने उसे सूटकेस दूसरी तरफ उसके कमरे में ले चलने के लिए कहा, और साथ ही कहा कि वह हरिया को खाना बनाने के लिए कह दे।

कुमार ने भुग्गी में लौटते हुए देखा कि भुग्गी की दीवार पर अलका ने एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाई हुई थी। काली लकीरों में एक मर्द का चेहरा था, और लाल रंग की लकीरों में एक औरत का मर्द की पीठ की तरफ एक सूरज था, पर सूरज का ज्यादा हिस्सा अंधेरे से ढंका हुआ था। औरत की पीठ की तरफ एक सूरज था, पर सारे का सारा सूरज रोशनी से भरा हुआ था। मर्द की आंखें खुली थीं, और सतर्क होकर दुनिया की ओर देख रही थीं। औरत की दोनों आंखों पर मर्द की छाया लिपटी हुई थी। कुमार काफी देर दीवार की तरफ देखता रहा, और आग की रोशनी में अलका के चेहरे की तरफ देखने लगा।

“अभी मेरे पास इतना हुनर नहीं, कि बहुत अच्छी बना सकूँ।”

हुनर की तरफ कुमार का इतना ध्यान नहीं था। वह खयाल को देख रहा था। दीवार के जिस हिस्से में मर्द का बृत था, उसके पीछे बहुत कम जगह थी, जैसे वह बहुत थोड़ा रास्ता चलकर आया हो। पर अलका ने जिस राह पर से औरत को आते दिखाया था, वह रास्ता बहुत लम्बा था। उस रास्ते पर गहरे लाल रंग विछेहुए थे, जैसे उसका रास्ता जिज्ञासा और तलाश से सराबोर हो। पर मर्द का रास्ता दलीलों से भर हुआ था। उसके रास्ते पर अलका ने मानसिक उलझाव की गहरी छायाएं डाली हुई थीं।

कुमार ने अलका को बांहों में लेकर उसका माथा चूम लिया, और बोला, “तुम्हारी इस औरत को प्रणाम करने को जी चाहता है!” अलका ने कुमार के कन्धे पर सर रखकर आंखें बन्द कर लीं, और शायद कान भी बन्द कर लिए, क्योंकि कुमार के मुंह से यह बात सुनने के बाद उसे और कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं रही थी।

“जानती हो मैंने इस जगह का का नाम चक्क<sup>१</sup> नम्बर छत्तीस

१. पंजाब में घोटे-से गांव को ‘चक्क’ कहते हैं।

क्यों रखा था ? ”

“यह नाम आपने रखा था ? ”

“पहाड़ों में गांवों के नाम नम्बरों पर नहीं होते । शायद और भी कहीं नहीं होते, परन्तु हमारे गांव का नाम था—चक्क नम्बर छत्तीस । साल-भर के असें में जब मेरे मां-बाप मर गए, तो हमारी सारी जमीन चाचों ने हथिया ली । मैं तब बम्बई आर्ट स्कूल में पढ़ता था । ”

“आपने लौटकर जमीन का कुछ न किया ? ”

“एक बार गया था, पर जमीन का भगड़ा निवटना मेरे बसकी बात नहीं थी । वैसे भी हमेशा के लिए गांव में नहीं रह सकता था । मुझे शहरों में रहना था । ” “कई सालों के बाद मेरे पास कुछ रूपये जमा हो गए, तो मैंने यहां आकर यह जमीन खरीद ली । ”

“जैसे चक्क नम्बर छत्तीस की जमीन लौटा ली । ”

“तब मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था । इसीलिए इसका नाम चक्क नम्बर छत्तीस रखा था । पर फिर कभी इस बात का ख्याल नहीं आया । आज तुम्हारी झुग्गी में खड़े-खड़े मुझे इस तरह महसूस हुआ है, जैसे मैं उस गांव में, उसी घर में खड़ा होऊँ—इसके साथ कोई तुलना नहीं उसकी—पर मेरी मां ने कमरे में इसी तरह एक चारपाई पर एक फुलकारी विछाई हुई थी । कमरे की दीवार पर उसने लक्ष्मी की तस्वीर बनाई हुई थी—आज इस दीवार की ओर देखते हुए मुझे लगा कि जैसे मेरी मां की बनाई हुई लक्ष्मी वहां से चलती-चलती आज यहां आ गई हो । ”

इस तरह की पिघली-सी बातें करना कुमार की आदत नहीं थी । अलका इन बातों में भीगी हुई चाँकती जा रही थी कि अभी अगर कुमार को इस बात का ध्यान आ गया तो वह जल्दी से अपनी पुरानी आदत को लौटालकर अपने मन पर लोहे की परत चढ़ा लेगा । इसलिए अलका ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, “चलिए, खाना खा लें । ”

“तुम अब यहां रहती हो, या गांव में जाया करती हो ? ”

“यहीं । वह कमरा मैंने छोड़ दिया है । ”

“मुझे दूसरी भुगियां नहीं दिखाओगी ?”

“खाना खा लीजिए, फिर लौटकर दिखा दूंगी ।”

“तुमने यहां विजली नहीं लगवाई ?”

“भुगियों का माहील न बनता तब ।”

“मैंने स्टुडियो के लिए बड़ी मुश्किल से विजली ली थी। पूरा एक साल लग गया था…!”

“वहां जरूर चाहिए थी ।”

“पर यहां तुम्हें रात को डर नहीं लगता ? चारों ओर उजाड़ है…”

“इन दिनों सिर्फ दो बार डर लगा था। पर वह इस उजाड़ की बजह से नहीं लगा था। मुझे दो बार ऐसे सपने आए थे कि मैं बहुत डर गई थी ।”

“क्या ?”

“एक मैंने आपको अभी सुनाया है, जब आप सपने में मुझे आवाजें दे रहे थे—एक इससे सात-आठ दिन पहले आया था।

“सात-आठ दिन पहले ?”

“मैंने सपने में देखा कि जल्दी-जल्दी कहीं जा रही हूं। न जाने कहां ! गहरी रात थी। मैं रात के अन्वेरे मैं चलती जा रही थी। इतना मालूम था कि सड़कें किसी शहर की हैं। फिर अन्वेरे मैं मैंने एक खिड़की को खटखटाया। एक दरवाजे को भी ठकोरा। नींद लूलने पर मुझे यह सपना समझ में न आया। जाने मैं कहां जा रही थी। मैंने किसी दरवाजे को क्यों ठकोरा था…“वह दरवाजा बन्द क्यों था…“मैं समझ न सकी। पर मुझे काफी देर डर लगता रहा ।”

अलका से लिपटा हुआ कुमार का हाथ कांपने लगा, और उसके मुंह से निकला, “यू डैविल !”

अलका ने कुमार के चेहरे की ओर देखा, और बोली, “मेरा ख्याल था कि अब तक मुझे डैविल कहना भूल चुके होंगे !”

कुमार ने शायद अलका की बात नहीं सुनी। उसने अलका का हाथ पकड़कर उसे गलीचे पर बिठाया। उसके दिल में आया कि वह अलका को दिल्ली की उस रात की बात सुना दे, जिस रात वह

कांता के साथ बैठा हुआ था, और उनकी खिड़की पर अलका की परछाई पड़ी थी, और उसके दरवाजे पर अलका के पैरों की आवाज आई थी। पर कुमार ने अपने होंठ इस तरह भींच लिए जैसे कहीं उसके मुंह से वात निकल न जाए। उसने वात बताने की जगह अलका से एक वात पूछी, “तुमने उस दिन अपने हाथों में चड़ियां भी पहन रखी थीं ?”

अलका समझ न पाई, और अपनी दोनों बाँहें बढ़ाकर बोली, “मैंने उसी दिन नयी चूड़ियां चढ़ाई थीं, शायद एक दिन पहले चढ़ाई थीं।”

वात को मन ही मन भेल पाना कठिन था, पर कुमार उसे भेलना चाहता था। उसके अपने होंठों में समा नहीं रही थी। उसने अपने होंठों को अलका के होंठों से इस तरह लगाया जैसे वह होंठों को नहीं, उस वात को चुपिया रहा हो।

कुमार ने दिल्ली में रहते सोचा था कि अब उसके जिस्म की भूख उसे कभी नहीं सत्ताएगी। उसने तजुर्बा करके भी देखा था। कांता उसके विस्तरे में लेटी रही थी, पर कुमार को उसकी भूख ने कुछ नहीं कहा था। अलका की सांस ने कुमार के जिस्म में सोई हुई आग को मालूम नहीं किन फूंकों से जगा दिया, कुमार को लगा कि उसका अंग-अंग जल रहा था। कुमार ने झुग्गी का दरवाजा भिड़का दिया। कोने में जलती लकड़ियों में एक और सूखी लकड़ी रखी, और जिस समय उसने अलका के जिस्म से कपड़े उतारकर अपने से लगाया उसे लगा कि यह झुग्गी एक आग का तालाब थी, और वह इसमें नहा रहा था।

कुमार दिल्ली वाली जो वात अलका से नहीं कहना चाहता था, अलका के पास से उठकर, कपड़े पहनते हुए उसे लगा कि उसने वह वात अलका को अपने रोम-रोम की ज़वान से कह दी थी।

कुमार और अलका ने जब कुमार के कमरे में जाकर साना सा लिया तो कुमार ने हरिया को एक लालटेन जलाने के लिए कहा, और अलका से बोला, “चलो दूसरी दोनों झुग्गियां भी देख आएं।”

तीनों झुग्गियां एक सीधे में नहीं थीं। एक का मुंह फूलों की

क्यारियों की तरफ था, एक का पहाड़ की खाई की तरफ, और एक का मकई के खेत की तरफ। तीनों की पीठ से लगा हुआ एक सांझा अंगन था। हरएक के दरवाजे के सामने एक चौड़ा बरामदा था, जो स्लेटों की छत से ढंका हुआ था, जो एक भुग्नी के सामने से घूम-कर, दूसरी भुग्नी के सामने से होकर, तीसरी भुग्नी के सामने आता था। इसी बरामदे में ते गुजरकर कुमार ने दूसरी भुग्नी का दरवाजा खोला, और हाथ में पकड़ी हुई लालटेन की रोशनी में भुग्नी को देखने लगा।

पहली भुग्नी की तरह इस भुग्नी की खिड़की भी ताड़ के पत्तों से ढंकी हुई थी। लकड़ी की एक चिट्कनी से खिड़की बंद की हुई थी। इसे खोलने के लिए सांकल की जगह कौड़ियों की एक डोरी बांधी हुई थी। बैठने के लिए मिट्टी की एक उचान इस भुग्नी में भी उसी तरह थी, जैसी पहली भुग्नी में कुमार ने देखी थी। पर दीवार में ऊचे-नीचे कितने ही आले थे, और हर एक आले में एक-एक दिया रखा हुआ था।

“अगर ये सारे दिए जला दें...!” कुमार ने इतना उमड़कर कहा कि आवाज़ उसकी अपनी नहीं लगती थी। शायद इसीलिए अलका ने कोई जवाब न दिया।

कुमार ने लालटेन की रोशनी दूसरी दीवार पर डाली। सारी दीवार पानी की लहरों से ढंकी हुई थी। चूने में नीलाथोथा मिलाकर अलका ने पानी की ये लहरें बनाई थीं। कुमार ने ध्यान से देखा, पानी की भरी हुई छाती में अलका ने एक लकीर खेंची हुई थी।

“लोग कहते हैं पानी में रेखा नहीं खिचती।”

“आप यह कहते हैं?”

“नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इस लकीर पर पांव रखकर खड़ा हुआ हूँ।”

अलका हँस पड़ी।

“मुझे नहीं मालूम तुमने यह लकीर क्यों खींची है। पर मैंने इसका अपना ही अर्थ निकाला है।”

“क्या?”

“मेरे अपने मन में एक लकीर लगी हुई है। लकीर की एक तरफ बड़ा ठंडा पानी वह रहा है, और एक तरफ बड़ा गर्म !”

“एक और मुहब्बत, एक और नफरत !”

“अलका…!”

“जी ।”

“मैं यही कहना चाहता था, पर कहा नहीं । तुमने खुद ही कह दिया…जाने मेरे अन्दर यह क्या है ! मैं तुम्हें प्यार भी करता हूँ, और नफरत भी…”

“मैं जानती हूँ ।”

“मैं एक पतली-सी लकीर पर खड़ा हुआ हूँ। मालूम नहीं किस समय, और किस तरफ मेरा पांव फिसल जाए…”

अलका ने कुछ न कहा ।

कुमार ने लालटेन वाला हाथ नीचे किया, और भुग्गी से बाहर आकर दूसरी भुग्गी की तरफ बढ़ा ।

“उसमें अभी कुछ काम रहता है ।” अलका ने कहा ।

कुमार पीछे लौटने लगा तो उसने अलका से कहा, कि अगर उसे यहां भुग्गी में अकेले डर लगता था, तो वह कुमार के कमरे में चली आए ।

“मैं यहां अपनी भुग्गी में सोऊंगी ।” अलका ने पहली भुग्गी का दरवाजा खोला, और दिये में तेल डालकर उसकी बत्ती को ऊंचा दिया ।

अपने कमरे में जाते हुए कुमार सोच रहा था कि इस दुनिया में और कोई औरत नहीं थी, जो उसे इस तरह बांध सकती थी। यह सिर्फ अलका थी, जिसने उसकी बांहों को, और उसके खयालों को अपने हाथों में कसकर पकड़ा हुआ था ।

इस पकड़ पर कुमार को प्यार भी आता था, और गुस्सा भी आता था । और वह सोच रहा था कि अलका ने कितनी सच्ची तस्वीर बनाई थी ! उसके मन के पानियों में एक रेखा खिची हुई थी, और इस रेखा पर वह दोनों पैर रखकर खड़ा हुआ था… और कुमार को लगा, कि खड़े-खड़े अब उसके पैर थक गए थे । उसने इस लकीर

पर से ज़रूर गिर पड़ना था। पर उसे यह नहीं पता लग रहा था, कि वह हमेशा के लिए मुहब्बत की तरफ गिर पड़ेगा, या नफरत की तरफ !

## १०

कुमार अलका के लिए बारीक रंगदार सूत से ऊनी एक लाल धोती दिल्ली से लाया था। अलका आज जब नहाकर वही धोती बांध रही थी, तो उसे लगा जैसे एक गीत पहाड़ की पगड़ंडी उतरकर उसकी भुग्गी की ओर आ रहा हो। उसने कान लगाया। गीत पास आ रहा था :

‘दुःखां वाला डलडू तू मेरे कन्ने देइ दे  
ता होई जा अगाड़ी मेरे माहण्यां !  
ओ पखलिया माहण्यां !’<sup>१</sup>

अलका समझ गई कि नाथी आ रही थी। नाथी को इस गीत का और-छोर पता नहीं था, वस एक ही पंक्ति आती थी; और नाथी जानती थी कि अलका जब बड़ी री में होती थी, तो वह नारी से मिलत करके इस गीत को सुना करती थी। गीत कहाँ का, एक ही पंक्ति को फिर-फिर गाती थी। इसलिए नाथी जब अलका को निलटे के लिए, या अलका से पढ़ने के लिए आया करती थी, तो चौड़ी छड़क से पगड़ंडी उतरते ही इस गीत को लटक से नाना चुड़ कर देती थी।

यह गीत अलका ने जब से सुना था, वह इस गीत से बांध रही थी, ‘जाने इस घाटी में किस दिल वाली ने इस गीत को रचा होगा !’ अलका हमेशा सोचा करती थी कि वैसे तो जारे गीत ही उसने किसी पर अपने दुःखों की डलिया उठाकर चलते हैं, पर वह गीत कैसे था ! यह दूसरे के दुःखों की डलिया को सहारा देता था ; लौट ही गीत सुनते ही हमेशा अलका को यह नहीं होता यह कि नहीं से

१०. ‘दुःखों की डलिया तू सुके दे दे !  
ओर तुम आगे चढ़ो राही !  
ओ नैर अजनवी राही !’

कहीं इस घाटी में कोई कुमार जैसा मर्द हो गुजरा होगा जो कहीं बंधन हीं पाता होगा ; और पहले भी कभी इस वादी में कोई अलका जैसी औरत ज़रूर हुई थी, जिसने उस मर्द को कहा था, कि तुम्हारे सिर पर उठाई हुई दुखों की डलिया को अब मैं उठा लेती हूं, तुम हलके होकर आगे बढ़ जाओ ।

नाथ ने कभी इस गीत को नहीं समझा था, पर अलका की आंखें इस गीत को सुनकर जब भारी हो जाती थीं, नाथी की आवाज में लटक बढ़ जाती थी ; और नाथी जब लटककर कहती थी, 'वे पखलिया माहण्यां, वे मेरिया माहण्यां !'—तो अलका की आंखें बीराकर उस रिश्ते को ढूँढ़ने लगतीं... जिस रिश्ते से कोई एक गीत की एक ही पंक्ति में किसीको 'मेरा' भी कह सकता है, और 'पखला' भी ! नाथी ने बताया था कि 'पखला' उसे कहते हैं जो हमारा वाकिफ न हो ।

नाथी ने भुग्गी में आकर शहद का भरा हुआ कसोरा पेड़ के कटाव पर रख दिया । अलका नाथी से कुमार के लिए शहद मोल लिया करती थी ।

नाथी ने नज़र भरकर अलका की ओर देखा, और हँसकर अपनी छाती पर हाथ रखकर बोली, 'हाय नी अम्मां ! एह खदरेना चौलू ए ?'

अलका हँस पड़ी ।

"नहोई-घोई के तिज्जो इतना रूप चढ़ना ऐ ! मेरे मन बुरी ममता लगदी..." नाथी ने कहा, और उचान पर बैठ गई ।

"तुमने यह गीत बीच ही में क्यों छोड़ दिया ?" अलका ने हाथ में पकड़ी हुई कंधी आले में रख दी, और नाथी के पास गलीचे पर बैठ गई ।

"घडोलू चुविक करी सत्त वल पई जांदे तेरे लक्के विच, दुखां दा डलडू कुत्यू गैल-नैल लई फिरना !" नाथी हँसने लगी ।

अलका जब कभी यह गीत सुनने के लिए बैचैन होती, नाथी उसे इसी तरह खपाती थी । "अच्छा, अब जब तुम्हारे रसिया का खत आएगा, मैं तुम्हें पढ़कर नहीं सुनाऊंगी !" अलका ने नाथी की एक

चोटी खोल दी, और हंस पड़ी ।

“भला बीबी, मैं नरेलू दिंगी ! तूं चिट्ठी पढ़ी दियां ।”

“नरेलू तुम फिर देना । चल आ तुम्हें चाय पिलाऊं ।” अलका ने कहा, और वरामदे के चूल्हे में अंग जगाकर चाय बनाने लगी ।

चाय पीकर अलका नाथी को छोड़ने चली, तो उसने देखा कि कुमार हाथ में कोई कागज पकड़े हुए उसकी ओर आ रहा था । अलका ठहर गई । कुमार ने पास आकर एक तार अलका को पकड़ा दी । अलका ने लिफाफा खोला, तार पढ़ी और कागज को तहाकर फिर लिफाफे में रख दिया ।

“पिताजी का तार है ना ?”

“हाँ ।”

“कोई खास बात है ?”

“कोई खास बात नहीं, मुझे बुलाया है ।”

“कब जाओगी ?”

“मुझे जाना नहीं, खत लिख दूंगी ।”

“नहीं अलका, जब वे बुलाते हैं तो जाना ही चाहिए ।”

“जिस काम के लिए वे बुलाते हैं, उसके लिए जाने की जरूरत नहीं ।”

कुमार चुप रहा । वह जानता था कि जिस काम के लिए अलका को जाने की जरूरत नहीं थी, वह कौन-सा काम हो सकता है ।

नाथी चली गई थी । कुमार अलका को लेकर वापिस उसकी झुग्गी में आ गया, और उसने अपने कोट की जेब से एक और तार निकाल कर अलका को दे दिया । यह तार भी अलका के पिताजी की ही थी, पर यह कुमार के नाम था । उसमें लिखा हुआ था कि वह अलका को जरूर भेज दे ।

“गाड़ी दुपहर को जाती है ।”

“रोज़ ही दुपहर को जाती है । जिस तरह आज जाएगी, उसी तरह कल जाएगी, रोज़ जाएगी ।”

“जब किसी के पैरों के आगे कोई ‘मोड़’ आ जाए, तो फिर उसका ‘कल’ कोई नहीं होता ।”

“मेरे लिए कोई मोड़ नहीं, इसलिए सारे ही ‘कल’ मेरे अपने हैं।”

“मैंने अपने को छोड़ कभी किसी चीज पर विश्वास नहीं किया।”

“इसीलिए आप इस ‘कल’ पर विश्वास नहीं कर सकते ? मैं जानती हूं आप नहीं कर सकते। क्योंकि इस ‘कल’ का वास्ता आपसे भी उतना ही होगा, जितना मुझसे, और मैं अब तक आपके लिए कोई दूसरी चीज़ हूं।”

“अलका ! जब तुम यह जानती हो, तो मुझसे यह सब क्यों पूछती हो ?”

“मैंने पूछा कुछ नहीं, सिर्फ उस दिन की इन्तजार कर रही हूं जब मैं आपके लिए एक बाहर की वस्तु नहीं रहूंगी।”

“बाहर की वस्तु बाहर की वस्तु होती है।”

“मैं कहती कुछ नहीं, पर जब वह अन्दर की चीज़ बन जाएगी, मुझे बता देना।”

“अच्छा।”

“आप न भी बताएंगे तो मुझे मालूम हो जाएगा। अच्छा, अब बताइए आप मुझे क्या करने को कहते हैं ?”

“अमृतसर जाकर विवाह कर लेने के लिए।”

“एक ही विवाह ?”

“और कितने ?” कुमार हँस पड़ा।

“अगर मेरे एक विवाह से आपको तसल्ली न हुई तो मैं दो विवाह कर लूंगी। अगर दो से भी न हुई तो चार कर लूंगी। जितने आप कहेंगे, कर लूंगी !”

कुमार कितनी देर अलका के मुंह की ओर देखता रहा। फिर हँसकर बोला, “अच्छा जाओ, पहले एक तो करके दिखाओ !”

“देखते आओगे ? देखकर आपको अच्छी तरह तसल्ली हो जाएगी।”

“कहे की तसल्ली ?”

“कि आपने मुझे उस हृद से परे भेज दिया था, जिस हृद को पार

कर कोई वापिस नहीं आ सकता।”

“हाँ।”

“अगर फिर भी यह लगा कि मैं उस हृद से परे नहीं गई, तो मुझे एक विवाह और कर लेने को कह आना।”

भुग्गी में बने हुए मिट्टी के उचान पर बैठे हुए कुमार को लगा कि उसके दिल पर, और उसके जिस्म पर अलका का टोना फिर असर कर रहा था। वह गलीचे से उठकर भुग्गी से बाहर आ गया। उसे लगा कि यह घड़ी उसकी सबसे कठिन घड़ी थी। अलका जब एक बार चली जाएगी, वह हमेशा के लिए उसके लिए बेगानी हो जाएगी।

‘एक तो उसका मुख मुझपर टोना करता है, और दूसरे उसकी बातें !’ डाक्टर जैसे एक मरीज को बताता है, कुमार ने अपने-बापको बताया, और फिर उसने अपने-आपको एक तुस्खा लिख दिया, ‘कानून जब उसे किसी और के नाम से जोड़ देगा, यह टोना खुद टूट जाएगा।’

कुमार ने चौखट के पास आकर अलका से कहा, “आज मुझे बैजनाथ जाकर एक फ़िल्म लानी है, लीटले देर हो जाएगी। इसलिए तुम चेतू चाचा को अपने साथ स्टेशन पर ले जाना, या उससे कहना कि तुम्हें अमृतसर छोड़ आए !”

अलका ने अपनी लाल धोती की कल्नी को अपनी मुट्ठी में कसा, और कहा, “अच्छा।”

कुमार फूलों की क्यारियों के पास से गुजरकर उस पगड़ी पर चढ़ रहा था जो आगे जाकर बैजनाथ को जाती सड़क पर पहुंच जाती थी। अलका उसकी पीठ की तरफ देखती रही। उसे लगा कि आज सवेरे का गीत एक गीत नहीं था, एक भविष्यवाणी थी। इस आगे चले जा रहे आदमी को सुखी करने के लिए दुःखों की डलिया लठाने का समय आ गया था।

“मेरे लिए कोई मोड़ नहीं, इसलिए सारे ही ‘कल’ मेरे अपने हैं।”

“मैंने अपने को छोड़ कभी किसी चीज पर विश्वास नहीं किया।”

“इसीलिए आप इस ‘कल’ पर विश्वास नहीं कर सकते ? मैं जानती हूं आप नहीं कर सकते। क्योंकि इस ‘कल’ का वास्ता आपसे भी उतना ही होगा, जितना मुझसे, और मैं अब तक आपके लिए कोई दूसरी चीज़ हूं।”

“अलका ! जब तुम यह जानती हो, तो मुझसे यह सब क्यों पूछती हो ?”

“मैंने पूछा कुछ नहीं, सिर्फ उस दिन की इत्तजार कर रही हूं जब मैं आपके लिए एक बाहर की वस्तु नहीं रहूंगी।”

“बाहर की वस्तु बाहर की वस्तु होती है।”

“मैं कहती कुछ नहीं, पर जब वह अन्दर की चीज़ बन जाएगी, मुझे बता देना।”

“अच्छा।”

“आप न भी बताएंगे तो मुझे मालूम हो जाएगा। अच्छा, अब बताइए आप मुझे क्या करने को कहते हैं !”

“अमृतसर जाकर विवाह कर लेने के लिए।”

“एक ही विवाह ?”

“और कितने ?” कुमार हँस पड़ा।

“अगर मेरे एक विवाह से आपको तसल्ली न हुई तो मैं दो विवाह कर लूंगी। अगर दो से भी न हुई तो चार कर लूंगी। जितने आप कहेंगे, कर लूंगी !”

कुमार कितनी देर अलका के मुंह की ओर देखता रहा। फिर हँसकर बोला, “अच्छा जाओ, पहले एक तो करके दिखाओ !”

“देखने आओगे ? देखकर आपको अच्छी तरह तसल्ली हो जाएगी।”

“काहे की तसल्ली ?”

“कि आपने मुझे उस हृद से परे भेज दिया था, जिस हृद को पार

कुमार ने भुग्गी की चौखट से अपने पांव लौटा लिए। डूबते सूरज की लाली बड़े ध्यान से कुमार के चेहरे की ओर देखने लगीं।

कुमार जब अपने कमरे में आया तो हरिया ने उसे बताया कि अलका बीबी सबेरे चली गई थीं। चेतू चाचा भी उसके साथ गया हैं, और हरिया ने बताया कि स्टेशन पर जाकर चेतू चाचा को जाने क्या हुआ कि वह गाड़ी में बैठ गया। नाथी भी स्टेशन पर गई थी, वह लौट आई है।

जो कुछ हरिया ने बताया था कुमार ने सुन लिया, पर अपनी ओर से कुछ न पूछा। हरिया खाना ले आया, कुमार ने खाना खा लिया, और विस्तर पर लेटकर उसने एक किताब पढ़नी शुरू कर दी : “यू गेव मी बैक समर्थिंग दैट बिलांड्रड टु मी, समर्थिंग दैट यू डिड नाँट टेक अबे, भाइ कॉन्फिडेंस इन माइसेल्फ !”

कुमार ने जब ये पंक्तियां पढ़ीं, तो उसे लगा कि वह एक साधारण किताब नहीं पढ़ रहा था, वह एक बेद में से बाक्य पढ़ रहा था। आज अलका ने सचमुच उसकी खोई हुई चीज़ उसे लौटा थी। यह चीज़ वह अपने साथ नहीं ले जा सकी थी ; और कुमार खुश था, कि अपने-आपमें उसका विश्वास लौट आया था।

कुमार ने इस किताब को किसी खास इरादे से पढ़ना शुरू नहीं किया था। उसे ख्याल आया था कि पुस्तक को पढ़ते-पढ़ते वह सो जाएगा। इसलिए उसने किताबों की अलमारी के पास जाकर जो भी हाथ में आई, वही किताब निकाल ली थी। उसने किताब का नाम भी नहीं पढ़ा था।

ये पंक्तियां पढ़ने के बाद कुमार को लगा कि वह किताब अपने होंठों से उसके मन की बातें कर रही थी। इसलिए उसने उसे उमंग से पढ़ना शुरू कर दिया। अगली पंक्तियां थीं : “दि एविलिटी टु लव डीपली एण्ड स्टेड-फास्टली इज रेयरर दैन ग्रेट टेलेंट। टेलेंट शुड वी दि सर्वेंट ऑव लव ! फॉर विदाउट लव, टेलेंट इज लाइक सेक्स विद आँसली वन बॉडी !”

‘क्या वक्तवास है !...’ कुमार के मुंह से गुस्से में निकला, और किताब को उसने मेज पर पटक दिया। उसने मेज पर जलती वत्ती

कुमार वैजनाथ से वापिस आया तो दिन ढल चुका था। पक्की सड़क से अपने चक्र की कच्ची पगड़ंडी उतरते हुए वह रुक गया। सामने धान के खेत थे, सब्जियों और फूलों की क्यारियां थीं, अनारों के पेड़ थे, और इन पेड़ों से विरी हुई झुगियां थीं। कुमार स्लेटों की छतों की ओर देखता रहा, जैसे दूर से ही उनसे पूछ रहा हो, ‘अलका चली गई है ? जाते समय कुछ कहती तो नहीं थी……यही कहती होगी कि मैं जान-नूझकर यहां से चला गया था……अगर न जाता तो क्या करता……उसने ज़रूर कोई टोना कर देना था……सबेरे लाल धोती वांधकर इस तरह लग रही थी जैसे किसीने लाल रंग की पोटली में एक टोना बांधा हुआ हो !’

पगड़ंडी पर धीरे-धीरे चलते हुए कुमार ने जंगली फूलों की एक टहनी को सहलाया और सोचता ही गया, ‘आज मैं बहुत संभला हुआ था……अगर मैं इस तरह उसके जादू को भाड़कर चला न गया होता तो जाने क्या हो जाता !……’

चलते-चलते कुमार ने मकई के एक भुट्ठे को उसके सुनहरी गुच्छे से पकड़कर सहलाया, और अपने होंठों में कहा, ‘वस वही समय मुश्किल था !……मैं मुश्किल घड़ियां गुज़र आया हूं……अब कोई डर नहीं……’

सामने अनार का पेड़ था। कुमार ने अनार की एक कली तोड़ी, और उसके लाल रंग को दोनों आँखों से धूरते हुए लोला, ‘सुवह वह विलकुल तुम्हारे जैसी लगती थी……देखो तो मैंने किस तरह तुम्हें इन पत्तों से अलगा दिया है। इसी तरह मैंने उसे अपने दिल से तोड़ दिया है……’

स्लेटों की झुगियों के पास पहुंचकर कुमार को ख्याल आया कि वह कितनी देर से एक-एक पौधे से और एक-एक पत्ते से अलका की बातें कर रहा था ; और उसने अपने पैर रोककर अपने-आपको कहा, ‘इधर काहे को आ निकला हूं ! मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए ।’

कुमार ने भुग्नी की चौखट से अपने पांव लौटा लिए। डूबते सूरज की लाली वडे ध्यान से कुमार के चेहरे की ओर देखने लगी।

कुमार जब अपने कसरे में आया तो हरिया ने उसे बताया कि अलका बीबी सवेरे चली गई थीं। चेतू चाचा भी उसके साथ गया है, और हरिया ने बताया कि स्टेशन पर जाकर चेतू चाचा को जाने क्या हुआ कि वह गाड़ी में बैठ गया। नाथी भी स्टेशन पर गई थी, वह लौट आई है।

जो कुछ हरिया ने बताया था कुमार ने सुन लिया, पर अपनी ओर से कुछ न पूछा। हरिया खाना ले आया, कुमार ने खाना खा लिया, और बिस्तर पर लेटकर उसने एक किताब पढ़नी शुरू कर दी : “यू गेव मी वैक समर्थिंग दैट विलाइंग टु मी, समर्थिंग दैट यू डिड नाँट टेक अचे, माइ कॉन्फिडेंस इन माइसेल्फ !”

कुमार ने जब ये पंक्तियां पढ़ीं, तो उसे लगा कि वह एक साधारण किताब नहीं पढ़ रहा था, वह एक वेद में से वाक्य पढ़ रहा था। आज अलका ने सचमुच उसकी खोई हुई चीज़ उसे लौटा थी। यह चीज़ वह अपने साथ नहीं ले जा सकी थी; और कुमार खुश था, कि अपने बापमें उसका विश्वास लौट आया था।

कुमार ने इस किताब को किसी खास इरादे से पढ़ना शुरू नहीं किया था। उसे खयाल आया था कि पुस्तक को पढ़ते-पढ़ते वह सो जाएगा। इसलिए उसने किताबों की अलमारी के पास जाकर जो भी हाथ में आई, वही किताब निकाल ली थी। उसने किताब का नाम भी नहीं पढ़ा था।

ये पंक्तियां पढ़ने के बाद कुमार को लगा कि वह किताब अपने होंठों से उसके मन की बातें कर रही थी। इसलिए उसने उसे उमंग से पढ़ना शुरू कर दिया। अगली पंक्तियां थीं : “दि एविलिटी टु लव डीपली एण्ड स्टेड-फास्टली इज़ रेयरर दैन ग्रेट टेलेंट। टेलेंट घुड वी दि सर्वेंट ऑव लव ! फॉर विदाउट लव, टेलेंट इज़ लाइक सेक्स विद आँनली वन वॉडी !”

‘क्या विश्वास है ! ...’ कुमार के मुंह से गुस्से में निकला, ‘और

बुझा दी, और सोने के लिए दोनों आँखें बंद कर लीं।

‘अलका’ ने जाते हुए शायद मेरे लिए कोई खत लिखा हो ! कुमार को ख्याल आया, पर उसने सोचा कि अलका ने अगर कोई खत उसके लिए लिखा होता तो हरिया ने उसे खुद ही दे देना था। तब भी कुमार ने मेज की बत्ती जलाई, और मेज को ध्यान से देखा। मेज पर कोई कागज नहीं था। कुमार ने बत्ती बुझा दी, और सोचने लगा, ‘अलका ने अच्छा किया, कि जाती हुई कोई सन्देश नहीं देकर गई... नहीं तो जिस तरह वह अपनी बातों से दूसरों को बीरा देती है, उसने खत लिखकर भी मुझे रुला देना था...’

कुमार ने एक हलका सांस लिया, और स्वतन्त्रता के इस क्षण को पूरी तरह महसूस करने के लिए चारपाई से उठकर बाहर अमरुदों के पेड़ों के तले आ बैठा। रात तारों की रोशनी में भीगी हुई थी। कुमार ने दोनों बांहें खोलकर घरती की ओर, और आसमान में इस तरह देखा, जैसे उसकी बांहें एक लड़की के बदन से अलग होकर इतनी स्वतन्त्र हो गई हों, और इतनी विशाल भी, कि अब वे सारी घरती को, और सारे आसमान को अपने में समेट सकती हों।

एक हलका सांस लेते हुए कुमार की छाती में हल्की-सी पीड़ा हुई, पर कुमार के जिस्म ने आज किसी भी पीड़ा को स्वीकार न करने की ठानी हुई थी।

‘चल तारों की छांव में आँखमिचौली खेलें !’

कुमार को लगा कि किसीने उसे पीठ के पीछे से कहा था। कुमार ने चौंककर पीछे की ओर देखा। वहां कोई नहीं था। बायीं ओर जंगली फूलों की एक सघन झाड़ी थी। उसे लगा कि उस झाड़ी की ओट में खड़ा कोई हँस रहा था। कुमार ने झाड़ी की ओर जाने की जगह माथा सिकोड़कर उस झाड़ी की तरफ देखा।

कुमार को लगा, कि जिस तरह दिल्ली में एक रात उसे अलका की परछाई दिखाई दी थी, और उसके कानों में अलका के पैरों की आवाज आई थी, आज भी उसके साथ बैसा ही कुछ होने चला था। उसने गुस्से में कहा, ‘अलका !’ इस तरह — जैसे अलका एक छोटी-सी बालिका हो, उसे बार-बार चिढ़ाती हो, और वह अलका को

रोक रहा हो । . . .

‘पर यह अलका नहीं, मैं हूँ…… अब तुम और मैं रोज़ तारों की छांव में आंखमिचौली खेला करेगे !’ भाड़ी के पीछे से आवाज़ आई, और कुमार ने आवाज़ पहचान ली । यह उस उदासी की आवाज़ थी, जिसके साथ उसने एक बार सामने खड़े होकर बातें की थीं ।

‘सो तुम आ गई हो !……’ कुमार ने धीरे से कहा, और सिर नीचे झुका लिया ।

सिर नीचा किए कुमार बाग में घूमता रहा । चलते-चलते उसने देखा कि वह भुग्गी के दरवाजे पर खड़ा था । कुमार ने एक गहरा सांस लिया, और भुग्गी का दरवाजा खोलकर अन्दर चला गया ।

अन्दर गहरा अन्धेरा था । कुमार ने हाथों से लकड़ी के कटाव को सहलाया । उसे मालूम था कि इसके ऊपर एक दिया, और एक माचिस रखी रहती थी ।

कुमार ने दिया जलाया । उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने दिया क्यों जलाया था । दिये की रोशनी में उसने भुग्गी की दीवारों की तरफ देखा । भुग्गी का चेहरा बड़ा उदास था ।

कुमार ने एक गहरा सांस लिया, और बोला, ‘तुम मुझसे बेहतर हो । तुम उदास हो, पर तुम अपनी उदासी को छुपाती नहीं हो, पर मैं अपनी उदासी को स्वीकार नहीं करता ।’ कुमार ने कहा और गलीचे पर इस तरह बैठ गया, जैसे उसने भुग्गी के साथ और भी बहुत-सी बातें करनी हों ।

दीवार की तरफ देखते-देखते कुमार की नज़र एक आले में पड़ी । आले में एक कागज़ पड़ा हुआ था । कुमार का दिल एकाएक धड़कने लगा । कुमार ने उस कागज़ को उठाया । पर जब उसे खोल-कर दिये की रोशनी में पढ़ने लगा तो उसकी आंखें पथरा गईं, और कुछ देर तक उससे कोई अक्षर पढ़ते न बना ।

कुछ देर बाद कुमार ने पढ़ा ; अलका ने लिखा था :

“इट इज़ सो सिम्पल दैट इट मे वी इम्पॉसिवल टु एक्सप्रेस !  
इट इज़ सो पर्सनल दैट इट इज़ हार्ड टु कॉम्प्यूनिकेट ! इट इज़ सो

लौनली दैट इट इज डिफिक्लट टु शेयर ! इट इज सो सैक्रेड दैट इट  
मे बी टू फ्रेजाइल टु टाक एवाउट ; वन्स इट हैज लेपट वन्ज हार्ट,  
इट मे इवेपोरेट ! ”

कांपते हाँयों से कागजा को लकड़ी के कटाव पर रखकर कुमार  
के मन में जो कुछ हुआ, उसका एक ही छाती में भेल पाना कठिन  
था। कुमार ने गलीचे पर लेटकर आंखें बंद कर लीं।

जाने कब कुमार को नींद आ गई। वह रात-भर उस गलीचे  
पर लेटा रहा। सोते समय ही उसने अपने नीचे विछो हुए गलीचे का  
एक कोना उठाकर अपने पर ओढ़ लिया। जब उसकी आंख खुली,  
खिड़की में से सुवह की हलकी रोशनी अन्दर आ रही थी। खिड़की  
की ओर देखते हुए उसकी नज़र कौड़ियों की लड़ी पर गई, जिसे  
अलका ने ताड़ के पत्तों से बांधा हुआ था, और कुमार को लगा कि  
अलका विवाह करवाने के लिए अमृतसर चली गई थी, पर अपना  
कलेरा<sup>१</sup> यहाँ छोड़ गई थी।

## १२

अलका जिस लाल धोती को कल छत्तीस चक्क में पहने हुई थी,  
अमृतसर पहुंचकर जब वह अपनी कोठी में आई तो वही लाल धोती  
उसने बांधी हुई थी। रास्ते में उसने कपड़े नहीं बदले थे, बाल भी  
नहीं संवारे थे, पर बौराए वालों ने और सूत की इस लाल धोती ने  
अलका को जाने कैसा रूप चढ़ा रखा था कि अलका का माया चूमते  
हुए अलका के पिताजी को ख्याल आया कि अलका को किसीकी  
नज़र न लग जाए। पिताजी ने अलका के लिए जिस आदमी को  
चुना था, वह आजकल उन्हींके यहाँ ठहरा हुआ था। इस बक्त भी  
वह बाहर टांगे की आवाज सुनकर पिताजी के साथ ही बाहर चला  
आया था। वह अलका की तरफ देखता रह गया। पिताजी ने अलका

१. शादी के अवसर पर कलाई की चूड़ियों के साथ बंधनेवाली कौड़ियों  
की लड़ी।

से उसका परिचय कराया, “कैप्टन जगदीशचन्द्र, मर्सेंट नेवी में हैं।” और अलका को अपनी बांहों में लेकर चाय पीने के लिए कगरे में ले गए। अलका ने चेतू को अपना कमरा दिखा दिया। वह अलका की चीज़ें कमरे में रखने चला गया।

पिताजी ने अलका से जगदीशचन्द्र को बड़े साधारण तरीके से परिचित कराया था। और कुछ न कहा था, सिर्फ वे चाय पीते समय जगदीशचन्द्र की सफरी जिन्दगी के बारे में वे दिलचस्प बातें सुनाते रहे, जो शायद उन्होंने पिछले चार-पाँच रोज़ में जगदीशचन्द्र से सुनी थीं। और उन्हों बातों से अलका ने अपने पिताजी की इच्छा का अन्दाज़ा लगा लिया था।

जगदीशचन्द्र बड़े शौक के साथ अलका से उसकी पैटिंग और पहाड़ी जिंदगी के बारे में पूछता रहा। अलका सलीके से जबाब देती गई। समुद्र के सफर के बारे में उससे पूछती रही। पर वह सारा समय उस आनेवाले बक्त के बारे में सोचती रही जब उसका प्राप्ति ज्यादा बड़ी बातों से बास्ता पड़ा था।

संध्या समय पिताजी किसी काम से बाहर चले गए। अलका ने समझ लिया कि वे जान-बूझकर उसे जगदीशचन्द्र के पास अपेली छोड़ गए थे। वह अपने कमरे की खिड़की में इन तरह सड़ी ही गई जैसे जिन्दगी की इस नई मांग को, और उसके बराबर तुलनेभाली अपनी हिम्मत को जांचकर देख रही हो। उसे ठहरे हुए कुछ ही समय हुआ था कि कमरे के दरवाजे में से जगदीशचन्द्र ने आपाएँ देकर उससे पूछा कि क्या वह कमरे में आ सकता था।

“आइए!” अलका ने खिड़की से हटकर एक गुर्ही ओर हाथ से संकेत किया।

“अभी तक सफरकी थकान होगी...” जगदीशचन्द्र ने कारंग लाकर कुर्जी पर बैठते हुए बड़ी आत्मीयता से देखा।

“आप तो खूब लम्बा सफर करनेवालों में हैं, गारा भी अपान की बात इतना क्यों नोचते हैं!” अलका हँग पड़ी, और गारा कुर्जी पर बैठ गई।

“हन कोंगों की वह आदत बन जाती है। वाल्यम में भी १८।

आना चाहता था ।”

“कहाँ ?”

“वहाँ तुम्हारे चक्क नम्बर छत्तीस में ।”

“आ जाते ।”

“पर पिताजी तुम्हें यहाँ बुलाना चाहते थे... वह खूब सुन्दर जगह होगी ?”

“हाँ ।”

“इतने दिनों बाद शहर में आकर अजीब-सा लगता होगा ।”

“बहुत अजीब !”

“मेरा खयाल है कि तुम्हें समुन्दर किनारे की ज़िन्दगी भी अच्छी लगेगी ।”

अलका ने एक नज़र में जगदीशचन्द्र के चेहरे की ओर देखा, और हँस पड़ी । अलका के हँसने से जगदीशचन्द्र को खयाल आया कि अलका से पूछे विना उसने उसकी ज़िन्दगी को खुद ही समुन्दर के किनारे से जोड़ दिया था । यह उसने वड़ी जल्दी की थी ।

“वास्तव में...” जगदीशचन्द्र ने कुर्सी से उठकर अलका की पीठ की तरफ खड़े होकर उसकी कुर्सी पर हाथ रखा, और वह जैसे जो कुछ महसूस कर रहा था उसे वैसे ही कह दिया, “मैंने यह विलकुल नहीं सोचा था, कि मेरा इतनी खूबसूरत लड़की से वास्ता पड़ेगा !”

“आपने क्या सोचा था ?”

“मैंने कुछ भी नहीं सोचा था । माँ काफी असे से शादी के लिए जोर दे रही है । इस बार छुट्टियों में उसने मुझे मना लिया था, कि मैं शादी कर लूगा । उसने कई जगह देख रखी थीं ।”

“फिर कई स्थानों में से आपने इस जगह को क्यों चुना ?”

“आपके पिताजी को शायद किसीने मेरी ओर से बताया था । उन्होंने मुझसे मिलना चाहा, और मैं चला आया । वैसे मैं यहाँ भी माँ के जोर देने पर आया था । वह कहती थी, कि अगर यहाँ बात हो जाए तो किसी और जगह की बात सोचने की ज़रूरत नहीं ।”

“वे मुझे जानती हैं ?”

“तुम्हें नहीं, पिताजी को जानती हैं।”

“पर यह मां का फैसला है, आपका नहीं।”

जगदीशचन्द्र ने कुर्सी पर रखा हुआ हाथ अलका के कन्धे पर रख दिया। उसके हाथ में उसके मन की बात धड़क रही थी। पर वह सोच रहा था कि वह इस बात को कैसे कहे।

“सो आप मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हैं।” अलका ने खुद ही कहा।

“अगर सिर्फ मेरी मर्जी से हो सकता हो तो आज ही हो जाए, अभी……”

“पर अब संध्या समय कैसे होगा!” अलका हँसने लगी। जगदीशचन्द्र को उसकी हँसी बड़ी अच्छी लगी। उसके मजाकिया स्वभाव के बराबर उतरने के लिए वह भी हँस दिया, और बोला, “विवाह करवानेवाली अदालतें रात को भी खुली रहनी चाहिए।” और फिर जगदीशचन्द्र ने अलका के कन्धे पर रखे हुए हाथ को ज़रा दबाकर कहा, “पर यह मेरी मर्जी की बात है। मुझे अब तक तुमने अपनी मर्जी नहीं बताई।”

“मेरी मर्जी का तो आपने पहले ही फैसला कर दिया था कि मुझे समुन्दर के किनारे की ज़िन्दगी अच्छी लगेगी।” अलका हँस दी।

जगदीशचन्द्र ने झुककर अलका के होठों को छूना चाहा, पर अलका ने मुंह हटा लिया, और बोली, “अभी नहीं।”

जगदीशचन्द्र ने अलका के कन्धे पर रखा हुआ हाथ इस तरह उठा लिया, जैसे वह अपने सब्र का सवूत दे रहा हो।

“अब जब पिताजी आएंगे, उन्हें तुम खुद बताओगी, या मैं बता दूँ?” जगदीशचन्द्र ने अलका से पूछा।

“जैसे आपकी मर्जी।”

“मेरी छुड़ी बहुत कम रह गई है। तुम जो कुछ खरीदना चाहो मुझे जल्दी बता देता।”

“मुझे कोई चीज़ नहीं खरीदनी। पर अदालत वाले एक महीने का शर्मा गांगने हैं।”

“मेरी मां अदालती शादी से खुश न होगी। अगर हम दूसरी तरह से शादी करते तो कोई हर्ज है ?”

“कई देशों में आप एकवर्पीय विवाह भी कर सकते हैं, और द्विवर्पीय भी... और जरूरत पड़े तो एकमासिक भी... पर हमारे देश में इस तरह का विवाह नहीं होता। इसलिए रस्मी विवाह से अदालती विवाह अच्छा है !”

“अलका !”

“जी !”

“तुम मुझसे उमर-भर के लिए विवाह नहीं करना चाहती हो ?”

“कह नहीं सकती। गुजर जाए तो सारी उमर बीत जाए, न गुजरे तो एक महीना भी न गुजरे, एक दिन भी न बीते।”

जगदीशचन्द्र पहले हैरान हुआ। फिर उसने हँसकर अलका की ओर देखा, और बोला, “देखने से यह विलकुल पता नहीं चलता कि तुम इतनी ‘एडवेंचरस’ होगी !”

“मैं विलकुल एडवेंचरस नहीं हूँ।”

“मैंने सोचा था कि अगर कभी किसीसे इस तरह की शर्त करनी होगी, तो मुझे ही... हम नेवीवालों की जिन्दगी बड़ी अजीब होती है! नित नये लोगों से वास्ता पड़ता है। इसलिए सारी उमर का वंधन कई बार हमें अच्छा नहीं लगता... पर लगता है कि तुम मुझसे भी कहीं एडवेंचरस हो !”

“मैं विलकुल ‘एडवेंचरस’ नहीं हूँ। बात वस इतनी है कि जिन्दगी बड़ी अजीब होती है। सिर्फ नेवीवालों की ही नहीं, सभीकी अजीब होती है।”

“तुम्हारा ख्याल है कि शायद तुम कभी किसी और को प्यार करने लगोगी ?”

“शायद नहीं, अब भी करती हूँ।”

जगदीशचन्द्र अलका के चेहरे की ओर देखने लगा। वह अब तक खड़ा हुआ था।

वह हैरान हुआ कुर्सी पर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद उसने

अलका से पूछा, “फिर तुम उससे विवाह क्यों नहीं कर लेती हैं अलका ?”

“वे मुझसे विवाह नहीं करना चाहते ।”

जगदीशचन्द्र कुछ देर चुप रहा । फिर हंन पड़ा, “पर अब जैकि तुम कुंवारी हो, वह तुमने विवाह नहीं करना चाहता, और पिछवा तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो क्या वह चाहेगा कि तुम तला लेकर उससे विवाह कर लो ?”

“शायद ?”

जगदीशचन्द्र के मन में कसकन्ही उठी और उसने आगे बढ़वा अलका का हाथ पकड़ लिया, और बोला, “मैं नम्हें इतनी दूर जाऊंगा कि तुम्हें कभी उसकी खबर नार भी न निये !”

“मैं जहां भी रहूँ, मुझे उसका पता रहेगा ।”

जगदीशचन्द्र ने अलका का हाथ छोड़ दिया और बोला, “मेरा खयाल है तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिए ।”

“मेरा भी यही खयाल है कि मुझे विवाह नहीं करना चाहिए ।”

“पर मैं हैरान हूँ, कि तुम विवाह करना चाहते हैं यह ?”

“मैंने उसे बच्चन दिया है, कि मैं विवाह कर न चूंगी ।”

“इसका सतलब है उसने जबरदस्ती तुमने बच्चन निया है ।”

“हाँ ।”

“उसका खयाल है कि एक बार तुम्हारा विवाह हो जाएगा, पर वह हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो जाएगा ।”

“हाँ ।”

“मेरा खयाल है कि उसने ठीक मांचा है ।”

जगदीशचन्द्र ने प्यार से अलका का हाथ पकड़ निया और बोला, “उससे चाहे तुम्हारा कितना भी ताल्लुक रहा हो मुझे उनकी पता नहीं । ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि उसका तुमने जिस्मा ताल्लुक होगा । यह कोई खास बात नहीं । इस तरह मेरे जिन्दगी भी कई लड़कियां आई हैं । सबकी जिन्दगी में आनी हैं । विवाह पहले की बातों को नहीं कुरेदना चाहिए । मुझे निर्फ यह बना दो, मुझसे विवाह हो जाने पर मुझसे चोरी उमे मिलनोगी ?”

“बिलकुल नहीं।”

“उसे खत लिखोगी ?”

“बिलकुल नहीं।”

जगदीशचन्द्र ने कुर्सी से उठकर अलका की पीठ पर अपना हाथ रखा और बड़े प्यार से बोला, “दैन इट इज़ नर्थिंग !”

“पर एक बात है।”

“क्या ?”

“अगर कभी मुझे यह मालूम हो गया कि उसने अपना खयाल बदल दिया है, और उसे मेरी जरूरत है तो मैं आपसे तलाक लेकर उसके पास चली जाऊंगी।”

“चलो यह शर्त मंजूर है !” जगदीशचन्द्र हँसा। उसने अलका के घने बालों में से एक छोटी लट को अपनी उंगली पर लपेटा, और बोला, “मैं खुश हूं कि तुमने इतनी दिलेरी से बातें की हैं। तुम-सी लड़की कभी भूठ नहीं बोल सकती।”

“मैं कभी भूठ नहीं बोल सकती।”

जगदीशचन्द्र ने भुक्कर अलका के होंठों को छूना चाहा, पर अलका ने इन्कार में सिर हिला दिया, “अभी नहीं। विवाह के बाद।”

“सुवह अदालत में लिखकर दे दूं।”

“दे दीजिए।”

“पूरा एक महीना इन्तजार करनी होगी।”

“आपकी छुट्टी का क्या होगा ?”

“मैं और छुट्टी ले लूंगा।”

जगदीशचन्द्र जब अलका के कमरे से जाने लगा तो अलका ने जल्दी से दरवाज़ की देहरी पर जाकर उससे पूछा, “एक आखिरी खत लिखने की इजाजत है ? सिर्फ यह लिखना है कि आज से एक महीने के बाद मेरा विवाह हो जाएगा।”

“हां।” जगदीशचन्द्र ने हँसते हुए कहा, और अलका के कमरे से चला गया।

अलका रात को जब कुमार को खत लिखने लगी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यह खत किसे लिखने लगी थी। हाथ में

कलम पकड़कर जब उसने कागज की तरफ देखा तो उसे लगा कि वह खाइयों के पत्थरों को खत लिखने लगी थी।

Geeta Bhawan  
Adarsh Library, Jaipur, 1960 B.C.

१३

“चेतु चाचा शहरे जो गया तो शहरे दा ई होई रखा !” हरिया ने उठते-वैठते कई बार कहा। कुमार ने कई बार हरिया को भिड़की देकर कहना चाहा, कि उसने चेतु चाचा की रट क्यों लगा रखी थी। आखिर वह कभी-कभार शहर में गया था। चार दिन शहर की रीनक देखेगा, और खुद लौट आएगा। पर कुमार को लगा कि रोज जब गाड़ी का समय होता था तो वह खुद घूमते-घूमते शहर की बड़ी सड़क पर चला जाता था। वह पिछले कई दिनों से बैजनाथ की ओर नहीं गया था। हमेशा पपरोला की उत्तराई उत्तर जाता था, जैसे वह आधी बाट चलकर स्टेशन से जाते हुए चेतु चाचा को लेने जा रहा हो। इसलिए उसने हरिया को कुछ न कहा।

‘मैं चेतु चाचा की बाट इस तरह क्यों देख रहा हूं, जैसे कोई कासिद की इंतजार कर रहा हो ?’ कुमार ने हरिया को कुछ कहने की जगह अपने-आपको कोसा। वह स्वयं रुअंसा-सा हो गया। फिर उसने खुद ही अपने-आपको ढारस बंधाया, ‘मैं चेतु की बाट इसलिए देख रहा हूं, कि वह आकर मुझे अलका की पूरी खबर बताए, कि उसने वहां जाकर कोई जिद नहीं ठानी थी, और अपने पिताजी का कहना मानकर अपने विवाह की बात पक्की कर ली थी।’

एक दिन नाथी हरिया को खोजती-खोजती कुमार के बरामदे से बाहर निकली। कुमार धास पर बैठा था। नाथी को उसने पहले भा दो बार हरिया के पास आकर शहर की खबर पूछते देखा था। पर वह हमेशा हरिया से पूछकर लौट जाया करती थी। आज वह कुमार के पास आकर खड़ी हो गई :

“बाबूजी !”

“हाँ, नाथी !”

“मेरी जान तां मूलां टंगोई गई !”

“वया हुआ नाथी ?”

“चेतू चाचा घरे जो भुल्ली गया !”

“उसने जाना कहां है, नाथी ! आज-कल में ही आ जाएगा ।  
तुम्हारी मां को उसपर भरोसा नहीं, जो इतनी उतावली हो गई है ?”

“खड़दां दे पार तित्तरूं बोलदे तां अम्मां डरी-डरी जांदी !”

कुमार हंसने लगा । कुमार जानता था कि नाथी का खार्विद कई सालों से उसे छोड़कर परदेस गया हुआ था । नाथी जवान-जहान पी, पर वह हंस-खेलकर दिन बिता रही थी । और अब जब चेतू चाचा दो-चार दिनों के लिए परदेस गया था, तो उसकी बूढ़ी औरत इस तरह विराग गई थी, कि वह पल-पल बाद नाथी को उसकी खबर पूछने के लिए भेजती थी । कुमार ने हंसकर नाथी से कहा :

“अगर अम्मां की तरह तुम भी अपना दिल छोड़ बैठो तो क्या होगा !”

“मैं तां बाबूजी अपना दिल खड़दां दिया पत्थरां साही करी लिया !”

“फिर तुम अम्मां को समझाती क्यों नहीं हो ?”

“उसा दीयां हहियां दा चूरा होई जांदा ! मिजो वया पता, उस जो वी कन्ने भेजि दिदी !”

“उसे किस बात का डर लगता है ?”

“रब दीयां रब जाने, उट्टी-बई मिजो गालियां दिदी ए !”

“पर इसमें तुम्हारा क्या कसूर है ?”

“मैं चाचे जो टेशने उप्पर छहि आई ! अम्मां उट्टी-बई गलांदी ए : ओ दगेवाज शहरे जो गया शहरे दा ई होई रया !”

नाथी लौटने को हुई तो कुमार ने एक गहरा सांस लिया, ‘एक थोर चेतू की औरत है, जो यह सोचती है कि चेतू शहर जाकर शहर का ही क्यों हो रहा । दूसरी तरफ मैं हूं जो यह सोच रहा हूं, कि अलका शहर गई है, ईश्वर करे वह शहर की हो रहे !’

“जली जाए शहरां दा रहणां !” नाथी ने जाते-जाते कहा ।

“तुम्हें शहरों पर बहुत गुस्सा आ रहा है ।” कुमार फिर हंसने लगा ।

“तिखो पता नी बाबूजी ए हासा कुत्थं ते आऊंदा ए !” नार्थ जाती-जाती ठिठक गई, और कुमार की ओर देखने लगी ।

“आज तुम्हें क्या हुआ है, नाथी ! तुम्हें मेरी हँसी पर भी गुस्सा आ रहा है ।”

“अलका बीबी जो बनी करी शहर भेजि दित्ता ! मेरा मन बुरा हुंदा ए, बाबूजी ! मेरीयां अक्खां उस जो तोपदीयां फिरदीयां !”

कुमार ने चौंककर नाथी के चेहरे की ओर देखा । उसने सोचा, कि अलका ने नाथी को कुछ न बताया होगा, पर यह अलहड़-सी नाथी खुद ही उसकी हमराज वन गई थी । उसके मन ने खुद ही जान लिया था, कि अलका कुमार की भेजी हुई शहर चली गई थी ।

“एह घडोलू तां मेरे सिरे दा वैरीए, बाबूजी ! पानिएं जो जांदी आं तां में सारे रस्ते बीबी ए जो तोपदीयां !” नाथी ने कहा, और उदास मुह लिए चली गई ।

कुमार की आंखें झुक गईं । नाथी की बात उसके मन को कचो-टने लगी । उसे लगा कि वह भी नाथी की तरह अपने सिर पर अपना भार उठाकर चल रहा था । यह भार किसी दिन उसके सिर का वैरी हो जाएगा । वह इसे उठाए-उठाए फिरेगा, और अलका को जगह-जगह ढूँढ़ता फिरेगा । . . .

“बाबूजी, बाबूजी . . . !” हरिया पगड़ंडी के दूसरे सिरे से दौड़ता आ रहा था, और कह रहा था :

“चेतू चाचा आई गया ! हथ्ये नी बड़ा भारा टरंक लई आऊंदा !” हरिया ने कुमार के पास आकर बताया । वह हाँफ रहा था ।

कुमार को मालूम था कि चेतू खाली हाय गया था । टरंक की बात सुनकर उसे लगा, जैसे अलका भी चेतू के साथ आई हो ।

कुमार का दिल सिहर उठा, और वह सिहरन उसके बदन में से होती हुई उसके पांव में उतर गई । पगड़ंडी पर चढ़कर अलका को देखने के लिए उसके पैर आगे बढ़े । पर फिर वह अपने पांव को जकड़कर ठिठक गया—जैसे उसने खुद ही एक जंजीर अपने पांवों से बांध ली हो ।

‘मुझे यही डर था !’ कुमार को लगा, जैसे उसे अलका पर गुस्सा

प्रा रहा था। पर गुस्से से देखने की बजाय वह उत्सुकता से पगड़ंडी की ओर देखने लगा। देखता भी जा रहा था, और सोचता भी जा जा रहा था, “उसने जल्लर मनआई की होगी...” अगर मैं अब उसे आते ही यह कह दूँ, कि वह उलटे पांव लौट जाए तो फिर... यह मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती ?”

“पैरी पाऊंदा बाबूजी !” चेतू चाचा ने दस गज दूर से ही कहा, और सर-कंधों पर रखी हुई चीजें वहीं उतारकर कुमार के पास आ गया।

कुमार ने एक बार चेतू की तरफ देखा, एक बार खाली पगड़ंडी की ओर, और धीरे से बोला, “राजी तो रहा है, चेतू ?”

“बड़ा राजी बाबूजी !” चेतू ने लपककर कुमार के पांवों को छुआ।

“बड़े दिन लगा दिए ! शहर में बड़ा दिल लग गया था ?” कुमार को लगा, कि चेतू से बातें करते-करते वह अब भी खाली पगड़ंडी की ओर देख रहा था।

“शहरे दीयां गल्लां, बाबूजी, बड़ा सुख पाया ओथू ! खाने जो बहुत कुछ, देखने जो बहुत कुछ, ओथू बड़े-बड़े मकान...” चेतू चाचा बोलता जा रहा था।

“अच्छा, अच्छा, अब जल्दी से घर जाओ। तुम्हारी औरत को तुम्हारा विराग हो रहा है।” कुमार ने चेतू को बीच में ही टोककर कहा। उसने चेतू की बात को इसलिए नहीं टोका था, कि वह जल्दी से घर चला जाए; वह सोच रहा था कि चेतू से शहर की बातें कितनी देर तक खत्म नहीं होंगी। बात को टोक देने से शायद वह स्क जाएगा, और अलका की बात करेगा।

“क्या गलांदी थी ?” चेतू ने अपने पांव से जूती निकालकर उसमें से मिट्टी भाड़ते हुए पूछा।

“कौन ?”

“नाथी दी अम्मा !”

“वह नाथी को गालियां देती है, कि उसने तुम्हें शहर क्यों भेजा ! वह तुम्हें स्टेशन से लौटा क्यों न लाई !”

“उसदा वस होए बाबूजी, तां मिजो गोडे कन्ने बन्नी छहु !”  
चेतू ने कहा, और हँसने लगा। उसकी हँसी में इतना रोष नहीं था,  
जितनी इस बात की खुशी थी, कि उसके पास ऐसी अौरत थी, जो  
उसे आंख की ओट नहीं रखती थी।

कुमार ने गठरियों और बक्से की तरफ देखा, और चेतू से बोला,  
“तुम शाहर से बड़ी चीजें खरीदकर लाए हो?”

“क्या गलाऊं, बाबूजी ! अलका बीबिए मिजो बड़ीया बख्सीसां  
दित्तियां !”

अलका का नाम सुनकर कुमार को लगा कि यह नाम सुनने के  
लिए उसके कान बड़े प्यासे थे।

“वह राजी थी ?” कुमार की जबान ने अपने बस से बाहर  
होकर यह बात पूछ ली।

“तुसां वास्ते इक कागद दित्ता !” चेतू ने कहा, और बक्से को  
खोलने लगा।

“अगर इस तरह उसकी खबर को तरसना था, तो उसे भेजना ही  
थ्यों था ?” कुमार ने अपने-आपको उलाहना दिया।

“बाबूजी दिक्खां कितनियां बंगा !” चेतू ने बक्से को खोलकर  
कांच के बहुत-से गजरे दिखाए, और फिर एक रेशमी चादर दिखाते  
हुए बोला, “ऐ मिजो बड़े बाबूजी ने दित्ती औ, पिताजी ने।”

बक्से में एक गर्म कोट पड़ा था। चेतू ने बड़े चाव से उस कोट  
को निकाला, और उसके रेशमी अस्तर को अपनी तली से बार-बार  
सहलाते हुए कहा, “इक ओथू साहब आया, मिजो एक कोट...” चेतू  
की बात उसके मुंह में ही रह गई। उसे लगा कि कुमार ने माथे में  
तेवर डालकर उसकी तरफ देखा था। उसने सोचा कि बाबूजी उससे  
नाराज हो गए थे, कि उसने यह चीज शायद खुद मांग कर ली थी।

“मैं कुछ नहीं मंगिया था बाबूजी, साहब ने मिजो आपू ही  
दित्ता !” चेतू ने कुछ सहमकर कहा, और जल्दी से बक्स के खाने में  
से एक लिफाफा निकालकर कुमार को दिया।

कुमार ने लिफाफा ले लिया, और अपने कमरे में जाकर दरवाजा  
भिड़का लिया।—

आ रहा था । पर गुस्से से देखने की वजाय वह उत्सुकता की ओर देखने लगा । देखता भी जा रहा था, और सो जा रहा था, “उसने ज़रूर मनआई की होगी”...अगर आते ही यह कह दूं, कि वह उलटे पांव लौट जाए तो फिर चैन से जीने क्यों नहीं देती ?”

“पैरी पाऊंदा वावूजी !” चेतू चाचा ने दस गज दूर और सर-कंधों पर रखी हुई चीजें वहीं उतारकर कुमार गया ।

कुमार ने एक बार चेतू की तरफ देखा, एक बार ख की ओर, और धीरे से बोला, “राजी तो रहा है, चेतू ?

“बड़ा राजी वावूजी !” चेतू ने लपककर कुमार छुआ ।

“बड़े दिन लगा दिए ! शहर में बड़ा दिल लग गया को लगा, कि चेतू से बातें करते-करते वह अब भी खाली और देख रहा था ।

“शहरे दीयां गल्लां, वावूजी, बड़ा सुख पाया ओथ बहुत कुछ, देखने जो बहुत कुछ, ओथू बड़े-बड़े मकान बोलता जा रहा था ।

“अच्छा, अच्छा, अब जल्दी से घर जाओ । तुम्हा तुम्हारा विराग हो रहा है ।” कुमार ने चेतू को बीच में कहा । उसने चेतू की बात को इसलिए नहीं टोका था, से घर चला जाए ; वह सोच रहा था कि चेतू से शहर के दूर तक खत्म नहीं होंगी । बात को टोक देने से जाएगा, और अलका की बात करेगा ।

“क्या गलांदी थी ?” चेतू ने अपने पांव से जूत उसमें से मिट्टी भाड़ते हुए पूछा ।

“कौन ?”

“नाथी दी अम्मा !”

“वह नाथी को गालियां देती है, कि उसने तुम्हें शहर वह तुम्हें स्टेशन से लौटा क्यों न लाई !”

“उसदा वस होए वावूजी, तां मिजो गोडे कले बन्धी हुइ !”  
चेतू ने कहा, और हँसने लगा। उसकी हँसी में दूता रोप गई था,  
जितनी इस बात की खुशी थी, कि उसके पास ऐसी लौट थीं, जो  
उसे आंख की ओट नहीं रखती थीं।

कुमार ने गठरियों और बक्से की तरफ देखा, और चेतू से बोला,  
“तुम शहर से बड़ी चीजें खरीदकर लाए हों?”

“वया गलाऊं, वावूजी ! अलका बीविए मिजो बड़ोपा बराहांजा  
दित्तियां !”

अलका का नाम छुनकर कुमार को लगा कि वह नाम छुनते हैं  
लिए उसके कान बड़े प्यासे थे।

“वह राजी थी ?” कुमार की जवान ने अपने दूसरे दूसरे दूसरे  
होकर यह बात पूछ ली।

“तुसां बास्ते इक कागद दित्ता !” चेतू ने कहा, और दूसरे दूसरे  
दूसरे लगा।

‘अगर इस तरह उसकी खबर को तरसना था, तो उसे भेजता हीं  
क्यों था ?” कुमार ने अपने-आपको उलाहना दिया।

“वावूजी दिक्खां कितनियां बंगा !” चेतू ने दिखाए लो मांस-दूर  
कांच के बहुत-से गजे दिखाए, और फिर एक रेशमी चादर दिखाए  
हुए बोला, “ऐ मिजो बड़े वावूजी ने दित्ती लीं, पिताजी ने !”

बक्से में एक गर्म कोट पड़ा था। चेतू ने बड़े धाव से उस शैट  
को निकाला, और उसके रेशमी वस्तर को अपनी तली से बार-बार  
संहलाते हुए कहा, “इक बोधू साहब बाया, मिजो एक कोट...” चेतू  
की बात उसके मुँह में ही रह गई। उसे लगा कि कुमार ने जादे में  
तैवर ढालकर उसकी तरफ देखा था। उसने सोचा कि बाहूदी उन्हें  
गाराज हो गए थे, कि उसने यह चीज शायद सुद मांग कर ली थी।

“मैं कुछ नहीं मंगिया था वावूजी, साहब ने मिजो बाहूदी  
दित्ता !” चेतू ने कुछ सहमकर कहा, और जल्दी से बक्स के ज्ञाने में  
से एक लिफाफा निकालकर कुमार को दिया।

कुमार ने लिफाफा ले लिया, और अपने कमरे में जापर दरवाजा  
भिड़का लिया।—

“आपने मेरे कई नाम रखे थे। अपने नये-नये नाम रखने की मुझे आदत हो गई थी। आज इस महीने की आठ तारीख है। अगले महीने की इसी तारीख को मैं अपना एक और नाम रखूँगी—मिसिज जगदीशचन्द्र ! यह खबर सबको बता देना। खाइयों के पत्थरों को भी बता देना ! . . .” यह खत पढ़कर कुमार को पहली बार जिन्दगी में यह महसूस हुआ, कि उसकी छाती को चीरकर उसका रोना निकल जाएगा।

## १४

जगदीशचन्द्र अपने गांव चाहल अपनी माँ के पास चला गया था। पूरे बीस दिन वहां रहकर, फिर कुछ चीजें खरीदने के लिए अमृत-सर आ गया था। रात को उसे अलका के पिताजी अपने पास ले आए थे। अलका उसे पूरे सल्कार से मिली थी। उसके साथ कोठी के बगीचे में भी बैठी रही। जगदीशचन्द्र को सिर्फ यह महसूस हुआ था कि अलका पहले से कुछ दुबली हो गई थी।

आधी रात होगी। सोते-सोते जगदीशचन्द्र को लगा, जैसे वह किसी पहाड़ की पगड़ंडी पर खड़ा होकर सामने के ऊंचे पहाड़ों पर पड़ी हुई बर्फ को देख रहा हो। पास के किसी भोड़ पर से उसे किसी पहाड़िन के गाने की आवाज सुनाई दी। पहाड़ी स्वर कितनी ही देर उसके कानों में गूंजते रहे। फिर स्वरों के साथ-साथ गीत भी सुनाई देने लगा :

‘दुःखां वाला डलडू तूं मेरे कन्ने देई दे !

ता होई जा अगाड़ी मेरे माहणुयां !

ओ पखलिया माहणुयां !’

आवाज दिल में उत्तरती जा रही थी। जगदीशचन्द्र अधजगी हालत में था। उसको कितनी ही देर मालूम न हुआ कि वह पहाड़ पर नहीं था, एक शहर के एक कमरे में सोया हुआ था।

एक बार गीत के बोल थिरक गए, जैसे गानेवाले की आवाज आंसुओं से भर आई हो। जगदीशचन्द्र चौंककर चारपाई से उठ

बैठा। आवाज बाहर के बंगीचे में से आ रही थी। बंगीचे में रात का अंधेरा गहरा नहीं था। वह कितनी देर खिड़की में से देखता रहा। पर जिस तरफ आवाज की सीध थी, उस तरफ एक पेड़ का गहरा साया था। पेड़ के साए की तरफ देखते हुए जब उसकी आंखें अंधेरे से कुछ हिल गईं, तो उसने अलका की पीठ पहचान ली।

“अलका !” जगदीशचन्द्र ने बाहर बंगीचे में जाकर कहा, और डड़ से पीठ टेककर खड़ी हुई अलका के पास जा खड़ा हुआ।

अलका चुप हो रही।

“तुम बहुत उदास हो !”

अलका ने सिर झुका लिया।

“मुझे लगता है जैसे इस सारी उदासी का कारण मैं हूँ।”

“नहीं, आप नहीं।”

“पर मेरे कारण तुम्हारी मजबूरी और बढ़ जाएगी !”

“इससे अधिक अब क्या बढ़ेगी… !”

“पर अलका… !”

“जी।”

“कैसा विवाह है यह ?”

“मैं खुद नहीं जानती।”

“मैं कई बार बैठे-बैठे सोचने लगता हूँ… बाजार भी जाता हूँ, बीजें भी खरीदता हूँ… पर दिल में खुशी नहीं दिखती… !”

अलका को अपने पर कभी तरस नहीं आया था, जगदीशचन्द्र की हालत पर उसे तरस आ गया। उसने आगे बढ़कर जगदीशचन्द्र का हाथ पकड़ लिया, “आप क्यों विचारों में पड़ते हैं, इन्कार कर लीजिए इस विवाह से !”

“मैंने एक दिन यह भी सोचा था, और उस रात तुम्हें खत भी लिखा था, पर दूसरे दिन मैं खुद ही विचारों में डब गया। लिफाफे में डाला हुआ खत फाड़ डाला।”

“आज यही समझ लीजिए, कि मुझे वह खत मिल गया है।”

“तुम्हारे पिताजी क्या कहेंगे ? सोचेंगे, यह कैसा आदमी है !

“तिर्फ दस दिन वाकी हैं।”

“पिताजी से मैं खुद कुछ कह लूँगी।”

“पर अलका……वह कैसा आदमी है जो तुम्हें प्यार नहीं कर सका !……तुम उसे भूल नहीं सकतीं……?……मैं सोचता हूँ कि उसे तुम समय पाकर भूल जाओगी।”

अलका ने पहली बातों का कोई जवाब नहीं दिया। आखिरी बात के जवाब में बोली, “शायद यह समय उमर जितना लम्बा हो जाए ! आप इस समय की कीमत चुकाते रहिएगा ?”

“मुझे उदास रहने की ज़रा भी आदत नहीं, पर मैं कई दिन से उदास हूँ।”

“मैं इसीलिए कहती हूँ, कि आप यह कीमत क्यों दें !”

“मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ……तुमने मुझे पहले दिन ही सब कुछ बता दिया था। पर उस दिन जाने मुझे क्या हुआ था !”

“मैं उस दिन सोच रही थी, कि आप न जाने यह विवाह क्यों करना चाहते हैं……!”

“तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगी थीं……पर अब सोचता हूँ कि मैं तुम्हारी अकेली खूबसूरती का क्या करूँगा……!……” जगदीशचन्द्र की भटकती आंखों ने अंधेरे में अलका के छेहरे को टटोला।

“आप ठीक सोचते हैं !”

“मेरा ख्याल है कि मैं वाकी छुट्टियां कैसिल करवाकर वापिस नौकरी पर चला जाऊँ। पर मेरे जाने के बाद क्या सोचोगी ?”

“क्यों ? एक अच्छा आदमी, और क्या ! आप यूंही परेशान हो रहे हैं। आज आपकी रात की नींद भी खराब हो गई है।”

अलका जगदीश को साथ लेकर कोठी में लौट आई, और जगदीश को उसके कमरे तक छोड़कर खुद अपने कमरे में चली आई।

अलका जिन दिनों यहाँ होती थी, सुबह की चाय खुद बनाया करती थी। उस दिन भी जब सुबह हुई, अलका ने चाय बनाई। एक प्याला अपने पिताजी के कमरे में रख आई, और एक प्याला जगदीश के कमरे में। जगदीश के कमरे से जब वह लौट रही थी तो आवाज देकर जगदीश ने उसे अपने पास बुलाया।

अलका पलंग के पास जाकर खड़ी हो गई। जगदीश ने पलंग से उठकर एक सिगरेट सुलगाई, और पलंग के प्राये पर बैठते हुए बोला, “मुझे रात को बिलकुल नींद नहीं आई।”

“आप इतना क्यों सोचते हैं? वापिस जाकर एक-दो दिन में ठीक हो जाएगा।”

“तुमने उस दिन तलाक की बात की थी।”

“अच्छा हुआ उसकी ज़रूरत न पड़ी।”

“तलाक विवाह के बाद होता है। पर मुझे आज ऐसे लगता है, जैसे तलाक विवाह से पहले हो गया हो……!……”

अलका ने मन की पीड़ा को जीकर देखा हुआ था। वह जगदीश के मुंह से इतनी भावुक बात सुनकर सहम गई, कि इस राहचलते आदमी को यह पीड़ा न छू जाए।

“मैं कभी ऐसी भावुक बातें नहीं करता……पर तुम ठीक कहती हो। वापिस काम पर लौट जाऊंगा, तो एक दिन में ठीक हो जाऊंगा।”

अलका जाने लगी तो जगदीश ने उसे फिर रोक लिया, और बोला, “तुम मेरे मन की हालत समझती हो?”

“हाँ।”

“मैं जब तुम्हारी तरफ देखता हूं, तुम्हारे चेहरे के पीछे मुझे एक और चेहरा भी दिखाई देता है, जिससे तुम प्यार करती हो—मुझे उसका चेहरा भी दीखता है……शायद मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखूंगा……मुझे इसी तरह दिखाई देगा……इसलिए हमें विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों, करना चाहिए?”

“नहीं करना चाहिए।”

“मेरा यहां दिल घबराता है। मैं अभी तैयार होकर चला जाऊंगा।”

“अच्छा।”

“मैं पिताजी से कुछ नहीं कहूंगा—तुम खुद कुछ कह देना।”

“अच्छा।”

अलका अपने कमरे में लौटी, तो उसकी चाय ठण्डी हो चुकी

था। उसने गर्म चाय का एक प्याला और बनाया। खिड़की में खड़ी जब वह चाय पी रही थी उसने जगदीशचन्द्र को कोठी के दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा।—अलका कितनी ही देर जगदीश की पीठ की तरफ देखती रही। वह ओभल हो गया, तो अलका उसकी पीठ के ख्याल में ही डबी रही—उसे लगा, जैसे वह इस पीठ से माफी मांग रही हो।

## १५

कुमार के कमरे में लटका हुआ कैलेंडर कई दिनों से कुमार की ओर देख रहा था, और कुमार उसकी ओर। कैलेंडर की ओर देखते-देखते कुमार कभी यह सोचता कि आनेवाली आठ तारीख इतनी जल्दी क्यों आ रही थी, और उसका दिल चाहता था, कि वह तारीख कहीं रास्ते में ही अटक जाए, और कभी वह सोचता, कि आनेवाली आठ तारीख इतनी देर से क्यों आ रही थी, और उसका दिल चाहता, कि तारीख जल्दी से आकर गुजर जाए। कैलेंडर उसकी तरफ देखता रहता था, और देखते-देखते उसका दिल चाहता कि वह इस कमरे में से उठकर वहां चला जाए, जहां से कुमार को कभी किसी तारीख का पता न चले।

आठ शब्द याद आते ही कुमार को जाने क्या हो जाता। एक दिन हरियाने आकर जब आठ आने मांगे तो कुमार काफी देर उसके चेहरे की तरफ देखता रहा।

“बटु बजी गए वावूजी?” एक दिन सुबह लकड़ियों का गट्ठा ले जाते हुए पहाड़िये ने कुमार से पूछा, तो कुमार का पांव ठिठककर पत्थर से जा टकराया।

कुमार कई दिनों से एक तस्वीर बना रहा था। तस्वीर में एक चन्द्रमा अपने पूरे जलाल में था। नीचे एक पानी का तालाब था। उसमें चांद की परछाई भी चन्द्रमा की ही तरह भरपूर जलाल में थी। तालाब के किनारे पर कुछ लम्बे पेड़ थे, और पानी में उनके काले साये तैर रहे थे। यह तस्वीर करीब आठ फुट लम्बी थी। कुमार ने

जब तस्वीर खत्म की, तो कमरे की सबसे बड़ी दीवार पर लटकाकर उसे दूर से देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि तस्वीर पर बड़े आकार में 'आठ' का अंक लिखा हुआ था। आसमान के चन्द्रमा का गोल दायरा, और पानी में उसकी परछाई का गोल दायरा मिलकर 'आठ' का अंक बन गया था। कुमार ने कई बार अपनी चेतना पर दबाव डालकर देखना चाहा कि तस्वीर में एक चन्द्रमा था, और एक उसकी परछाई। पर उसकी आंखें इस विचार के प्रतिकूल जब तस्वीर की ओर देखती थीं, तो उन्हें 'आठ' का अंक दिखाई देता था। तस्वीर की ओर देखते-देखते कुमार ने देखा कि तस्वीर के पेड़ भी आठ ही थे। चार लाव के किनारे पर उगे हुए पेड़ थे, और चार उनके पानी में तैरते साये। कुमार ने घबराकर वह तस्वीर दीवार से उतार ली।

कुमार ने नया कैनवस लेकर एक और तस्वीर बनानी शुरू कर दी। इस तस्वीर में एक अन्धेरे का आलम था। एक मुसाफिर इस अंधेरे में रास्ते पर चल रहा था। क्षितिज की केवल हल्की-सी रेखा उस मुसाफिर को दिखाई दे रही थी। मुसाफिर का सारा शरीर अंधेरे में लिपटा हुआ था। पर उसके पैर रोशनी में भीगे हुए थे। कुमार ने इस मुसाफिर के पैरों को उजले रंगों में बनाया। जितने कदम वह मुसाफिर चल चुका था कुमार ने उन पैरों के निशान भी उजले बनाए। तस्वीर को खत्म करके कुमार ने जब उसे कमरे की दीवार पर लगाया तो उसकी तरफ देखते-देखते कुमार, को लगा कि तस्वीर का मुसाफिर चल नहीं रहा था। अपने पैरों पर खड़ा का खड़ा रह गया था। कुमार ने उन उजले कदमों की ओर देखा, जो कदम वह मुसाफिर चलकर आया था। कदम पूरे सात थे। आठवें कदम पर वह मुसाफिर चलने से रुक गया था। कुमार ने कांपते हाथों से उस तस्वीर को दीवार से उतार लिया, और नया कैनवस लेकर एक और तस्वीर बनाने लगा।

इस नई तस्वीर में कुमार ने खास ध्यान रखा कि किसी तरह भी पेड़ों और कदमों की तरह कोई ऐसी चीज नहीं बनाएगा जिसे गिना जा सके। इस तस्वीर में उसने एक लड़की इस तरह की बनाई, जिसका सम्बन्ध एक अलग दुनिया, और अलग किसी की जिन्दगी से था।

लड़की के इस तरफ उसने संगमरमर की जाली की एक बहुत ऊँची आड़ बना दा। जाली की यह आड़ एक दुनिया को, और एक जिन्दगी का अलग-अलग कर रही थी।

कुमार ने ऐस तसल्ला से इस तस्वीर को बनाकर जब दीवार पर टांगा, और खुद दरखाजे की चौखट पर खड़ा होकर दूर से इस तस्वीर को देखने लगा, तो उसकी आंखें चकित रह गईं। संगमरमर की जाली के सारे सुराख एक-दूसरे से मिलकर इस तरह के आकार में ढल गए थे जैसे पूरे के पूरे कैनवस पर सैकड़ों 'आठ' लिखे हुए हों। 'आठों' की लम्बी कतार थी, कतार के नीचे एक और कतार! उसके नीचे एक और कतार, उसके नीचे एक और कतार...!... कुमार ने सिर झुकाकर दीवार की ओर से मुंह फेर लिया, जैसे उसने अपने-आपसे मुंह फेर लिया हो।

हरिया कई बार बैठे-बैठे अपने देश का एक गीत गाया करता था, 'वारां वजि गए हो, राजे दीयां घड़ीयां वारां वजि गए हो !' कुमार ने यह गीत कई बार सुना था। इसे सिर्फ हरिया ही नहीं गाया करता था, गड़रिये भी गाया करते थे। कोई-कोई तो इसे वांसुरी पर बजाया करता था। कुमार ने कभी इस गीत की तरफ ध्यान नहीं दिया था। आज हरिया से यह गीत सुनकर उसे लगा, कि इस गीत की पृष्ठभूमि में कोई दर्द-भरी कहानी थी। इस घाटी में कभी इस तरह के बारह बजे होंगे, कि सारी घाटी कांप उठी होगी। इस घटना फो जाने कितने वर्ष हो चुके होंगे। शायद एक सदी गुजर चुकी हो। पर बारह बजे घटित हुई कहानी आज भी इस घाटी के लोगों को याद थी। जैसे वे आज भी जब घड़ी की तरफ देखते हैं, उन्हें बारह बजने से भय आने लगता है।...

"हरिया !"

"हां, वाबूजी !"

"यह तुम क्या गा रहे हो—वारां वंजि गए ?"

"एह साड़े देसे दा गीन ए !"

"बारह बजे क्या हुआ था ?"

"बारह बजे मोहने ने फांसिए चढ़ना सी !"

“यह भोहना कौन था ?”

“फुल्ला लहीयां वाड़ीयां विच राजे दा माली सी ।”

“राजे ने उसे फांसी का हुक्म क्यों दे दिया ?”

“एह राजे दी रानी कीयां हार दिदा सी ।”

“और क्या करता था ?”

“पंजरंगी मुरली बजांदा सी ।”

“फिर राजे ने उसे फांसी लगा दिया ?”

“नहीं, वावूजी ! इसदे धरमे दे भार नाल तखता ढुटी गया !”

“ओ……!……”

कुमार जब हरिया से यह कहानी सुनकर दूर के पेड़ों की तरफ देखते हुए नीचे गया तो वह सोच रहा था, ‘मोहने ने किसी रानी के रूप की पूजा की होगी, रानी के श्रृंगार के लिए उसने फूलों के हार पिरोए होंगे, राजा को उन फूलों में से मुहब्बत की खुशबू आई होगी, और राजा ने फांसी का हुक्म सुना दिया ! मुहब्बत करना मोहने का कसूर था ; यही कसूर उसका धर्म बन गया, और धर्म के भार से फांसी का तख्ता ढूट गया……मैं इससे विलकुल उलटा खेल खेल रहा हूँ…… मैंने मुहब्बत को धर्म नहीं बनाया, शायद इसीलिए मेरे भार से कुछ नहीं बनता । मेरे सारे दिन, सारी रातें इस तरह हो गई हैं, जैसे मैं फांसी के तख्ते पर खड़ा होऊँ……!……’

धड़ी की सुई ने जैसे धीरे-धीरे सरकते हुए वही बारह बजा दिए थे, जब मोहने ने फांसी लगना था । उसी तरह समय की सुई धीरे-धीरे सारे दिन गुज़र गई, और अखिल आठ तारीख पर आ पहुंची ।……

कुमार को याद आया कि कई वर्ष पहले जब वह बम्बई पढ़ता था, तो वह एक बार समुद्र में नहाने के लिए गया था । उस दिन उसने पहली दफा समुद्र में पांव रखा था । वह कितनी ही हलकी-हलकी लहरों के थपेड़े अपनी पीठ पर महसूस करता रहा । कभी उसके पैर उखड़ जाते थे, कभी समुद्र का सलोना पानी उसके नाक और मुँह में चला जाता था । वह कितनी ही देर छोटी-छोटी लहरों में खड़ा रहा था । नहाते-नहाते वह पानी में और आगे बढ़ गया था, और फिर अचानक एक बहुत बड़ी लहर उसपर चढ़ आई

लड़की के इस तरफ उसने संगमरमर की जाली की एक बहुत ऊँची आड़ बना दा। जाली की यह आड़ एक दुनिया को, और एक जिन्दगी का अलग-अलग कर रही थी।

कुमार ने एस तस्तला से इस तस्वीर को बनाकर जब दीवार पर टांगा, और खुद दरवाजे की चौखट पर खड़ा होकर दूर से इस तस्वीर को देखने लगा, तो उसकी आंखें चकित रह गईं। संगमरमर की जाली के सारे सुराख एक-दूसरे से मिलकर इस तरह के आकार में ढल गए थे जैसे पूरे के पूरे कैनवस पर सैकड़ों 'आठ' लिखे हुए हों। 'आठों' की लम्बी कतार थी, कतार के नीचे एक और कतार! उसके नीचे एक और कतार, उसके नीचे एक और कतार...!... कुमार ने सिर झुकाकर दीवार की ओर से मुंह फेर लिया, जैसे उसने अपने-आपसे मुंह फेर लिया हो।

हरिया कई बार बैठे-बैठे अपने देश का एक गीत गाया करता था, 'वारां बंजि गए हो, राजे दीयां घड़ीयां वारां बंजि गए हो !' कुमार ने यह गीत कई बार सुना था। इसे सिर्फ हरिया ही नहीं गाया करता था, गड़रिये भी गाया करते थे। कोई-कोई तो इसे बांसुरी पर बजाया करता था। कुमार ने कभी इस गीत की तरफ ध्यान नहीं दिया था। आज हरिया से यह गीत सुनकर उसे लगा, कि इस गीत की पृष्ठभूमि में कोई दर्द-भरी कहानी थी। इस घाटी में कभी इस तरह के बारह बजे होंगे, कि सारी घाटी कांप उठी होगी। इस घटना को जाने कितने वर्ष हो चुके होंगे। शायद एक सदी गुजर चुकी हो। पर बारह बजे घटित हुई कहानी आज भी इस घाटी के लोगों को याद थी। जैसे वे आज भी जब घड़ी की तरफ देखते हैं, उन्हें बारह बजने से भय आने लगता है।...

"हरिया !"

"हाँ, बाबूजी !"

"यह तुम क्या गा रहे हो—वारां बंजि गए ?"

"एह साड़े देसे दा गीन ए !"

"बारह बजे क्या हुआ था ?"

"बारह बजे मोहने ने फांसिए चढ़ना सी !"

“यह मोहना कौन था ?”

“फुल्ला लद्दीयां वाड़ीयां विच राजे दा माली सी ।”

“राजे ने उसे फांसी का हुक्म क्यों दे दिया ?”

“एह राजे दी रानी कीयां हार दिंदा सी ।”

“और क्या करता था ?”

“पंजरंगी मुरली बजांदा सी ।”

“फिर राजे ने उसे फांसी लगा दिया ?”

“नहीं, वावूजी ! इसदे धरमे दे भार नाल तखता टुटी गया ।”

“ओ…… ! ……”

कुमार जब हरिया से यह कहानी सुनकर दूर के पेड़ों की तरफ देखते हुए नीचे गया तो वह सोच रहा था, ‘मोहने ने किसी रानी के रूप की पूजा की होगी, रानी के श्रृंगार के लिए उसने फूलों के हार पिरोए होंगे, राजा को उन फूलों में से मुहब्बत की खुशबू आई होगी, और राजा ने फांसी का हुक्म सुना दिया ! मुहब्बत करना मोहने का कसूर था ; यही कसूर उसका धर्म बन गया, और धर्म के भार से फांसी का तख्ता टूट गया…… मैं इससे बिलकुल उलटा खेल खेल रहा हूँ…… मैंने मुहब्बत को धर्म नहीं बनाया, शायद इसीलिए मेरे भार से कुछ नहीं बनता । मेरे सारे दिन, सारी रातें इस तरह हो गई हैं, जैसे मैं फांसी के तख्ते पर खड़ा होऊँ…… ! ……’

घड़ी की सुई ने जैसे धीरे-धीरे सरकते हुए वही बारह बजा दिए थे, जब मोहने ने फांसी लगना था । उसी तरह समय की सुई धीरे-धीरे सारे दिन गुज़र गई, और आखिर आठ तारीख पर आ पहुंची ।……

कुमार को याद आया कि कई वर्ष पहले जब वह बम्बई पढ़ता था, तो वह एक बार समुद्र में नहाने के लिए गया था । उस दिन उसने पहली दफा समुद्र में पांव रखा था । वह कितनी ही हलकी-हलकी लहरों के थपेड़े अपनी पीठ पर महसूस करता रहा । कभी उसके पैर उखड़ जाते थे, कभी समुन्दर का सलोना पानी उसके नाक और मुंह में चला जाता था । वह कितनी ही देर छोटी-छोटी लहरों में खड़ा रहा था । नहाते-नहाते वह पानी में और आगे बढ़ गया था, और फिर अचानक एक बहुत बड़ी लहर उसपर चढ़ आई

थी। वह बौखला उठा था। उसे लगा था कि यह लहर उसे बहाकर ले जाएगी। “एक और आदमी उससे कुछ फासले पर नहा रहा था। उसने पास आकर कुमार का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उछाल लिया था, और लहर पैरों के नीचे से गुजर गई थी। उसने कुमार को बताया था, कि इस तरह की ऊँची लहरों के आने पर या तो अपने पैर उठाकर लहर पर सवार हो जाना चाहिए, और या नाक-मुँह बंद रखकर लहर को अपने सिर पर से गुजर जाने देना चाहिए। और कुमार ने सोचा, कि अगर वह आठ तारीख की इस ऊँची लहर पर सवार होकर पार नहीं हो सकता, तो उसे अपना नाक-मुँह बंद कर लेना चाहिए, और इस लहर को अपने सिर के ऊपर से गुजर जाने देना चाहिए।

कुमार अपने चक्क की पगड़ंडी पर चलता बड़ी सड़क पर आ गया। इस सड़क पर से अक्सर सैलानियों की मोटरें गुज़रती थीं। कई बार कुछ सैलानी अपनी मोटरें सड़क पर छोड़कर कुमार का स्टुडियो देखने के लिए चक्क की पगड़ंडी उतर आते थे। मन्दिरों के भरनों की तरह इस धाटी में कुमार का स्टुडियो भी दर्शनीय समझा जाता था। कई बार कुछ लोग कुमार से शहर का कोई काम भी पूछ लेते थे।—आज कुमार को सड़क पर आकर किसी सैलानी की शहर की ओर जाती मोटर तो दिखाई न दी, पर फौजियों की एक जीप ज़रूर मिल गई। फौजियों ने बताया कि उन्हें पठानकोट तक जाना था। कुमार उनकी जीप में बैठकर पठानकोट की तरफ चल दिया। जीप पालमपुर पहुंची तो कुमार ने पठानकोट जाने का इरादा छोड़ दिया। वह पालमपुर ही उतर गया।

‘जैसा पठानकोट वैसा पालमपुर!’ कुमार ने मन में कहा, और उस गली की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर कुमार ने सोचा था, कि वह नाक-मुँह बंद कर किसी औरत के जिस्म में इस तरह खो जाएगा कि आठ तारीख की ऊँची लहर उसके सिर के ऊपर से गुजर जाएगी। कुमार को विश्वास था कि वह पानियों में अडिग खड़ा रह जाएगा, और वह आसानी से किनारे की रेत पर लौट आएगा।

पालमपुर के बाजार में बैठनेवाली औरतों को ज्यादा आमदनी

की उम्मीद नहीं हुआ करती थी। इस रास्ते से होकर गुजरनेवाले फौजी उनका एकमात्र सहारा थे। बड़े अफसर उस तरफ कम ही आते थे, क्योंकि उन्हें पठानकोट में यहां से अधिक सहलियतें मिल जाती थीं। इसलिए आम किस्म के ग्राहकों की अभ्यस्त ये औरतें जब कभी ऐसे आदमी को देखतीं जिससे उन्हें ज्यादा आमदनी की उम्मीद होती तो वे खास तौर से उसका स्वागत करतीं। कुमार का स्वागत भी इस तरह हुआ, जैसे एक मुद्दत के बाद किसी वाकिफ के घर में आया हो।

चन्द्रावती की आयु को अल्हड़ कहा जा सकता था, पर उसकी कोई भी अदा अल्हड़ नहीं थी। कुमार ने शराब पीने से इन्कार कर दिया, तो चन्द्रा ने मुस्कराकर कुमार के सामने से गिलास हटा लिया। कांच के एक प्याले में उसने फलों का रस डालकर कुमार के पास रख दिया, और उसके पैरों से बूट उतारकर उसकी जुरावें उतारने लगी।

चन्द्रा की ठंडी-ठंडी उंगलियां जब कुमार के कसे हुए बदन से छुईं, तो कुमार को लगा जैसे नींद आ रही हो।

चन्द्रा ने सेमल की रुई से भरा हुआ एक तकिया पलंग पर रख दिया। कुमार ने तकिये पर सिर रखकर चन्द्रा से पूछा, कि अगर आज उसका विवाह होना हो तो वह कैसे कपड़े पहनेगी। उसने चन्द्रा को वैसे ही कपड़े पहन लेने के लिए कहा, और चांदी के वे सारे गहने भी पहनने को कहा, जिन्हें विवाह के दिन पहना जाता है।

चन्द्रा चुप रही। साथ की कोठरी में जाकर उसने अपना वक्स खोला। चन्द्रा ने हरी छैल की चूड़ीदार सलवार पहनी। दरियाई किनारीवाला कुर्ता पहना, पांव में पायल, और नाक में चांदी की एक छोटी-सी नथ पहनकर जब वह कुमार के पास आई तो कुमार सो चुका था।

पायल की खनक से कुमार ने अपनी अलसाई आंखें खोलीं, और देखा कि चन्द्रा उसके पायताने इस तरह सिमटकर बैठ गई थी जैसे वह अभी-अभी डोली में से निकलकर लाई गई हो।

कुमार ने हाथ पकड़कर चन्द्रा को पायताने से उठाया। पर

चन्द्रा को अपनी बांहों में लेते हुए उसे महसूस हुआ जैसे वह कपड़ों की बनी एक गुड़िया से खेल रहा हो ।

चन्द्रा ने नाक में पहनी हुई नथ को अपनी उंगलियों से थाम लिया । नथ का मोती शायद उसे भारी लग रहा था । कुमार ने चन्द्रा की ओर देखा, और उसे लगा, कि चन्द्रा विवाह का यह स्वांग भरते-भरते ऊब गई थी ।

‘यह स्वांग किसलिए ।’ कुमार को खयाल आया, और उसने अपने-आप को धूरकर देखा, ‘मैंने चन्द्रा को अलका का स्वांग भरने के लिए क्यों कहा था ? मैं यह क्या कर रहा हूँ !’

‘आज ही नहीं, तुम हमेशा ही इस तरह करते हो !’ कुमार को लगा, जैसे बाहर से किसीने कुछ न कहा हो, पर उसके अन्दर बैठकर उससे कोई कह रहा था, ‘तुमने अपने-आपको कभी भी उस तरह स्वीकार नहीं किया, जैसे तुम्हें करना चाहिए था । तुमने अलका को भी कभी उस तरह कवूल नहीं किया, जैसे तुम्हें करना चाहिए था । तुम अलका में हमेशा एक वेश्या का भ्रम खाते रहे, और आज एक वेश्या में अलका का भ्रम खाना चाहते हो…… तुम यह क्यों नहीं समझते कि वह यहां भी बैठी हुई है, तुम उसके पास बैठे हुए हो, और तुम यहां भी खड़े हो, वह तुम्हारे पास खड़ी है……’

‘……पानी में कभी रेखा नहीं खिचती । रेखा का भ्रम होता है, पर रेखा नहीं !……तुम अब तक पानी को तोड़कर देख रहे हो……’

पानी टूट नहीं सकता था ; पानी का बांध टूट गया । दिल के पानियों में जाने कैसा वेग आया । इसी पानी के जोर में से एक विजली पैदा हुआ । मुहब्बत और नफरत की तारों ने मिलकर इस विजली को जगा दिया, और इसकी रोशनी में कुमार को लगा कि अलका उसके पास थी । कुमार ने चन्द्रा की मूँठ रूपयों से भर दी । वे रूपये चन्द्रा से आज के स्वांग के लिए माफी मांग रहे थे ।

कुमार गली में से होता हुआ बड़े बाजार में आ पहुंचा, और पपरोला को जा रही बस में बैठ गया ।

बस के पपरोला पहुंचते-पहुंचते अंधेरा गहरा हो गया था । डेढ़

मील अभी और बाकी था। पर कुमार जल्दी-जल्दी पांव उठाता हुआ अपने चक्क की तरफ इस तरह बढ़ा जैसे वहाँ उसका कोई इत्तजार कर रहा हो।

चक्क की कच्ची पगड़ंडी से उतरकर कुमार सीधा भुगियों की तरफ चला गया। जिस भुगी में अलका ने दियों के बहुत-से आले बनाए हुए थे, कुमार ने उस भुगी में जाकर सब दिये जला दिए। भुगी की दीवार भिलमिला उठी। कच्ची उचान पर ऊन का गलीचा विछा हुआ था। कुमार जब उस गलीचे पर बैठा तो उसे लगा जैसे आज उसके विवाह की पहली रात हो। अलका कहीं नहीं गई थी, अलका उसके पास थी। अलका उसके अन्दर थी। ... और फिर कुमार ने उस दीवार की ओर देखा, जिस दीवार पर अलका ने पानी की लहरें बनाकर पानी में एक रेखा खींची हुई थी। कुमार के दिल में आया, कि कह अभी रंग और ब्रुश लेकर पानी में खींची हुई रेखा को मिटा दे....! ....

## १६

अलका ने कोठी के बगीचे में एक ऊंची जगह पर पत्थर की एक शिला रखी हुई थी। इस शिला पर वह शाम को चाय के प्याले रखकर अपने पिताजी को आवाज देकर बुला लेती थी। पिताजी रोज़ नियम-पूर्वक शाम के छः बजे चाय पीते थे, और फिर सैर करने के लिए चले जाते थे। अलका उनके आने तक बगीचे में ही बैठी रहती थी।

आज पिताजी को गए कुछ ही देर हुई थी। जगदीशचन्द्र कोठी के बाहरी दरवाजे में से धीरे से अलका के आस आ गया। अलका चाय के खाली प्याले उठा रही थी।

“आप !”

“मैं कितनी देर से उस तरफ मोड़ पर खड़ा हुआ था। पिताजी के चले जाने पर अन्दर आने की सोच रहा था।”

“पिताजी ने आपको आने से कभी नहीं रोका।”

“पर मैं तुम्हें अकेले में मिलना चाहता था।”

“बैठिए।”

“बैठने का अधिकार मैंने खो दिया है, पर आज मैं वही अधिकार लेने आया हूँ...”

“आप अभी तक वापस नहीं गए ?...आज पन्द्रह तारीख हो गई है...”

“वापस जाना चाहा था, जा नहीं सका...अलका !”

“जी !”

“मैं उस दिन जब रात के अंधेरे में यहाँ से चला गया था...”

“मैंने आपको जाते हुए देखा था।”

“तुमने उस दिन क्या सोचा होगा ?”

अलका ने हँसकर कहा, “जहाँ तक आपकी पीठ दिखाई देती रही, मैं आपकी पीठ की तरफ देखती रही, और उससे माफी मांगती रही।”

“माफी तो उसे मांगनी चाहिए, जो पीठ करके चला जाए !”

“आप किसीकी तरफ पीठ करके जानेवाले नहीं थे ; जाने के लिए मैंने आपको मजबूर किया था, इसलिए मैं आपकी पीठ से माफी मांगती रही...”

जगदीश ने एक गहरा सांस लिया, और अलका की तरफ देखते हुए बोला, “न कोई तुम्हारी तरह सोच सकता है, न कोई तुम्हारी तरह बोल सकता है ! अब तुम समझी हो कि मैं जाकर भी क्यों नहीं जा सका । लगता था दुनिया में हुस्न भी बहुत मिल जाएगा, जवानी भी मिल जाएगी, पर यह जो मैंने तुममें देखा है, वह मुझे कभी नहीं मिलेगा !”

अलका कुछ नहीं बोली । उसने सिर झुका लिया ।

“यह जो आठ तारीख गुज़र गई है अलका, वह मुझे लौटादो !”

“तारीख तो लौट सकती है, पर...”

“अब मेरे मन में कोई ‘पर’ नहीं रहा, और न तुम्हारे मन में रहेगा !”

“क्यों ?”

“क्योंकि उसका कारण नहीं रहा !”

“कारण उसी तरह है, जैसे पहले था।”

“नहीं अलका, अब वह कारण नहीं रहा। तुम्हें एक अपनी चोरी बताऊं ?”

“क्या ?”

“मैं तुमसे भी पूछ सकता था, परंपूछा नहीं था। खुद ही सोचता रहा, कि आखिर वह कौन-सा आदमी था, जिसे तुम इतना प्यार करती थीं !”

“आप पूछते, मैं बता देती।”

“मैं खुद ही सोचता रहा। जो सोचा था, ठीक निकला।”

“उनका नाम कुमार है।”

“मुझे पता है।”

“पर यह पता लगने-भर से कारण कैसे मिल गया ?”

“मैं वहां गया था, चक्क नम्बर छत्तीस में, उसे देखने के लिए।”

“फिर ?”

“जब मैंने उसे देखा वह होश में नहीं था, इसलिए मुझे यह भालूम नहीं कि वह कैसा आदमी था। अच्छा ही होगा। पर……”

“वे बीमार हैं ?”

“मेरा खयाल है कि अब तक जिन्दा नहीं होगा। डाक्टरों ने बताया था, कि मुश्किल से दो रातें और गुजरेंगी। यह कल सुबह की बात है।”

अलका पत्थर की तरह पत्थर की शिला पर बैठ गई।

“अलका, तुम यह मत सोचना कि मैं उसकी मौत से खुश हो रहा हूँ……बल्कि डाक्टर ने जो दवा लिखकर दी थी, वह वहां कहीं से न मिल सको। मैं आते हुए पठानकोट से वह दवा भिजवाकर आया हूँ……मैंने यह बिलकुल नहीं चाहा था कि वह जिन्दा न रहे……”

“उन्हें क्या तकलीफ थी ? छाती में दर्द था ?” अलका शिला से इस तरह उठ खड़ी हुई, जैसे अभी कुमार के पास चल देगी, और उसे बचा लेगी।

“हां, छाती में दर्द था। चेतू ने बताया था कि बाबूजी को यह

दर्द पहले भी हो जाया करता था... पर इस बार बुखार भी हो गया था, और यही बुखार दिन-व-दिन बढ़ता गया था।... वह शायद एक रात सर्दी में बैठकर झुग्गी की दीवार पर कोई तस्वीर बनाता रहा। झुग्गी की एक दीवार में दियों के लिए बहुत-से आले बने हुए हैं। वह सारी रात दिये जलाकर एक तस्वीर बनाता रहा, तभी उसकी छाती को ठंड लग गई..."

"चेतू ने मुझे..."

"चेतू का इसमें कोई कसूर नहीं, अलका ! वह यहां आकर तुम्हें खबर देता चाहता था, पर कुमार ने आने नहीं दिया।"

"मुझे आप बता देते..."

"यह मेरे जाने से पहले की बात है, अलका ! मुझे सिर्फ चेतू ने, और उसकी बेटी ने बताई थी।"

"पर..."

"मेरा ख्याल है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मुझे से ज्यादा तुम्हें पता होगा... वह शायद शुरू से ही कुछ इसी तरह था..."

"किस तरह ?...."

"चेतू कहता था, कि वाबूजी को वह मालूम ही नहीं कि तुम अमृतसर चली आई हो।"

"क्या ?...."

"वह समझता था कि तुम अभी तक अपनी झुग्गी में रहती हो... तू वहां एक झुग्गी में रहती थी न ? मैंने वे झुग्गियां भी देखी थीं..."

अलका जगदीश की ओर देखने लगी।

"मैं ठीक कह रहा हूं, अलका ! अगर वह जिन्दा भी रहता, या अब भी किसी तरह वच जाए, तो मैं जो कुछ उसके बारे में सुन आया हूं, उससे मुझे बिलकुल यह डर नहीं रहा कि वह कभी हमारी जिन्दगी में कोई दखल दे सकता है।"

"वे वच जाएंगे ?"

"वचने की बात मैंने यूंही कही है, अलका ! मुझे डाक्टर ने खुद

ही बताया था कि वह बच नहीं सकता... पर तू यह मत सोचना कि मैं उसकी मौत से खुश हूँ... मैं अब भी चाहता हूँ कि वह बच जाए... पर जिस आदमी की दिमागी हालत ठीक न हो, वह बचकर क्या करेगा!... वैसे वह आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, मैंने उसकी तस्वीरें देखी थीं।"

"दिमागी हालत ?"

"उसे शायद किसी जिन्न-प्रेत की कसर थी। यह मेरा खयाल नहीं, अलका ! मैं किसी जिन्न-प्रेत को नहीं मानता। चेतू चाचा ऐसा सोचता था... उसने बताया था कि वावूजी बैठे-बैठे किसीसे बातें करते रहते थे ; और कई बार अपने पलंग की ओर हाथ करके चेतू को पूछते थे, कि उसे पलंग पर बैठी हुई जिन्नी दिखती थी या नहीं... क्या नाम है चेतू की बेटी का, नाथी ? वह भी यही कहती थी कि वावूजी को पैरों का कोई वहम पड़ गया था। वे उससे पूछते थे कि जिन्नी के पैर उलटे होते हैं या सीधे ?... और या नींद में कहते थे, कि पानी में रेखा नहीं खिचती, रेखा का भरम होता है... यह सब शायद बुखार की बजह से होगा।"

अलका ने मुंह घुमा लिया। एक हाथ से उसने पत्थर की शिला को कसकर पकड़ा हुआ था। आंसुओं की जितनी भी बुद्धें अलका की आंखों से टपककर पत्थर की शिला पर गिरीं, शिला को लगा कि वह इन बुद्धों से पिघल जाएगी।

"अलका !" जगदीश ने पास होकर अलका के कन्धे पर हाथ रखा।

"जी !"

"मैं जानता था तुम्हें दुःख होगा। आखिर तुमने कभी उसे इतना प्यार किया था। पर यह तुम्हारे और मेरे बस की बात नहीं। जाने उसकी किस्मत कैसी थी ! वह तुम जैसी लड़की से प्यार न कर सका। पता नहीं उसके मन में क्या था। पर अब शायद यह बात ही खत्म हो गई।"

अलका से बोला न गया। उसने इन्कार में सिर हिला दिया जैसे वह कह रही हो, 'यह बात अभी खत्म नहीं हुई, यह बात कर्भ

दर्द पहले भी हो जाया करता था... पर इस बार बुखार भी हो गया था, और यही बुखार दिन-ब-दिन बढ़ता गया था।... वह शायद एक रात सर्दी में बैठकर भुग्गी की दीवार पर कोई तस्वीर बनाता रहा। भुग्गी की एक दीवार में दियों के लिए बहुत-से आले बने हुए हैं। वह सारी रात दिये जलाकर एक तस्वीर बनाता रहा, तभी उसकी छाती को ठंड लग गई..."

"चेतू ने मुझे..."

"चेतू का इसमें कोई कसूर नहीं, अलका ! वह यहां आकर तुम्हें खबर देना चाहता था, पर कुमार ने आने नहीं दिया।"

"मुझे आप बता देते..."

"यह मेरे जाने से पहले की बात है, अलका ! मुझे सिर्फ चेतू ने, और उसकी बेटी ने बताई थी।"

"पर..."

"मेरा ख्याल है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मुझे से ज्यादा तुम्हें पता होगा... वह शायद शुरू से ही कुछ इसी तरह था..."

"किस तरह ?..."

"चेतू कहता था, कि बाबूजी को यह मालूम ही नहीं कि तुम अमृतसर चली आई हो।"

"क्या ?..."

"वह समझता था कि तुम अभी तक अपनी भुग्गी में रहती हो... तू वहां एक भुग्गी में रहती थी न ? मैंने वे भुगियां भी देखी थीं..."

अलका जगदीश की ओर देखने लगी।

"मैं ठीक कह रहा हूं, अलका ! अगर वह जिन्दा भी रहता, या अब भी किसी तरह वच जाए, तो मैं जो कुछ उसके बारे में सुन आया हूं, उससे मुझे बिलकुल यह डर नहीं रहा कि वह कभी हमारी जिन्दगी में कोई दखल दे सकता है।"

"वे वच जाएंगे ?"

"वचने की बात मैंने यूही कही है, अलका ! मुझे डाक्टर ने तुम

ही बताया था कि वह बच नहीं सकता... पर तू यह मत सोचना कि मैं उसकी मौत से खुश हूँ... मैं अब भी चाहता हूँ कि वह बच जाए... पर जिस आदमी की दिमागी हालत ठीक न हो, वह बचकर क्या करेगा!... वैसे वह आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, मैंने उसकी तस्वीरें देखी थीं।"

"दिमागी हालत ?"

"उसे शायद किसी जिन्न-प्रेत की कसर थी। यह मेरा खयाल नहीं, अलका ! मैं किसी जिन्न-प्रेत को नहीं मानता। चेतू चाचा ऐसा सोचता था... उसने बताया था कि वावूजी बैठे-बैठे किसीसे बातें करते रहते थे ; और कई बार अपने पलंग की ओर हाथ करके चेतू को पूछते थे, कि उसे पलंग पर बैठी हुई जिन्नी दिखती थी या नहीं... क्या नाम है चेतू की बेटी का, नाथी ? वह भी यही कहती थी कि वावूजी को पैरों का कोई वहम पड़ गया था। वे उससे पूछते थे कि जिन्नी के पैर उलटे होते हैं या सीधे ?... और या नीद में कहते थे, कि पानी में रेखा नहीं खिचती, रेखा का भरम होता है... यह सब शायद बुखार की बजह से होगा।"

अलका ने मुंह धुमा लिया। एक हाथ से उसने पत्थर की शिला को कसकर पकड़ा हुआ था। आंसुओं की जितनी भी बुद्धें अलका की आंखों से टपककर पत्थर की शिला पर गिरीं, शिला को लगा कि वह इन बूँदों से पिघल जाएगी।

"अलका !" जगदीश ने पास होकर अलका के कन्धे पर हाथ रखा।

"जी !"

"मैं जानता था तुम्हें दुःख होगा। आखिर तुमने कभी उसे इतना प्यार किया था। पर यह तुम्हारे और मेरे बस की बात नहीं। जाने उसकी किस्मत कैसी थी ! वह तुम जैसी लड़की से प्यार न कर सका। पता नहीं उसके मन में क्या था। पर अब शायद यह बात ही खत्म हो गई।"

अलका से बोला न गया। उसने इन्कार में सिर हिला दिया, जैसे वह कह रही हो, 'यह बात अभी खत्म नहीं हुई, यह बात कभी

खत्म नहीं होगी !”

“अलका !”

“जी !”

“मैं तुम्हारे दुःख को समझता हूं, अलका ! इसीलिए मैं फिर मैं धूमधाम नहीं करूँगा । कल या परसों हम पन्द्रह मिनटों में रस्म कर लेगे, फिर मैं तुम्हें सीधा...”

“मेरा विवाह हो चुका है, जगदीश !”

“अलका !”

“काफी देर हुई, मेरा कुमार से विवाह हुआ था । पर वे स्थे कि पानी में रेखा खिच सकती है । अब उन्हें मालूम हो गया कि पानी में रेखा नहीं खिचती । इसीलिए मैं रात की गाड़ी से पास चली जाऊँगी— अपने घर चली जाऊँगी...”

“पर अलका, वह तो...”

“वे जरूर जिन्दा होंगे !”

“तुम यह भी देख लो जाकर, खुद जाकर देख लो । पर तुम्हारे जाने तक कुमार जिन्दा न हुआ...”

“फिर भी मैं वहां अपने घर रहूँगी, एक विवाह औरत की रहूँगी !”



खत्म नहीं होगी !’

“अलका !”

“जी !”

“मैं तुम्हारे दुःख को समझता हूं, अलका ! इसीलिए मैं विवाह में धूमधाम नहीं करूँगा । कल या परसों हम पन्द्रह मिनटों में यह रस्म कर लेंगे, फिर मैं तुम्हें सीधा…”

“मेरा विवाह हो चुका है, जगदीश !”

“अलका !”

“काफी देर हुई, मेरा कुमार से विवाह हुआ था । पर वे सोचते थे कि पानी में रेखा खिच सकती है । अब उन्हें मालूम हो गया है, कि पानी में रेखा नहीं खिचती । इसीलिए मैं रात की गाड़ी से उनके पास चली जाऊँगी— अपने घर चली जाऊँगी…”

“पर अलका, वह तो…”

“वे ज़रूर जिन्दा होंगे !”

“तुम यह भी देख लो जाकर, खुद जाकर देख लो । पर अगर तुम्हारे जाने तक कुमार जिन्दा न हुआ…”

“फिर भी मैं वहां अपने घर रहूँगी, एक विवाह औरत की तरह रहूँगी !”

